



छोटी बड़ी बात

आज ही के दिन 1851 में कलकता (वर्तमान कोलकाता) और डायमंड हार्बर के बीच पहली आधिकारिक टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी।

dainikbhaskarup.com

पढ़ें के पीछे की बात 'बेकार की कवायद'

पेज 10 >

पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर शब्द नहीं: विराट

पेज 11 >

देश का विश्वसनीय अखबार

दैनिक भास्कर

ज्ञांसी | वर्ष-73, अंक-325 | सोमवार 24 अक्टूबर 2022 | कुल पृष्ठ 13 | मूल्य 4.00 |



सूचना

सुधी पाठकों व विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 24 व 25 अक्टूबर (सोमवार व मंगलवार) को दैनिक भास्कर कार्यालय में अवकाश रहेगा। अतः अगला अंक आपको 27 अक्टूबर (गुरुवार) को प्राप्त होगा।

-व्यवस्थापक

बधाई संदेश

सुधी पाठकों व विज्ञापनदाताओं को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

-संपादक



भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से हराया

मेलबर्न। भारत ने टी-20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को चार विकेट से हरा दिया है। रोमांच से भरे इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 160 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने पूर्व कप्तान विराट कोहली की 53 गेंदों में शानदार 82 रन की नाबाद पारी के दम पर छह विकेट पर 160 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोहली ने अपनी पारी में छह चौके और चार छक्के लगाए। कोहली के अलावा आल्लराउडर हार्दिक पांड्या ने भी पहले गेंद से तीन विकेट लिए, फिर बाद में 40 रनों की शानदार पारी खेली। मेलबर्न में खेले गए इस मुकाबले में 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम को दूसरे रूप में पहला झटका लगा। राहुल मात्र चार रन ही बना सके। इसके बाद चौथे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा।

जले आस्था व आह्लाद के दीप

● 15.76 लाख दीपों से जगमगाई श्रीराम की अयोध्या, बना रिकॉर्ड

भास्कर ब्यूरो

लखनऊ/अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने एक बार फिर इस प्राचीन नगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस 'भव्य दीपोत्सव' को देखा-परखा और अंततः एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन को नवीन विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया। कीर्तिमान रचने में अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के शिक्षकों व छात्रों की बड़ी भूमिका रही। दीप प्रज्वलन का नियत समय शुरू होते ही 'श्री राम जय राम जय राम' के जाप के साथ एक-एक कर 15.76 लाख दीप जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या 'जय श्री राम' के



उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मंच संचालक ने जैसे ही यह जानकारी दी, समूची अयोध्या एक बार फिर 'जय सिया राम' का गगनभेदी नारों से गुंज उठी। इससे पहले विगत वर्ष भी इसी स्थान पर दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान रचा गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की ओर से इसका प्रमाण पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने इस सर्टिफिकेट को मंच पर अपने हाथों से उठाकर समूची अयोध्या का अभिवादन किया। दूसरे कार्यक्रम के पहले

दीपोत्सव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साक्षी बने। उन्होंने इस अविस्मरणीय, अद्भुत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से शुभकामनाएं दीं। हर दिल में फिर उतरे योगी 2017 में दीपोत्सव के सृजनकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन के बाद समूचे देश के दिल में उतर गए। अयोध्या से अपनी गौरवपीठ के प्रगाढ़ रिश्तों को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री ने इसे अनवरत जारी रखा। पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के पहले दीपोत्सव में भी जब यह आयोजन समृद्धतम रहा तो दीपों से दिव्य और भावनाओं से भव्य अयोध्या ने अपने योगी को फिर

अब कर्तव्य नगरी के रूप में पहचानी जाएगी अयोध्या : पीएम मोदी

लखनऊ/अयोध्या। अयोध्या भारत के महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन अराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना, हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्यावासियों पर दोहरा दायित्व है। वो दिन दूर नहीं, जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी। जहां कण-कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन-जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे श्रीराम ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्यावासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्यनगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। अयोध्या सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहां के रास्ते चौड़े हों, सुदृढ़ता अप्रतिम हो, इसके लिए योगी सरकार अनेक प्रयास कर रही है। अगर अयोध्यावासियों का साथ मिलेगा तो अयोध्या की दिव्यता और भी निखर जाएगी। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रविवार को दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कहीं। इससे पहले उन्होंने भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक भी किया और राम दरबार में रामलला के दर्शन व पूजन के अलावा राममंदिर निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया।

दिल में बैठा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी लोकप्रियता की बात कही। 2017 में जले थे 1.71 लाख दीप, हर वर्ष बढ़ती गई समृद्धि 2017 में अयोध्या में 1.71 लाख, 2018 में 3.01 लाख, 2019 में

4.04 लाख, 2020 में 6.06 लाख व 2021 में 9.41 लाख दीप प्रज्वलित किये गए थे। इस बार (2022) 15.76 लाख दीपों का रिकॉर्ड बना। योगी सरकार में हर वर्ष बढ़ते दीपों के साथ प्रदेश व देश की समृद्धि बढ़ती गई।

अयोध्या के रज-रज के कण-कण में है श्रीराम : पीएम मोदी



दीपों से जगमगाई प्रभु श्रीराम की अवधपुरी



अयोध्या में खुशी, उत्साह व भक्ति का माहौल



इसरो की बड़ी छलांग, 36 उपग्रहों को लेकर एलएमवी-3 राकेट ने मरी उड़ान

एजेंसी

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने शनिवार-रविवार आधीरात बाद 12:07 बजे अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। इसरो ने इतिहास रचते हुए वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के सबसे भारी राकेट 43.5 मीटर लंबे एलवीएम-3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) ने ब्रिटिश स्टार्टअप के 36 उपग्रहों को लेकर उड़ान भरी। प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। एलवीएम3-एम2/वनवेब इंडिया-1 मिशन के तहत इन संचार उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में



स्थापित किया गया। 8,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने में एलएमवी-3 सक्षम है। इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने प्रक्षेपण पर खुशी जताते हुए कहा कि दुनिया में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए राकेट की कमी है। ऐसे में भारत अपने एलवीएम-3 राकेट के साथ वैश्विक वाणिज्यिक

उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में इस कमी को दूर कर सकता है। वनवेब निजी उपग्रह संचार कंपनी है। भारत की कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेज वनवेब में एक प्रमुख निवेशक और शेयरधारक है। इस प्रक्षेपण के साथ ही 'एलवीएम-3' वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखेगा। 'एलवीएम-3' को पहले 'जीएसएलवी एमके-3' राकेट के नाम से जाना जाता था। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा के तहत काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम (सीपीएसई) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ने ब्रिटेन स्थित वनवेब के साथ दो प्रक्षेपण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बस-ट्रक मिडैट में चार की मौत

इटवा। इटावा जिले में थाना सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 103 पर डबल डेकर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में चालक, सह चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई है। हादसे में करीब 45 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करा दिया गया है। इनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों का बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के 103 माइलस्टोन टिमरुआ के पास रात करीब ढाई बजे देवरिया से जयपुर की ओर जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई।

बिहार के औरंगाबाद में डूबने से चार किशोरियों सहित पांच की मौत

एजेंसी

पटना/औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले में उपहारा थानाक्षेत्र के हमीदनगर गांव के पुनपुन नदी के कुसुमरा घाट के समीप नदी में स्नान करने के दौरान रविवार को चार किशोरियों सहित पांच की मौत हो गई। पुलिस ने



स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक शव को ढूंड निकाला है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक हमीदनगर गांव के गनौरी भगत की 14 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी, विजय भगत की 15 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, बखेरी विश्वकर्मा की 14 वर्षीय पुत्री निधि कुमारी एवं हरिद्वार भगत की 13 वर्षीय पुत्री छोटी कुमारी दीपावली पर घर का कपड़ा धोने के लिए पुनपुन नदी में गई थीं।

मिग-29 विमान का उन्नत तकनीकी जीवन 2025 से समाप्त होना होगा शुरू

पाक मोर्चे पर तैनात किए गए उन्नत मिग-29 यूपीजी लड़ाकू विमान

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने अपने उन्नत मिग-29यूपीजी लड़ाकू विमानों को श्रीनगर में तैनात किया है। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी हवाई हमले को देखते हुए यह तैनाती की गई है। इसी के साथ वायु सेना मिग-29यूपीजी का कुल तकनीकी जीवन (टीटीएल) 10 वर्षों तक बढ़ाने की योजना बना रही है। अभी मिग-29 लड़ाकू विमानों का टीटीएल 40 साल है, जिसे दूसरा जीवन विस्तार देकर 50 साल किये जाने पर विचार किया जा रहा



है। मिग-29 का उन्नत तकनीकी जीवन 2025 से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। भारतीय वायु सेना फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स मिग-29 के बेड़े के लिए दूसरा जीवन विस्तार कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है, जो उनकी सेवा अवधि

को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर देगा। 1986 में शामिल किये गए मिग-29 का पहला जीवन विस्तार कार्यक्रम 2000 के दशक के मध्य में शुरू किया गया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने संसद में मिग-29 के तकनीकी जीवन को 25 वर्ष से बढ़ाकर 40

वर्ष किये जाने की जानकारी दी थी। वायु सेना सूत्रों के अनुसार मिग-29 विमान का उन्नत तकनीकी जीवन 2025 से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। पहले से ही लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या कम होने और बेड़े में शामिल होने वाले विमानों की धीमी प्रगति को देखते हुए मिग-29 के बेड़े को अधिकतम समय तक सेवा में प्रभावी रखना जरूरी हो गया है। वायु सेना सूत्रों के अनुसार इस परियोजना को नासिक के पास वायु सेना के 11 नंबर बेस रिपेयर डिपो में पूरा किया जाएगा, जिसे रूसी मूल के लड़ाकू विमानों की मरम्मत और ओवरहाल के लिए अधिकृत किया

गया है। इसमें केवल भारतीय फर्मों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इस परियोजना के तहत विमान के एयरफ्रेम, इंजन, एवियोनिक्स, सब-असेंबली, परीक्षण, उड़ान डेटा का विकास, जंग हटाने, भार वहन करने वाले क्षेत्रों की मरम्मत और मजबूती जैसे संरचनात्मक संशोधन शामिल हैं। वायु सेना तीन स्क्वाड्रन में रूसी मूल के लगभग 66 मिग-29 लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। इनमें दो स्क्वाड्रन आदमपुर और जामनगर में स्थित हैं, जबकि तीसरी को हाल ही में एक मिग-21 स्क्वाड्रन को बदलने के लिए श्रीनगर भेजा गया है।



मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ



प्रिन्स खटीक जिला उपाध्यक्ष



शिवम सोनी जैतपुर नगर अध्यक्ष



आशीष रावत जिला उपाध्यक्ष



आशीष महाराज प्रदेश महामंत्री



नीरज पांडेय जिला अध्यक्ष



चन्द्रकांत त्रिपाठी (बउआ महाराज) जिला महामंत्री



चन्द्रकांत त्रिपाठी (बउआ महाराज) जिला महामंत्री



योगी आदित्यनाथ युवा बिग्रेड धनतेरस दीपावली एवं माई दोज की हार्दिक शुभकामनाएं

बाहरी किसानों को खाद बेचने पर उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध दर्ज होगा मुकदमा:डीएम



निर्देश देते डीएम।

दिया कर निर्धारित मूल्य पर खाद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सहकारी समितियों पर डीएपी मिलेगी जिन समिति के सचिव के पास एक से अधिक समिति का प्रभार है, वे क्रमिक रूप से क्षेत्र के किसानों को सूचित करके खाद वितरण करेंगे। रबी सीजन की बुवाई के समय यदि समिति के पास उर्वरक उपलब्ध है तो वे समितियों अवकाश के दिनों में भी खुली रहेंगी। ताकि किसानों को खाद मिल सके और समय से बुवाई कर सकें।

चित्रकूट जिले को 21976 बोरी डीएपी खाद मिलने से किसानों में खुशी की लहर

उर्वरक अनुश्रवण के लिए बना कंट्रोल रूम: जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य के बाहर या गैर जनपदों के किसानों को खाद बेचने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। बताया कि कृषि विभाग के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम के जरिये इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सूचना दे सकता है। उनका नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा उर्वरक वितरण के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर 8423128862, 7839882701 है, जिस पर प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक फोन करके किसान भाई अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

पुलिस अफसरों ने मेला सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा



मेला क्षेत्र का भ्रमण करते एएसपी व सीओ।

चित्रकूट। अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी के साथ सीओ सिटी हर्ष पाण्डेय ने रामघाट, मत्स्यगयेन्द्रनाथ मन्दिर, परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर दीपावली मेला की व्यवस्था का जायजा लिया। रविवार को एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी व सीओ सिटी हर्ष पाण्डेय ने रामघाट, मत्स्यगयेन्द्रनाथ मन्दिर, परिक्रमा मार्ग एवं पाकिंग स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण में दुकानदारों से बात कर परिक्रमा

मार्ग में अतिक्रमण न करने के निर्देश दिये। ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को चेककर दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने अभावस्था मेला की बाबत कर्मी कोतवाल अवधेश कुमार मिश्रा को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि मेला में आने वाले वाहनों को चिन्हित पाकिंग स्थलों में खड़ा करना को यातायात प्रभारी योगेश कुमार यादव को निर्देश दी। निरीक्षण में कर्मी कोतवाल अवधेश मिश्रा व प्रभारी यातायात योगेश कुमार यादव आदि मौजूद रहे।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज ई-प्राण निविदा सूचना 06/2022-23 दिनांक 20.10.2022

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, झांसी द्वारा निम्नलिखित भद के लिए ई-प्राण निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	निविदा संख्या	विवरण	मात्रा	निविदा खुलने की तिथि
1.	92226309	सप्लाई, कमीशनरिंग एंड इंस्टालेशन ऑफ टूक बेड रेल लुब्रिकेटर (हाइड्रोलिक टाइप) कम्पलीट सिस्टम	07 नग	15.11.2022

नोट: उपरोक्त ई-प्राण निविदा का पूरा विवरण IREPS वेबसाइट <http://www.ireps.gov.in> पर उपलब्ध है। 1442/22 (ADM)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR @northcentralrailway

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज ई-टेंडरिंग निविदा सूचना

निविदा सूचना सं. JHS/Br/L/2022-23/07 दिनांक 21.10.2022

उप मुख्य इंजी. ब्रिज/लाइन/उत्तर मध्य रेलवे, झांसी, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित निर्धारित कार्य के लिये ई-निविदा निर्धारित प्रथम पर दिनांक 11.11.2022 को 15.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है-

निविदा सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य (₹)	बयाने की रकम (₹)
Br-JHS 2022-08	झांसी डिवीजन पर महत्वपूर्ण और प्रमुख पुलों के त्रिकोणीय खुले वेब गार्ड की रीसिंग करना और झांसी डिवीजन में AXEN/Br/L/JHS के तहत खैराबा-भोमसेन खण्ड में पुल सं. 1367/2 की रीसिंग करना।	1,18,95,203.50/-	2,09,500/-

कार्य समाप्त की अवधि: 12 महीना, निविदा खुलने की तिथि: 11.11.2022, सिमिलर वर्क के लिये न्यूनतम वारंतीय आधार: कोई भी ब्रिज पेंटिंग का कार्य। नोट: 1. उपर्युक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण निविदा प्रथम सहित वेब साइट www.ireps.gov.in पर समय 15.00 बजे तक निविदा खुलने की तिथि दिनांक 11.11.2022 तक उपलब्ध है। 2. उपर्युक्त निविदा में ई-बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेबसाइट को चाहिए कि वे अपने आपको 1. I.T.Act- 2000 के अन्तर्गत C.C.A. द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत कराये। 3. निविदा की दरें केवल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइनेंसियल रेट पेज पर ही विचारणीय है। दरें तथा अन्य वित्तीय प्रमाण अन्य किसी भी फार्म/लेटर हेडपर यदि संलग्न है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सीधी तौर पर अमान्य कर दिया जायेगा। 4. संलग्न किये जाने वाले सभी प्रथम निविदाकर्ता द्वारा साक्षरित होने चाहिये। 5. बिड सिम्बोलिटी की रफि केलन नेट बैंकिंग अथवा गेट वे भुगतान के रूप में ही स्वीकार की जायेगी। 6. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिये IREPS की वेबसाइट की हेल्पमाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 7. आनलाइन निविदा दिनांक 11.11.2022 15.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। 1458/22 (ADM)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR @northcentralrailway

आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाने का लिया गया संकल्प

सातवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन



प्रतियोगी को सम्मानित करते भाजपा जिलाध्यक्ष।

चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद चित्रकूट के निर्देशन में आज चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्मी में जिला आयुष सोसायटी चित्रकूट के तत्वाधान में आयुर्वेद को हर दिन हर घर में पहुंचाने के उद्देश्य से सातवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ आशुतोष तिवारी नोडल आयुर्वेद विभागे ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के अंतर्गत भरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता विषय को जनसंदेश जन भागीदारी एवं जन आंदोलन के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके जनचेतना जागृत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा का पूजा अर्चन कर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर के मुख्य अतिथि रहे भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे एवं उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा लवलेश निषाद ने एवं सीआईसी के प्रधानाचार्य रणवीर सिंह चैहान ने

किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरंतर आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में अनेक प्रकार के कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि पूर्ण रूप से प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधियों पर आधारित है। यह चिकित्सा पद्धति इतनी वैज्ञानिक है कि प्रत्येक पुरुष को इसकी प्रकृति के अनुसार एक ही बीमारी पर अलग-अलग औषधियों का निर्देश करती है। ऐसे आयोजनों से निश्चित रूप से आयुष विधा को बढ़ावा मिलेगा और हम दैनिक जीवन में इसके प्रयोग से निरोग रह सकेंगे।

वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉ0आर एस चैहान ने बताया कि आयुर्वेद का ज्ञान लुप्त हो रहा था परंतु जब से केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है निरंतर हमारी प्राचीन परंपराओं एवं विधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सभी आयुर्वेद चिकित्सकों को अपनी पद्धति द्वारा जन मानस की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ0 नीतू सिंह, डॉ0अखिलेश सिंह, फार्मसिस्ट विनय मिश्रा, सुनील उपाध्याय, सुशील शुक्ला, राम सागर विश्वकर्मा, वाई बॉय मोती लाल चैधरी के सहयोग द्वारा निशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां जैसे चवनप्राश अश्वगंधा आयु रक्षा कित

अग्नि शमन अधिकारी ने परखी पटाखा दुकानों की सुरक्षा

दीपावली पर्व के मददेनजर की गई जांच

चित्रकूट। एसपी अतुल शर्मा के निर्देश पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा सीआईसी कर्मी परिसर में लगी पटाखा की दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।



जांच करते अग्नि शमन अधिकारी।

दीपावली पर्व को दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी यतीन्द्रनाथ उमराव एवं उनकी टीम द्वारा सीआईसी ग्राउण्ड में लगी पटाखा की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। चेकिंग के दौरान अग्नि शमन अधिकारी द्वारा सभी दुकानदारों के लाइसेंस, पानी की व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण एवं दुकानों की गैंगिंग की जांच की गई। इसके अलावा अग्निशमन टीम द्वारा दुकानदारों को अग्निशमन उपकरण के प्रयोग के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं चलाकर बताया गया इसके साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दुकानदारों को बिजली के तारों को व्यवस्थित करने एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

जनता की सेवा के लिए लड़ेगा नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव: शानू गुप्ता




व्यापारी नेता शानू गुप्ता।

चित्रकूट। व्यापारी नेता/भाजपा नेता शानू गुप्ता ने कहा कि जनता के बीच सर्वे करा लिया जाये, तो भाजपा उन्हें ही नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का टिकट देगी। कोई कुछ भी कहे, वह तो हर हाल में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव जनता के बूते लड़ेगा ही। रविवार को व्यापारी नेता/भाजपा नेता

शानू गुप्ता ने एक भेंट में कहा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी भाजपा से टिकट पाने को जोर आजमाइश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जनता के बीच सर्वे करवा लें तो टिकट उन्हें ही मिलेगा। ये बात भी जोरदार ढंग से कही कि अब तक उन्हें यूज एण्ड थ्रो ही समझा गया है। अब वह भी मंत्रे हुए खिलाड़ी की भांति सबकुछ समझ गये हैं। वह किसी के इशारे पर इस्तेमाल नहीं होंगे। जनता को ही फैसला करना है कि उन्हें कैसा अध्यक्ष चाहिए। जनता का शोषण करने वाला या सेवा करने वाला। शानू गुप्ता ने खुलकर कहा कि उनकी कालोनी की सड़क व बिजली के पोल लगवाने का दावा करने वाले ये बात न भूलें कि सड़क व बिजली के पोल लगाने का प्रस्ताव पूर्व ईओ लालचन्द्र सरोज के कार्यकाल में ही पास हो गया था। ऐसे में उन पर एहसान लाने वाले इस भ्रम में कतई न रहें कि उनका किसी ने कोई सहयोग किया है। वह सहयोग का बदला सहयोग से देना भलीभांति जानते हैं। जनता ने उन्हें सहयोग किया तो वह जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। किसी तरह की एरिस्टोक्रेसी उनके अन्दर नहीं है। न वह अभिजात्य तंत्र में विश्वास रखते हैं। उनका विश्वास तो जनता के बीच में है। जनता का हर फैसला उन्हें मान्य होगा।

राजनीति के पुरोधे रामसजीवन सिंह के अस्त होते ही बुंदेलखंड से डूब गया कम्युनिष्ट पार्टी का सितारा



पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ

रतन पटेल, चित्रकूट उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का हमेशा केंद्र रहा है। पूरे देश और प्रदेश में जब कांग्रेस की बयार बह रही थी। उन दिनों किसी अन्य दल का यूपी में कोई खास वजूद नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों बुंदेलखंड के चित्रकूट में जनमें रामसजीवन सिंह ने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर चार बार विधायक और बार बार बांदा लोकसभा सीट से सांसद बनकर कांग्रेसी दिग्गजों को हैरानी में डाल दिया था। वहीं कांशीराम के मूवमेंट से प्रभावित होकर बसपा में शामिल होने वाले

रामसजीवन दो बार बसपा से भी लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। राजनीति के इस पुरोधे के अस्त होने के साथ बुंदेलखंड से कम्युनिष्ट पार्टी का सितारा भी हमेशा के लिए डूब गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के छोटे से गांव सोनेपुर में किसान चुनौतीलाल के घर 02 जनवरी 1929 को जन्मे रामसजीवन सिंह बाल्यकाल से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्मी में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के बाद पूरब के आक्फोर्ड के रूप में विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र से परास्नातक की डिग्री हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने कई वर्षों तक इलाहाबाद के एक समाचार पत्र में बतौर उपसंपादक भी काम किया था। वहीं क्षेत्र के गरीबों, मजदूरों और व्यापारियों पर दाद और दवांगों के बढ़ते अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने वर्ष 1962 में राजनीति में कदम रखा। यूपी के कोई वजूद न होने के बावजूद भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले रामसजीवन सिंह ने 1969 से 1989 के बीच चार-बार चित्रकूट जिले की कर्मी विधानसभा से विधायक रहे। इसके बाद 1989 में रामसजीवन सिंह ने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के टिकट से बांदा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। बुंदेलखंड से इक्कीस विधायक और बाद में सांसद बनने के कारण रामसजीवन सिंह का कम्युनिष्ट पार्टी में खासा महत्व रहा है। कम्युनिष्ट पार्टी ने सदस्य रामसजीवन सिंह को प्रदेश कार्यसमिति का पदस्थ और बांदा जिले के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में उनका कद बढ़ाते हुए एपई ने उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया। इसके बाद कांशीराम के 1996 में मूवमेंट से प्रभावित होकर रामसजीवन सिंह ने 1986 में

तीन किलो गांजा के साथ पुलिस ने एक को दबोचा

चित्रकूट। जिले की सरधुवा पुलिस टीम ने 03 किलोग्राम सरधुवा गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करि एवं बिक्री की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवनरेश यादव पुत्र ननू यादव निवासी चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 03 किलोग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में मुकदमा अपराध संख्या 58/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष सरधुवा प्रवीण कुमार सिंह, उप निरीक्षक सत्यमणि त्रिपाठी, उप निरीक्षण मिश्रा एवं आरक्षी अमित सिंह आदि शामिल रहे।

सार सुर्खियां

दीपावली मेले में बाधित न हो विद्युत आपूर्ति: ब्रजेश कुमार



चित्रकूट। रोशनी के पर्व दीपावली पर बिजली विभाग तपोभूमि चित्रकूट में बिना कटौती के 24 घंटे निबांध बिजली आपूर्ति करने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों ने एसडीओ और जेई सहित सभी कर्मियों को उपकेंद्र तक आने वाले 11 और 33 हज्जार वोल्ट के तारों की पेट्रोलिंग कर मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत वितरण खंड चित्रकूट के अधीक्षक अभियंता ब्रजेश

कुमार ने बताया कि दीपावली पर भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में पांच दिवसीय दीपदान मेला होगा है। जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट आते हैं। ऐसे चित्रकूट विद्युत वितरण खंड से जुड़े सभी इलाकों को बिना टिपिंग 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विद्युत विभाग ने क्षेत्र को सर्कल में बांटने के साथ ही प्रत्येक सर्कल के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। 24 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या बिजली आपूर्ति बाधित होने पर होती है। किसी भी क्षेत्र में बिजली गुल न हो, इसके लिए विद्युत विभाग विभिन्न तैयारियां कर रहा है। विभागीय अधिकारियों ने एसडीओ सहित अन्य कर्मचारियों को उपकेंद्र तक आने वाले सभी 33 व 11 हज्जार वोल्ट के तारों की पेट्रोलिंग कर उनकी जांच करने के आदेश दिए हैं। कहा है कि सभी तारों को भली प्रकार चिक्रक्या जाए। साथ ही खंबों पर लगे इंसुलेटर्स की भी पड़ताल की जाए ताकि पूर्व पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

दीपावली में गरीबों के घर रोशन करने को सेवा भारती ने बांटे दीपक



चित्रकूट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा सेवा भारती जनपद चित्रकूट इकाई द्वारा नगर पालिका क्षेत्र एसडीएम कॉलोनी के शास्त्री नगर की दलित बस्ती में गरीबों को घर रोशन करने के लिए दीपक तेल बत्ती और पूजन सामग्री वितरित की गई इस पुनीत कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभागा प्रचारक मनोज जी जिला विभागा प्रमुख अंशुमान सिंहमौजूद रहे उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे विश्व का सबसे बड़ा सेवा संगठन है इसमें जात पात भाषा क्षेत्र का कोई भेद नहीं होता है त... का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करके उसे मुख्यधारा में जोड़ना है। जिनके घरों में दीपावली के दिन घर रोशन करने के लिए दीपक तेल खरीदने की सामर्थ नहीं है सेवा भारती उनके घर को रोशन करने का सराहनीय काम कर रही है जिला मंत्री जी पी शुक्ला सह जिला मंत्री राजकिशोर शिवहर राजकिशोर त्रिपाठी शिव कुमार गुप्ता जिला प्रचार प्रमुख शंकर यादव मोहल्ले के युवा समाजसेवी अरुण राज छोटे लाल त्रिपाठी पंडित राम यश ओझा बृज मोहन उपाध्याय रजनीश मौर्य दिनेश सविता कैलाश पटवा मुन्नीलाल कोटाथी रामफल कोटाथी वीरेंद्र कोटाथी रामबाबू आदि इस पुनीत अवसर पर मौजूद रहकर गरीबों को दीपावली पूजन सामग्री व तेल दीपक वितरण कार्यक्रम में सराहनीय योगदान दिया।

पंचकोसी परिक्रमा से मिलता लोगों को रोजगार चित्रकूट। दीपावली अभावस्था मेला में पंचकोसी परिक्रमा भी आकर्षण का केंद्र है। हजारों तीर्थयात्री इस दुर्गम परिक्रमा को प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। जंगल में मंगल नजर आता है और दर्जनों ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। रविवार को बुन्देली सिना जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि पंचकोसी परिक्रमा गणेशबाग से सिद्धपुर गांव होते हुए बांकेसिद्ध पहुंचती है। इसके बाद हवाई पट्टी के किनारे से पम्पासुर कोटीतीर्थ होते हुए हनुमानधारा से रामघाट पहुंचती है। दशकों से दीपावली में पंचकोसी परिक्रमा जारी है। इस बार भी हजारों की तादाद में तीर्थयात्रियों ने पंचकोसी परिक्रमा की। यह परिक्रमा पहाड़ों की चढ़ाई से शुरू होकर पहाड़ों से ही गुजरती है। गणेशबाग से बांकेसिद्ध के बीच दर्जनों ई-रिक्शा और वाहन चलाते नजर आए। बांकेसिद्ध आश्रम पहाड़ के नीचे जंगल में भोग प्रसाद से लेकर टिकिया, चाट, पकौड़ी की दर्जनों दुकानें सजी रहीं। यह दुकानें सिद्धपुर के ग्रामीण लगाते आए हैं। गांव के प्रधान रामकिशोर उर्फ भगतजी ने रास्ते की साफ-सफाई कराई थी। सिद्धपुर के ग्रामीण श्रद्धालुओं को रात्रि विभाग की व्यवस्था करते हैं। अजीत सिंह ने पर्यटन विभाग से बांकेसिद्ध का सुंदरीकरण कराए जाने की मांग की है। यहां के लगभग तीन सौ मीटर अधूरे मार्ग का उन्मूलन और आश्रम की बगिया में टीनशेड आदि लगवाने की मांग की है।

चार बार विधायक और तीन बार सांसद रहे चित्रकूट के रामसजीवन सिंह

कम्युनिष्ट पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद से आज तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से कम्युनिष्ट पार्टी का खाता नहीं खुला सफा। रामसजीवन सिंह के राजनीतिक जीवन एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी रही कि जब 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसके बाद लगे आपातकाल में उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेल में रहकर चुनाव लड़ा और करीब साढ़े 12 हजार रिकार्ड मतों से चुनाव जीतकर कीर्तमान स्थापित किया था। वहीं बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े चित्रकूट जिले के गरीबों-मजदूरों की आवाज बन कर उभरे कददावर नेता रामसजीवन ने बसपा के टिकट से वर्ष 1996 में दूसरी बार तथा वर्ष 1999 में तीसरी बार बांदा लोकसभा सीट चुनाव जीतकर सांसद बने। बुंदेलखंड की राजनीति में तमाम माहिर खिलाड़ी रहे, लेकिन एक ही सीट से चार बार विधायक और तीन बार सांसद बनने का सौभाग्य शायद ही किसी राजनेता को मिला हो। सादागी के विरोधी भी रहे कायल: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से चार बार विधायक और बांदा लोकसभा सीट से तीन बार सांसद रहे रामसजीवन सिंह का राजनीतिक जीवन भी बड़ा सादागी भरा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान वह हमेशा अपने साथ रोंटी, नमक और मिचं बांधकर घर से निकलते थे। मौत से छा गया था मांथकर: गरीबों के मसीहा रहे रामसजीवन सिंह की मृत्यु 16 जुलाई 2008 में हुई थी। इनकी मौत की खबर से पूरे चित्रकूट और बांदा जिले में शोक की लहर दौड़ गई थी। अन्तिम संस्कार में हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए थे।

सी-प्लान एप ने अपनों से मिलाया: भटकते हुए झाँसी पहुंची, दस साल बाद परिवार से मिली

दस साल पहले परिजनों से बिछड़ गई थी महिला

झाँसी। अपनों से बिछड़ी सिद्धार्थनगर की रहने वाली महिला दस साल बाद परिजनों को मिल गई। महिला को देखकर परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। परिजन महिला के मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन झाँसी के सी-प्लान एप की मदद से महिला उन्हें मिल गई। परिजन महिला को लेकर झाँसी से सिद्धार्थनगर ले गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के निदेशन में लहचूरा थाना प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ मय हमराह पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र लहचूरा मार्ग पर ग्राम भटपुरा व रोरा के मध्य भ्रमणशील थे। इसी दौरान रास्ते में एक अर्ध-विश्रित महिला सड़क पर टहलते हुए मिली। नाम पता पूछे जाने पर वह सिर्फ अपना नाम



लक्ष्मी बता पा रही थी। काफी प्रयास करने पर वह अपना गांव को नाम वपसी बता पाई। उक्त महिला को थाना लहचूरा लाया गया तथा खाना खिलाया गया। महिला द्वारा बताया गया गांव की जानकारी करायी गयी जो जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिसरीली के अन्तर्गत ग्राम वपसी होने की जानकारी प्राप्त हुयी। प्रभारी निरीक्षक थाना लहचूरा द्वारा तत्काल सी-प्लान एप की मदद से

उस गांव के ग्राम प्रधान का फोन नंबर प्राप्त कर ग्राम प्रधान से संपर्क किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा उसकी पहचान करने पर बताया कि उक्त महिला का नाम लक्ष्मी पुत्री संतराम निवासी ग्राम वपसी थाना मिसरीली जिला सिद्धार्थनगर है व उक्त महिला उसी गांव की रहने वाली है। तत्पश्चात ग्राम प्रधान को व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर उस महिला को दिखाया गया जिसे उसने पहचान

कर बताया कि वह उसके गाँव के रहने वाले है। ग्राम प्रधान द्वारा सूत्र में रह रहे महिला के परिजनों से संपर्क किया गया जिस पर परिवारजनों द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री करीब 10 वर्ष पूर्व लापता हो गयी थी और तभी से वह लोग उनकी तलाश कर रहे है, परन्तु उसका कहीं पता नहीं चल सका। अपनी पुत्री की जानकारी पाकर महिला के परिजनों ने झाँसी

पुलिस का आभार व्यक्त करते हुये खुशी जाहिर की। और उसकी मां और भाई तत्काल उसे लाने हेतु निकल पड़े और आज सुबह ही थाना लहचूरा आये और बेटी को गले लगा लिया तथा झाँसी पुलिस की भुर्रि-भुर्रि सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। उसके उपरांत सभी को सम्मान खाना खिलाकर हर संभव मद्दत कर सकुशल थाने से विदा किया गया।

राधेश्याम राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर अरुण कुमार गौतम के निकट पर्यवेक्षण में थाना बड़ागाँव पुलिस टीम ने लूट करने की योजना बनाते समय हाइवे किनारे दिगारा से डिमरौनी रोड़ पर पंजाब यादव उर्फ आकाश निवासी ग्राम डिमरौनी थाना बड़ागाँव, पवन यादव निवासी ग्राम डिमरौनी थाना बड़ागाँव, सोनु उर्फ मानवेन्द्र खरे निवासी ग्राम पिरौना थाना एट जिला जालौन को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दो देशी तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद खोखा, एक अदद मिस फायर कारतूस, एक अदद चाकू, एक अदद सबलनुमा सरिया, एक अदद प्लास, एक अदद तारकटर, चाँबियों के गुच्छा, मोटर साइकिल एचएफडीलक्स न. (एमपी 33- एमए 8550) व प्लेटिना न0 (एचआर 72 सी 6332) जो की फर्जी नम्बर प्लेट लगी है बरामद की है।

सार सुखियां

चाइल्ड लाइन ने धनतेरस के दिन मनाई जौहर नगर के बच्चों के साथ दीपावली



झाँसी। परमार्थ समाज सेवी संस्थान के द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन परियोजना के द्वारा शहर की जौहर नगर मलिन बस्ती के बच्चों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया गया। शहर के जौहर नगर मलिन बस्ती के ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है ऐसे में परिवार का खर्च चला पाना बेहद कठिन हो जाता है यहाँ के ज्यादातर लोग छोटा-मोटा काम धंधा कर अपनी गुजर बसर करते है। चाइल्ड लाइन के द्वारा दीपावली के अवसर पर सभी बच्चों को 1098 की उपयोगिता और कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं अथवा जो कही जौघिका चलाने के लिए काम करते है या भिक्षावृत्ति में लिप्त है उन बच्चों को मुख्यमंत्री सामान्य योजना से जुडवा कर उन्हें सरकार से मासिक मानदेय प्रदान कराने में चाइल्ड लाइन 1098 बच्चों का पूरा सहयोग करती है। सभी बस्ती के सभी बच्चों के साथ दिवाली के मौके पर मिल-जुल कर दीप जलाकर दिपो का त्यौहार मनाया, साथ ही सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन की तरफ से मिठाई भी वितरित की गयी। सभी बच्चों को आतिशबाजी न करने के लिए प्रेरित किया गया और आतिशबाजी करते वक्त सावधानी बरतने को कहा गया। दीपावली दिपो का उत्सव है इसे दीप जलाकर हम सबको साथ में खुशी-खुशी मनाना चाहिए। इस अवसर पर चा ला टीम से समन्वयक हेमन्त सिंह, अभिषेक, राखी, मंजू, रितुराज आदि लोग उपस्थित रहे।

कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया पटेल सप्ताह का शुभारंभ



झाँसी। पटेल सेवा संस्थान भेल के द्वारा अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह निरंजन (पूर्व IAS, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन व बुदेलखंड के प्रभारी अध्यक्ष अवधेश निरंजन का सम्मान किया गया। संस्थान द्वारा विगत वर्षों की भांति अखंड भारत के निर्माता भारत रत्न लालू पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रमों को पटेल सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। पटेल सप्ताह का उद्घाटन करते हुए आज छात्र-छात्राओं की ड्राइंग निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सरदार बल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय भेल टाउनशिप में किया गया। जिसके मुख्य अतिथि ने बच्चों को ड्राइंग शीट एवं निबंध हेतु पेपर वितरित किया युवाओं ने अपने भाषण शैली से सबका मन मोह लिया कार्यक्रम को उद्घोषण करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पटेल सेवा संस्थान निरंतर समाज सेवा और देश की सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है नव भारत निर्माण के लिए देश के बच्चों को अलग-अलग क्षेत्र में युवाओं के लिए जो कार्यक्रम संस्थान आयोजित करता है निश्चित रूप से नव निर्माण देश के लिए एक अच्छी पहल है युवाओं को आगे बढ़ने का इन कार्यक्रमों से मौका मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने संस्थान के समस्त सदस्यों को ऐसे कार्य करने के लिए बधाइयां दी। बुदेलखंड अध्यक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं बरसों से पटेल सेवा संस्थान के कार्यक्रमों में भाग लेता रहा हूँ ड्राइंग निबंध भाषण दौड़ प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रम यह समस्त कार्यक्रम संस्थान बच्चों के करता है जिससे देश को नई प्रतिभा निखर कर आगे आए और देश की सेवा में अपना योगदान प्रदान करें कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा में के क्षेत्र में एक नई अलख जगाने वाले मा. रामगोपाल निरंजन (प्राचार्य विलेज इंटर कॉलेज एवं प्रबंधक विलेज बालिका महाविद्यालय) राजगढ़ ने की।

कार्यक्रम में डॉ के एन सचान, जीएल निरंजन, राम सिंह, आर पी चौधरी, उदय कुमार, वीरेंद्र कुमार, ओपी निरंजन, उमाशंकर वर्मा, कैलाश निरंजन जी पी कनौजिया, कमलेश निरंजन, अवध बिहारी सिंह, जेपी वर्मा, महेंद्र निरंजन, सुधुशु निरंजन, योगेन्द्र निरंजन, अनिल पटेल रोहित निरंजन संतोष निरंजन शिव कुमार पटेल संतोष सिंह देवेन्द्र निरंजन आदि उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन संस्थान के महामंत्री पटेल कुंवर वीरेंद्र निरंजन ने किया अंत में सभी का आभार अध्यक्ष बेनी प्रसाद वर्मा ने व्यक्त किया।

नौनिहालों के साथ मनाई दीपावली

झाँसी। प्रयास सभी के लिए के तत्वाधान में आज छोटी दिवाली के दिन संस्था के केंद्रीय संयोजक मनमोहन गेड़ा की अध्यक्षता एवं भारतीया जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रामनरेश तिवारी व झाँसी महानगर जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा के सांनिध्य में सुकवां दुकवां कॉलोनी स्थित बस्ती में नौनिहालों के साथ दीपावली मनाई, इस अवसर पर अतिथियों ने बच्चों को नए वस्त्र, मिट्टी के दीये, मिष्ठान, फल व आतिशबाजी देकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। सामग्री पाकर बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। कार्यक्रम का संयोजन विशाल ठाकुर और सोनु ठाकुर ने, संचालन केंद्रीय सह संयोजक सुनील खरे एवं कोषाध्यक्ष सुजीत अग्रवाल ने व आभार ज्ञानप दीपक साहू ने किया। इस मौके पर रतन कुशावाहा, उषा सेन, देवेश मिश्रा, अंबिका श्रीवास्तव, विक्रम सेठ बन्टी, गोविंदा ठाकुर, आकाश, शंकर, राजा साहब, विक्रम यादव, किशोरी, प्रमोद, सोमर दुबे आदि उपस्थित रहे।

अस्पताल के चेंजिंग रूम में नर्सों का वीडियो बनाने का प्रयास

झाँसी। जिला महिला अस्पताल के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही नर्सों का वीडियो बनाने का प्रयास किया। जानकारी होने पर नर्सों ने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। तब कर्मचारी ने गली गलौज करते हुए रूम के गेट में लात मारना शुरू कर दिया। शोक पर पहुंची अस्पताल की सीएमएस मूक दर्शक बनी रही। कर्मचारी शराब के नशे में बतलाया जा रहा है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि शनिवार की अस्पताल की नर्स ब्रोनिका, पूजा पाल और आरती अपनी ड्यूटी खत्म कर चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थीं। तभी अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी जम्बरन शराब के नशे में आया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। इस नर्सों ने विरोध किया तो वह गली गलौज करने लगी।

झाँसी के जिस मंदिर में पहुंचे थे सीएम योगी, वहां जलेंगे ग्यारह सौ दीपक

दीपावली पर महर्षि महाकाल मंदिर की हो रही मठ्य सजावट

फरवरी 2022 में जलाभिषेक करण्डे पहुंचे थे सीएम योगी

ग्यारह सौ दीपक से मंदिर परिसर में बनाएंगे राम नाम का आकार

झाँसी। दीपावली पर्व पर झाँसी के महर्षि महाकाल मंदिर में विशेष आयोजन की तैयारी चल रही है। दीपावली के दिन स्थानीय लोग और मंदिर के सेवक यहां ग्यारह सौ दीये जलाकर उनसे राम नाम लिखा आकार बनाएंगे। इसके साथ ही पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक मंदिर को इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले रखा है। लम्बे समय तक अतिक्रमण की चपेट में रहे इस मंदिर से अतिक्रमण हटने के बाद योगी सरकार ने इसका सुंदरीकरण



कराया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च 2022 में यहां दर्शन और जलाभिषेक करने पहुंचे थे। यह मंदिर लगभग साढ़े तीन सौ साल पुराना माना जाता है और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इस मंदिर में दर्शन करने आया करती थीं।

पूरे मंदिर परिसर की मठ्य सजावट मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित

का संरक्षण हुआ है और इसकी तस्वीर बदल गयी है। स्थानीय लोगों की मदद से पूरे मंदिर की सजावट हो रही है और दीपावली पर ग्यारह सौ दीपक जलाकर राम नाम का आकार बनाएंगे।

चौक-चौराहो पर भी दीपावली की रौनक

झाँसी में एक ओर जहां स्थानीय लोगों में दीपावली को लेकर उत्साह है तो प्रशासनिक स्तर पर भी त्यौहार को लेकर लगातार व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के प्रयास हो रहे हैं। सभी प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है तो दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों ने प्रमुख भवनों और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर लाइटिंग से सजाया है। पुलिस और प्रशासन सहित सभी सरकारी महकमे लगातार इस बात का इंतजाम करने में जुटे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखा जाए।

दीपावली पर्व पर मां यमुना का किया दीपदान

झाँसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर वार्ड नंबर 49 शंकर जी पाक गौड़ कंपाउंड में दीपावली के पावन पर्व मां यमुना जी का दीपदान किया गया। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि रवि शर्मा, एवं श्रीमती रमा आर पी निरंजन एवं आचार्य हरिओम पाठक विशिष्ट अतिथि रामनरेश तिवारी राष्ट्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा ने भगवान श्री गणेश मां लक्ष्मी जी मां सरस्वती जी का पूजन कर वंदना किया। कार्यक्रम में सिविल लाइन मंडल अध्यक्ष नागेंद्र पाल, श्रीमती प्रमोद



कुमारी राजपूत, उर्मिला पेटेरिया, कुसुम भटनागर, रेशमा, किशनलाल, नरेश शाक्य, शीतल शाक्य, बुधअध्यक्ष विनोद जैन, आशीष श्रीवास्तव, अभिषेक सेन, रामू कुशावाहा, अभिषेक कटारें

मलिन बस्ती में बच्चों को मिठाई, आतिशबाजी बांटकर मनाई दीपावली

झाँसी। बुदेलखंड युवा समूह संस्थान के तत्वाधान में दीपावली पर्व पर आज मलिन बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को मिठाई खिलाकर एवं आतिशबाजी बांटकर दीपावली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष रवीश त्रिपाठी, महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक, अखिलेश पाण्डेय, बन्टी दुबे, मयंक श्रीवास्तव, रिजवान खान, मनोज पाठक, राजकुमार अमया, सुभाष चौरसिया, रतन त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेन्द्र तिवारी ने किया। अंत में गोकुल दुबे विधायक प्रतिनिधि नगर निगम झाँसी सुशीला दुबे सभासद वार्ड नंबर 49 में सभी का आभार व्यक्त किया।

सालों बाद शुभ संयोग में मनाई जाएगी दिवाली

24 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी दीपावली, व्यापारियों को होगा कई गुना लाभ

झाँसी। इस वर्ष विक्रम संवत् 2079 में कार्तिक कृष्ण अमावस्या सोमवार 24 अक्टूबर को सायंकाल 5 बजकर 27 मिनट से आरंभ होकर अगले दिन 25 अक्टूबर मंगलवार को सायंकाल 4 बजकर 16 मिनट तक विद्यमान रहेगी। हस्त नक्षत्र अपराहन 2 बजकर 41 मिनट तक होगा। इसके उपरांत दीपावली पूजा में विहित चित्रा नक्षत्र होगा। हस्त चित्रा नक्षत्र में वैधृति योग का संयोग सुखद रहेगा। हस्त नक्षत्र लघु छिन्न संज्ञक और चित्रा मृदु मैत्र संज्ञक है। ये दोनों नक्षत्र व्यापारी और उद्योगपति जगत को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। बता दें कि दिवाली इस वर्ष दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धर्मशास्त्र के अनुसार प्रदोष काल और निशीथकाल व्यापिनी अमावस्या में यह पर्व मनाया जाएगा। कई वर्षों बाद इस बार चित्रा नक्षत्र से युक्त दीपमाला पड़ रही है, जो

समग्र राष्ट्र और समाज के लिए सुख समृद्धि लाने वाली सिद्ध होगी। दीपावली महापर्व में प्रदोषकाल में लक्ष्मी पूजन का सर्वाधिक महत्व है। प्रदोषकाल गृहस्थियों और व्यापारियों के लिए तथा नीशीथकाल आगमशास्त्र विधि से पूजन के लिए उपयुक्त है। ब्रह्मपुराण में प्रदोष काल से लेकर निशीथकाल तक रहने वाली अमावस्या को श्रेष्ठ कहा गया है। अतः दीपावली पर्व 24 अक्टूबर सोमवार को ही निर्विवाद रूप से सारे देश में मनाया जाएगा। इस दिन प्रातः 8 बजकर 20 मिनट से 10 बजकर 38 मिनट तक वृश्चिक उपरांत 12 बजकर 40 मिनट तक धनुः लग्न रहेगा। वृश्चिक लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि और धनुः को ग्रह मंगल संपूर्ण दृष्टि से देखता है। वृश्चिक लग्न में ऑटो-मोबाइल वर्कशॉप, तांबा, पीतल, कांसा एवं स्टील का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति महालक्ष्मी पूजन करें तो विशेष लाभ होगा। कुछ व्यापारी दीपावली पूजन के लिए धनुः लग्न को श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि धनुः लग्न का स्वामी शुभ ग्रह है। पूर्वाह्न 12 बजकर 43 मिनट से 2

बजकर 26 मिनट तक मकर लग्न रहेगा। मकर लग्न में ही अर्थात् मुहूर्त भी है। मकर लग्न में स्वगृही शनि और तृतीय स्वगृही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने से लग्न अत्यन्त बलवती समझी जाएगी। इसमें लाभ का चौधइया और भी उत्तम है।

समुद्र मंथन का सबसे विशिष्ट रत्न ज्योतिषाचार्य गिरीश चंद्र शास्त्री के अनुसार समुद्र-मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों में से एक सबसे विशिष्ट रत्न है लक्ष्मी है। हस्त अनुम सुंदरी, सुवर्णमयी, तिमिरहारिणी वर दात्री, प्रसन्नवदना, शुभा और क्षमादायी हैं। भगवान विष्णु ने इस अनुपमा को पत्नी के रूप में स्वयं वरणा किया। वह प्रकाशमयी देवी अमावस्या की रात्रि के घटाघोष अंधकार को अपने प्रकाशपुंज से चिरती हुई समुद्र से प्रकट हुई और समस्त वातावरण को ज्योतिर्मय कर दिया। इसी काली अमावस्या की रात्रि से हम प्रतिवर्ष जूझते हैं और समस्त वातावरण को दीपकों की कतारों से आलोकित कर मां लक्ष्मी का स्वागत और पूजन करते हैं।

सेना की वर्दी में पकड़ा गया युवक, तीन साल से कर रहा था गुमराह

झाँसी। सदर बाजार थाना इलाके में सेना की वर्दी पहनकर घूम रहे युवक को पुलिस ने दबोच लिया। युवक पिछले तीन सालों से खुद को सेना का कर्मचारी बताते हुए परिवार के लोगों को गुमराह करता आ रहा था। उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हाथरस जिले के सासनी थाना निवासी युवक भूपेंद्र रावत (26) को पुलिस ने सेना की वर्दी में सैन्य क्षेत्र में घूमते हुए पकड़ा। सदर बाजार पुलिस ने सेना के लांस नायक नीरज कुमार की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को

पड़ताल में सामने आया कि युवक ने 2018 में सेना में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद से वह लगातार अपने परिवार के लोगों को गुमराह करता आ रहा था। वह सेना की वर्दी में परिवार के लोगों को फोटो भेजता था और खुद को सेना का कर्मचारी बताता था। पुलिस ने बताया कि झाँसी में वह तीन-चार दिन खरबे आया था। इससे पहले वह जैसलमेर में था। खरबे चलाने के लिए पैसा परिवार के लोगों से लेता था। परिजनों द्वारा वेतन के बारे में पूछने पर बताता था कि वेतन तकनीकी मामले से फंसा हुआ है। मामला साफ होते ही उसे पूरा वेतन मिल

जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक को जासूसी के एंगल से भी जांच की गई, लेकिन कुछ मिला नहीं। उसे जेल भेज दिया गया है। सदर बाजार थाने के प्रभारी निरीक्षक सुदीप मिश्रा ने बताया कि पकड़ा गया युवक अपने साथ डीआरडीओ लिखा रजिस्टर भी रखता था। लोगों को बताता था कि वह सेना की गोपनीय डाक देने का काम करता है। सेना के लोगों से वह जान पहचान भी कर लेता था। इसी झंसे में आकर उसकी शादी भी तय हो गई थी। बारह लाख रुपये देहज भी मिलने वाला था। लेकिन, इससे पहले ही पकड़ा गया।

सार सुर्खियां

गैर जनपद से पशुओं को लादकर आ रहे दो लोग गिरफ्तार, एक फटार

जालौन। पशुओं को लादकर ले जा रही डीसीएम को सूचना मिलने पर पुलिस ने पकड़। दो युवक भी पुलिस के हथके लगे। चालक मौके से भागने में रहा सफल। मध्य प्रदेश की ओर से आ रही एक डीसीएम पशुओं को लादकर बाहर जा रही थी तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उक्त डीसीएम छिरिया सलेमपुर के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस पास पकड़ लिया। डी सीएम की तलाशी पर पुलिस ने डीसीएम में 31 पशुओं को बरामद किया। भूसे की तरह लदे पशुओं में एक पशु की मौत भी हो गई थी। पुलिस को देखकर डीसीएम का चालक वारिस अली निवासी हाथरस मौके से भाग निकला। जबकि पुलिस ने डीसीएम के साथ जा रहे आदिल निवासी हाथरस, फीरोज खां निवासी फिरोजाबाद को पकड़ लिया। पुलिस ने डीसीएम को कोतवाली में खड़ा कराया। जहां तीनों व्यक्तियों के खिलाफ पशु कूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गयी। तीन लोगों के खिलाफ पशु कूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पीछे के रास्ते घुसे चोरों ने लाखों के जेवर और नजदीकी पार, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की

दैनिक भास्कर, उरई (जालौन)। पीछे के रास्ते छत से अंदर घुसे चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ा। जिसमें रखे सोने-चांदी के जेवरत और 10000 रुपए चोरी कर लिए। जब सुबह परिजनों ने घर का दरवाजा खुला देखा तो उनको होश उड़ गए। कमरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ था जिसके चलते परिजन चीखने चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग भी वहां आ गए। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी विवेक कुमार सहित पत्नी प्रियंका, मां मुन्नी देवी, वहन सुलेखा, पिता शिवकुमार के साथ कमरे में सो रहे थे। शनिवार रात चोर पीछे की छत पर पहुंचे, जौना होते हुए आंगन में आ गए कमरे का ताला तोड़ अंदर चले गए। सोफे के अंदर रखे 3 अंगूठी, जंजीर, हार, तोड़िया, मोबाइल, दस हजार नगद रूपये ले गए। सुबह प्रियंका को सोफे का ताला टूटा देख दंग रह गईं। शोरगुल सुन मौके पर पहुंचे परिजनों ने छानबीन की। विवेक कुमार ने कोतवाली में तहरीर दे दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।

चित्रकूट गए आर्यावर्त बैंक के मैनेजर की गाड़ी से हुई चोरी रिपोर्ट दर्ज

उरई। करवा सिरसा कलार निवासी अनुराग मिश्रा पुत्र अरुण कुमार मिश्रा चित्रकूट सपरिवार परिक्रमा करने गए थे। चित्रकूट में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद अरुण परिवार के साथ परिक्रमा करने चला गया। जिसके बाद लौट कर आ कर देखा तो गाड़ी के कांच टूटे हुए थे और गाड़ी में रखे 70 हजार व बैग सभी गायब था। अरुण कुमार ने बताया कि गाड़ी में रखे बैग में जरूरी कागजात और 70 हजार थे। चोर ने पहले गाड़ी का कांच तोड़ दिया। उसके बाद बैग लेकर भाग गए। अरुण कुमार ने चित्रकूट कंट्रोल सेंटर पर पूरी जानकारी दी। जहां पर मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

नरक चौदस को हुई मृत्यु के देवता यमराज की पूजा

काँच। दीपों के महापर्व दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दीपावली जिसे नरक चौदस, यम चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, परंपरागत तरीके से घरों में मनाई गई। धनतेरस के एक दिन बाद और दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन सुबह अभ्यंग स्नान करने के बाद शाम को मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की गई और नरक जाने से मुक्ति मिलने की प्रार्थना कर घरों के बाहर लोगों ने चौदह दीपक जलाकर छोटी दीपावली मनाई। हिंदू मान्यता के अनुसार नरक चौदस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होती है।

बाइक में आग लगने के मामले में युवक ने पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की

काँच। पेट्रोल भरवाते समय बाइक में लगी आग के मामले में बाइक सवार युवक ने पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। शनिवार को बाजार से धनतेरस की खरीदारी कर अपने गांव जा रहे गोरकरनपुर निवासी प्रद्युम्न उर्फ लकी शिवहरे पुत्र पवन शिवहरे ने लौना रोड स्थित 'हमारा पंप' पर पेट्रोल भरवाने के लिए बाइक रोकी थी। उसकी बाइक नं. यूपी 92 एम 4143 में पेट्रोल पंप कर्मि पेट्रोल डाल रहा था। अभी आधा ही पेट्रोल डल पाया था कि अचानक से बाइक में भस्मक से आग लग गई थी और देखते ही देखते वह धुंए कर जल गई थी। घटना के वक्त वहां ऐसी अफरातफरी मची थी कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए थे। एक राहगीर लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए सीज फायर सिलेंडर उठा कर आग बुझाने का प्रयास किया था। उक्त घटना को लेकर बाइक सवार प्रद्युम्न ने रविवार को कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आग से उसकी बाइक समेत करीब 14 हजार रुपए कीमत का किराने का सामान पेट्रोल पंप कर्मियों की लापरवाही से जलकर नष्ट हो जाने की शिकायत कर कहा कि अगर पंप कर्मि अभिन्मनय यंत्रों का प्रयोग करते तो आग जल्दी बुझ सकती थी। प्रद्युम्न ने पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग पुलिस से की है। न्यू विजन इंटरनेशनल स्कूल में रंगोली एवं दीपक बनाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।

दहेज लोभियों को हत्या के आरोप में थाना कुठौद पुलिस ने मेजा जेल

दैनिक भास्कर, कुठौद जालौन। ब्लॉक कुठौद के सुप्रसिद्ध विद्यालय न्यू विजन इंटरनेशनल स्कूल मदनपुर में दीपक एवं रंगोली बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें सभी बच्चों ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं ने अपनी मेधा का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक कार्य योजना में भाग लिया प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि विद्यालय संरक्षिका सरोज तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें मुख्यतः दीपक सजाओ, और रंगोली बनाओ प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतिभागियों ने बहुत ही सुन्दर ढंग से दीपक सजाए एवं रंगोली सजाकर बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिताओं का आयोजन कक्षावार किया गया। प्रतियोगिता के बाद विद्यालय अध्यक्ष सुनील तिवारी तथा विद्यालय प्रबंधक अरुण तिवारी ने सभी विजयी प्रतियोगियों को बधाई दी और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। विद्यालय के प्रधानाचार्य कपिल सक्सेना ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया एवं विजयी छात्र एवं छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। तथा प्रतियोगिता के बाद विद्यालय संरक्षिका सरोज तिवारी ने समस्त विजय परिवार को धनतेरस के शुभकामनाएं पत्र भिजाई एवं उपहार वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विजय परिवार में हरी सर, प्रिंसी मेम, दीनबंधु सर, प्रेम सर, आशुतोष सर, अभिषेक सर सत्यदेव सर, हर्षिता मेम, पूजा मेम, अलका मेम, बेबी मेम, दीपका मेम प्रदीप सर, गिरेद सर समस्त विजय परिवार उपस्थित रहा।

शुभारंभ किया। इसमें मुख्यतः दीपक सजाओ, और रंगोली बनाओ प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतिभागियों ने बहुत ही सुन्दर ढंग से दीपक सजाए एवं रंगोली सजाकर बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिताओं का आयोजन कक्षावार किया गया। प्रतियोगिता के बाद विद्यालय अध्यक्ष सुनील तिवारी तथा विद्यालय प्रबंधक अरुण तिवारी ने सभी विजयी प्रतियोगियों को बधाई दी और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। विद्यालय के प्रधानाचार्य कपिल सक्सेना ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया एवं विजयी छात्र एवं छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। तथा प्रतियोगिता के बाद विद्यालय संरक्षिका सरोज तिवारी ने समस्त विजय परिवार को धनतेरस के शुभकामनाएं पत्र भिजाई एवं उपहार वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विजय परिवार में हरी सर, प्रिंसी मेम, दीनबंधु सर, प्रेम सर, आशुतोष सर, अभिषेक सर सत्यदेव सर, हर्षिता मेम, पूजा मेम, अलका मेम, बेबी मेम, दीपका मेम प्रदीप सर, गिरेद सर समस्त विजय परिवार उपस्थित रहा।

अज्ञात लोगों ने गल्ला व्यापारी की हथौड़ा मार की हत्या, पुलिस जांच में जुटी



जालौन। अज्ञात लोगों द्वारा धनतेरस की शाम को फुटकर गल्ला व्यापारी की हथौड़ा मार कर की गई हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस तथा एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फोरेंसिक टीम को बुलाकर उक्त स्थान के नमूने लिये। गल्ला व्यापारी की मौत की सूचना पर घर में कोहराम मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोहल्ला चौधरयाना निवासी श्याम चौरसिया ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उसके भाई वीरेंद्र कुमार पुत्र बलराम उग्र तकरीबन 50 वर्ष चुंगी नंबर 4 के आगे फुटकर गल्ला की खरीदारी करते थे। धनतेरस के दिन भी नित्य की

कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

उरई। कोर्ट के आदेश पर बढागांव थाना कदौरा के निवासी सूरज पुत्र रामदास ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गांव के ही लाल सिंह पुत्र राम चरण और 4 अन्य लोगों ने मिलकर उसके खेत में लग्गी लाही और वेजर की फसल काट कर। चोरी कर ले गए। जब उसने इसकी शिकायत की। उक्त आरोपी उल्टा उससे ही झगड़ गए। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की बात कही है।

नगर पंचायत कदौरा समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज

उरई। कदौरा के नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पवन किशोर ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि अश्वनी पुत्र रामसेवक मोहल्ला कटया अस्तबल नगर पंचायत कदौरा और दो अन्य लोगों ने मिलकर आवासीय भवनों का उत्सर्जित जल तरल तालाब में खुला छोड़े छोड़ दिया। जिसपर थाना पुलिस ने उक्त तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की बात कही।

दबंग ने तब जाकर मेल को जेसीबी से अखाड़ा

उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर निवासी श्याम जी पाठक एडवोकेट ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम चौरसी में आरोपी डीलर विवेक मिश्रा ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की नियत से जेसीबी चलाकर मेड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

दहेज की मांग पर पति समेत छह ससुरालियों पर रिपोर्ट दर्ज

उरई। कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चेतला निवासी कीर्ति पत्नी राघवेंद्र ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि राघवेंद्र पुत्र चुनवाह निवासी चेतला थाना कदौरा और 5 अन्य ससुराली जनों ने उसको तरह-तरह से प्रताड़ित कर दहेज की मांग कि जब उसने रुपए देने से इंकार कर दिया तो उसके साथ गाली गलौज मारपीट और जान से मारने की धमकी दी इस पर पुलिस ने पति समेत छह ससुराली जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की बात कही।

चोरों ने दुकान से रुपये किये चोरी रिपोर्ट दर्ज



उरई। माधोगढ़ थाना क्षेत्र के अशोक द्विवेदी उर्फ प्रिंस द्विवेदी पुत्र केदारनाथ निवासी मोहल्ला तिलक नगर कस्बा व कोतवाली माधोगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि दो अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान से 30 हजार रुपए चोरी कर लिए हैं। इस पर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

त्योहार का सही आनंद तभी जब गरीब के चहरे पर भी मुस्कान हो:विधायक



जरूरतमंदों को दीवाली के कपड़े बांटते क्षेत्रीय विधायक मूलचंद्र निरंजन व अन्य, दरिद्र नारायण सेवा समिति आश्रम में मौजूद गणमान्य नागरिक

काँच। दीवाली के अवसर पर जरूरतमंदों को नए वस्त्र वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इलाकाई विधायक मूलचंद्र निरंजन ने कहा कि त्योहार मनाने का सही आनंद तभी है जब गरीबों के चेहरों पर भी मुस्कान हो। यह काम सामाजिक संस्था दरिद्र नारायण सेवा समिति बखूबी निभा रही है। समाज के समर्थ लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें तभी त्योहार मनाने की सार्थकता है। सामाजिक संस्था दरिद्र नारायण सेवा समिति आश्रम में रविवार को दीपावली के अवसर पर जरूरतमंदों को नवीन वस्त्र वितरण

गरीबों को रोज खाना खिलाने वाली संस्था दरिद्र नारायण सेवा समिति ने बांटे दीवाली के कपड़े

कार्यक्रम का आयोजन शिक्षाविद देवेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय विधायक मूलचंद्र निरंजन के मुख्य आतिथ्य में किया गया जिसमें बतौर विशिष्ट अतिथि पालिकाध्यक्ष डॉ. सरिता वर्मा, पूर्व बारसंघ अध्यक्ष विज्ञान विशारद सौराठिया, पूर्व प्रधानाचार्य द्रय केके मिश्रा, ब्रजबल्लभ सिंह सेंगर,

भाजपा नेता सुनील शर्मा, गजराज सिंह सेंगर, ठेकेदार हिरनुरहमान मुन्ना महाते आदि मंचस्थ रहे। इस दौरान दरिद्र नारायण सेवा समिति में रोजाना भोजन करने आने वाले हिंदू भाई बहनों को नए कपड़े, मिठाइयां एक सौ रुपए की नकद राशि के साथ प्रदान किए गए। संचालन संस्था के संयोजक कठोरेलाल यादव ने किया, आभार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने जताया। इस दौरान श्रीकांत गुप्ता, शिवकुमार मिश्रा, रामशंकर छानी, प्रदीप गुप्ता, हरिश्चंद्र तिवारी, सेठ नासिर, सुशील दूरवार मिरकू, राघवेंद्र तिवारी, विनोद गुप्ता, विजय रावत, अमरेंद्र दुवे, मोहम्मद

दीवाली पर मिले उपहार, खुशी से खिल उठे अनाथ बच्चों के चेहरे



कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को उपहार देते लोग

काँच। समूची दुनिया में कहर बरपाने वाले कोरोना ने अपने खूनी जबड़ों में कई ऐसी जिनगीयां भी लीली हैं कि बच्चों के सिरों पर से मां बाप का साया ही छिन गया। बुरे सपने और मुसीबतों से भरे उस दौर को याद करते ही रीढ़ में सहिरन दौड़ जाती है। कस्बे के महंतनगर के निवासी तीन बच्चों निखिल अहिरवार, उसकी बहिन भूरी तथा छोटे भाई जितेंद्र के ऊपर भी कोरोना काल पहाड़ बन कर टूटा था। इन बच्चों के सिर से मां बाप का साया ही छिन गया था। रविवार को दरिद्र नारायण सेवा समिति के वस्त्र वितरण कार्यक्रम के दौरान तीनों बच्चों को समिति की तरफ से कपड़े, जूता चप्पल, मिठाई का डिब्बा वितरण किया गया और विजय रावत की ओर से तीनों बच्चों को पांच पांच सौ रुपए जब उपहार स्वरूप दिए गए तो उनके चेहरों की खुशी देखने लायक थी। इतना ही नहीं, बच्ची की शादी का जिम्मा दरिद्र नारायण सेवा समिति ने अपने ऊपर ले लिया है। विजय रावत ने इक्कीस हजार रुपए व बिल्लू अग्रवाल ने ग्यारह हजार रुपए उक्त बच्ची की शादी के लिए देने की घोषणा की जिसका वहां उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

तेज हुए संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम से की गई शिकायत के निराकरण के प्रयास

इस समस्या का समाधान करने के कड़े निर्देश डीएम ने पालिका ईओ को दिए थे। रविवार को ईओ पवन किशोर मौर्य व सेनेटरी इंस्पेक्टर हरिशंकर निरंजन ने मौके पर पहुंच कर समस्या देखी तो उनकी भी बुद्धि चकरा गई कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे हो पाएगा क्योंकि नाले के निर्माण में यह देखने की जेहमत ही नहीं उठाई गई कि पानी का बहाव कहां ले जाना है। वस नाला बनाना था सो बना दिया जो अब सैकड़ों लोगों के लिए सिरदर्द बना है। खासतौर पर किसानों के लिए क्योंकि अगर पानी को न रोका गया तो उनके खेतों में बुवाई हो ही नहीं पाएगी। यहां पूरी की पूरी इंजीनियरिंग फेल नजर आई क्योंकि नाले का ढाल उल्टी दिशा में होने से ही समस्या पैदा हुई है।

फेल दिखी नाला निर्माण में इंजीनियरिंग, ईओ ने मौके पर जाकर देखी समस्या



नया पटेल नगर में नाले का निरीक्षण करते ईओ पवन किशोर मौर्य

काँच। एक सप्ताह पहले काँच तहसील में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में की गई एक शिकायत के निराकरण के प्रयास तेज हो गए हैं। रविवार को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पवन किशोर मौर्य ने बाबू पैलेस के समीप स्थित नाले का मौके पर जाकर निरीक्षण जब किया तो उनकी भी बुद्धि चकरा गई क्योंकि नाले का बहाव या ढाल उल्टी दिशा में होने से ही इलाके में जलभराव की समस्या पैदा हुई है। हालांकि उन्होंने शीघ्र ही इस समस्या के निदान का भरपूर वहां रहने वाले नागरिकों और प्रभावित किसानों को दिया है और इस संबंध

में सेनेटरी इंस्पेक्टर हरिशंकर निरंजन को जरूरी निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि महीने के तीसरे शनिवार को काँच तहसील सभागार में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था जिसमें तकरीबन दो दर्जन किसानों व इलाकाई बांशिंदों ने डीएम चांदनी सिंह से शिकायत की थी कि नया पटेल नगर में बाबू पैलेस वाली गली में गलत तरीके से नाले का निर्माण होने के कारण रिहायशी बस्ती के घरों का पानी वहां रहने वाले लोगों के आसपास तथा खेतों में भर रहा है जिससे न तो खेतों की बुवाई हो पा रही है और लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है।

केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप ने सैफई पहुंचकर नेताजी को दी श्रद्धांजलि



मुलायम के निधन पर अखिलेश से मिलकर संवेदन जताते केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंह वमां



शोक व्यक्त करने पहुंचे सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी धीरेन्द्र यादव व पूर्व नगर अध्यक्ष रहम इलाही

काँच। केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंह वमां ने सैफई पहुंचकर देश के पूर्व रक्षा मंत्री व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी धीरेन्द्र यादव भी कई स्थानीय सपाइयों के साथ वहां पहुंचे और दिवंगत नेताजी को भावसिक्त श्रद्धा प्रसून समर्पित किए। गौरतलब है कि पिछले दिनों जब सपा संस्थापक मुलायम सिंह का निधन हुआ तब मंत्रालय से जुड़े प्रस्तावित कार्यक्रमों के चलते व्यस्त रहे केंद्रीय राज्यमंत्री ने रविवार को

अपने गृहनगर काँच से सीधे जनपद इटावा के सैफई पहुंचकर स्व. मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय राज्यमंत्री ने स्व. नेताजी के बेटे यूपी

सुर्खियों में रहा एसओजी का जुए के फड़ पर छापा मारना, जेल भेजे गए गिरफ्तार हुए सात जुआरी

काँच। कस्बे के नईबस्ती इलाके में शनिवार रात जुए के फड़ पर एसओजी का छापा खासा सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में इसलिए भी कि जिले के पुलिस कप्तान ने लोकल पुलिस को दरकिनार कर एसओजी को जुआ पकड़ने पर लगाया, दूसरे जुआरी जब एसओजी के साथ मजाहमत पर उतर आए तो फिर पुलिस ने जुआरियों की जमकर खबर ली। बहरहाल, पकड़े गए सात जुआरियों के खिलाफ बड़ी धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया है। दीवाली के मौके पर जुआ खेल रहे जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने निर्देशन में एसओजी टीम ने कस्बे के नईबस्ती इलाके में एक घर के अंदर सजे जुए के एक बड़े फड़ पर छापा मारकर सात जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुखबिर की सूचना उस समय बिल्कुल सटीक साबित हुई जब 22/23 अक्टूबर की आधी रात में जवाहर नगर स्थित एक

खाकी के इकबाल को चुनौती मिलती देख जुआरियों की जमकर खबर ली पुलिस ने

घर के अंदर जुए के बड़े फड़ पर जब छापा मारा गया तो जुआरियों ने पुलिस के साथ मजाहमत कर दी जिससे पुलिस चौखला गई और फिर उसने जुआरियों की जमकर खबर ली। इस दौरान जुआ खेलते हुए सात जुआरियों को रंगे हाथों दबोच लिया गया। पुलिस ने मालफुड व जामातलशी में 67 हजार रुपए बरामद दिखाए हैं। गिरफ्तार जुआरियों में कई इज्जतदार लोग बताए गए हैं। पुलिस ने उक्त सभी जुआरियों को थाना 3/4 जुआ अधिनियम में जेल भेज दिया है। कोतवाली से लेकर डॉक्टर होने के दौरान सीएचसी में लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली।

न्यू विजन इंटरनेशनल स्कूल में रंगोली एवं दीपक बनाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन



सजाओ, और रंगोली बनाओ प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतिभागियों ने बहुत ही सुन्दर ढंग से दीपक सजाए एवं रंगोली सजाकर बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिताओं का आयोजन कक्षावार किया गया। प्रतियोगिता के बाद विद्यालय अध्यक्ष सुनील तिवारी तथा विद्यालय प्रबंधक अरुण तिवारी ने सभी विजयी प्रतियोगियों को बधाई दी और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। विद्यालय के प्रधानाचार्य कपिल सक्सेना ने सभी

दीपक एवं रंगोली बनाओ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाया दम।

प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया एवं विजयी छात्र एवं छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। तथा प्रतियोगिता के बाद विद्यालय संरक्षिका सरोज तिवारी ने समस्त विजय परिवार को धनतेरस के शुभकामनाएं पत्र भिजाई एवं उपहार वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विजय परिवार में हरी सर, प्रिंसी मेम, दीनबंधु सर, प्रेम सर, आशुतोष सर, अभिषेक सर सत्यदेव सर, हर्षिता मेम, पूजा मेम, अलका मेम, बेबी मेम, दीपका मेम प्रदीप सर, गिरेद सर समस्त विजय परिवार उपस्थित रहा।

मनुष्य में तीनों चीजें वास करती हैं- मनुष्यता, पशुता और दिव्यता। -शिवानंद

महोबा/आंचलिक

दीपावली पर्व पर थानाध्यक्ष द्वारा गरीबों को मिष्ठान आदि सामग्री भेंट किए गरीबों के खिले चेहरे



समथर झांसी। दीपोत्सव के महापर्व को आज थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा ने गरीब असहाय बुजुर्ग महिला पुरुष को दीपावली को हर्षोल्लास से मनाने के लिए दीपोत्सव में आने वाली आवश्यक वस्तुएं दीपक, अगरवती, रुई, मिष्ठान वितरण करते हुए कहा कि दीपावली पर्व पर दीपक जलाकर हर्ष उल्लास मनाएं। थानाध्यक्ष के अनाथ अंदाज को देख गरीब

अपने हाथों में मिष्ठान दीपक आदि देख खुशी से झूम उठे। और थानाध्यक्ष को दुआएं देने लगे। इस मौके पर मोहल्ला खुशीपुरा निवासी गोविंद दास, सिमकुरा, देवराजी, आदि गरीबों को मिष्ठान दीपक मोमबत्ती आदि सामग्री भेंट किए गए। थानाध्यक्ष के साथ हमराही प्रदुमन शुक्ला तथा चालक अनिल कटियार भी उपस्थित रहे।

दीपावली पर्व पर पत्रकारों का बाबा महाकाल समिति ने किया सम्मान



गायन कर किया गया। विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रमुख भरत शरण नगायच उर्फ मोनु नगाइच द्वारा क्षेत्र में निष्पक्ष एवं निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले पत्रकारों को श्रीफल एवं माला पहनाकर व विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिस पर सभी पत्रकारों द्वारा प्रचार प्रमुख का आभार व्यक्त किया गया। भरत शरण नगायच ने कहा कि पत्रकार इस देश की वह कड़ी है।

जो पीड़ित एवं असहायों के जीवन में एक आशा की किरण बनकर आता है। इसलिए धनतेरस के दिन मेरे द्वारा पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर नितिन गुप्ता, बब्लू गुर्जर, ऋषभ दुबे, श्याम दुबे, रोहित सविता पारस व्यास, चिराग नामदेव, दिलीप दुबे, अनमोल साहू, शिवम मुदगिल, शिवम महाटोलिया एवं पत्रकार श्यामाशरण उपाध्याय, अरविंद श्रीवास, शुभम त्रिपाठी, जीतेन्द्र श्रीवास, मोहित शर्मा, अश्वनी ज्ञानसू उपाध्याय, प्रभाकांत मिश्रा, आदि पत्रकार एवं बाबा महाकाल सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

समथर झांसी। कस्बा में स्थित काली जी मंदिर के पास प्राचीन शिव मंदिर पर बाबा महाकाल सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से धनतेरस के दिन 1108 दीपक जलाकर दीपोत्सव महापर्व मनाया गया। जिसमें थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह व संजय सिरौठिया एवं ग्राम पहाड़पुरा में स्थित कुटी मंदिर के पुजारी सीताराम महाराज ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान शिव के समक्ष शिव आरती

जुआ खेल रहे सात अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

कुलपहाड़ महोबा। पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अवैध जुआ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बीरन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित टीम उडो10 चन्द्रशेखर सिंह द्वारा कुल सात अभियुक्तगण को सार्वजनिक स्थान पर रुपये-पैसे से हार जात की बाजी लगाकर ताश पती से जुआ खेलते हुये प्राइमरी स्कूल के पास ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। मौके से मालफंड 2710/- रूपये मय 52 अदद ताश पता व जामा तालाशी 400/- रूपये

बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 295/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त - राहुल पुत्र मुकेश अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष, राजू पुत्र मोहनलाल उम्र करीब 36 वर्ष, छबू पुत्र धूरा अहिरवार उम्र करीब 28 वर्ष, अतीत कुमार पुत्र छवीलाल अहिरवार उम्र करीब 40 वर्ष, प्रवीण पुत्र कल्लू अहिरवार उम्र करीब 29 वर्ष, नरेश पुत्र राम बसोर उम्र करीब 40 वर्ष, धर्मेन्द्र पुत्र फकीरा अहिरवार उम्र करीब 29 वर्ष समस्त निवासी गण ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।



अन्ना जानवरों से मूंगफली की फसल उजड़ने पर किसान ने फंदा लगाकर दी जान

महोबा भास्कर ब्यूरो। अन्ना जानवरों से किसान की चार बीघे में बोई मूंगफली की फसल उजड़ने से परेशान किसान ने फंदा लगाकर दी जान। पड़ोसियों ने शव को फंदे पर लटका देख परिजनों को सूचना दी। मामला कबरई थाना क्षेत्र के गहरा गांव की है। मृतक किसान के भाई किशोरीलाल ने बताया मेरा भाई पप्पू उम्र 47 वर्ष अपनी 4 बीघा जमीन में खेती कर परिवार को चला रहा था। पप्पू ने खेत में मूंगफली की फसल बोई हुई थी, फसल की बेहतर होने की उम्मीद लगाए वह दिन रात मेहनत कर रहा



था लेकिन उसकी मेहनत पर अन्ना जानवरों ने पानी फेर दिया। किशोरीलाल के मुताबिक बीती रात को जब पप्पू खेत से खाना खाने घर आया तो उसी समय खुलेआम घूम रहे अन्ना पशुओं ने खेत में घुसकर पूरी फसल उजाड़कर बर्बाद कर

पड़ोसियों ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा तो परिवार के लोगों को सूचना दी। उसकी पत्नी और बच्चे मौके पर पहुंचे तो वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव को लटका देख परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को नीचे उतारा। पुलिस द्वारा परिवार से पूछताछ की गई है किसान के दो पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। किसान के इस कदम से पूरा परिवार भी सदमे में है। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया गया है और पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई।

कबरई पुलिस ने जुआ खेल रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

महोबा। पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अवैध जुआ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उडो10 सुनील कुमार

मिश्रा द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ताश के पत्ते से हारजात की बाजी लगा रूपये से जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगणों राजाबाबू प्रजापति पुत्र मलकान उम्र करीब 25 वर्ष, रमेश चन्द्र प्रजापति पुत्र सीताराम प्रजापति उम्र करीब 40 वर्ष, कल्लू अहिरवार पुत्र राममनोहर उम्र करीब 22 वर्षमैकू

अहिरवार पुत्र रन्वी अहिरवार उम्र करीब 62 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनकी जामा तलाशी से जामा तलाशी 390 रूपये, माल फंड 2110 रूपये व 52 अदद ताशपत्ते बरामद हुये। बरामदगी के आधार मु0अ0सं0 319/22 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

सनातन धर्म संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण एवं शुभकारी पर्व है दीपावली

बेलाताल महोबा। भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण एवं शुभकारी पर्व दीपावली का होता है दीपावली पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष कि अमावस्या को मनाया जाता है। इस वर्ष दीपावली का पर्व चित्रा नक्षत्र, विष्णुय योग, मेघ लगन तथा चतुर्थ ग्रही योग सूर्य, शुक्र, चन्द्र, केतु एक राशि तुला में है जोकि बहुत शुभकारी है। आज सोमवार को दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई जायेगी। महागाई की

वजह से बाजार फीके पद रहे है लेकिन वर्ष का सबसे बड़ा पर्व दीपावली पर लोग पहले से ही साफ सफाई और घर को सुन्दर बनाने में जुट जाते है। और दीपावली की रात्रि में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, जिसका बहुत महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक बताया जाता है की शुभ मूर्त में पूजा करने से धन की कमी कभी नहीं पड़ती है। दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि-विधान के साथ करना चाहिए।

धन की देवी का वास वहीं होता है, जहां प्रकाश और स्वच्छता पर जोर दिया हो। ज्योतिषाचार्य ने बताया की इस दिन घर के किसी कोने में भी कहीं पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। शुभ मूर्त: आज सोमवार को रात 06 बजकर 58 मिनट से रात 08 बजकर 27 मिनट तक (प्रदोष काल) संध्या के समय मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना का बहुत महत्व एवं शुभकारी है। दीपावली की रात 10

बजकर 38 मिनट से प्रातः 12 बजकर 15 मिनट पर लाभ का मुहूर्त रहेगा। दीपावली की पूरी रात यहाँ जलाए रखें दीपक: मां लक्ष्मी की पूजा के बाद एक बड़ा दीपक देवी के समक्ष रातभर जलाने की परंपरा है। धर्म शास्त्र में बताया गया है की मां लक्ष्मी रात में ही पृथ्वी पर घूमती हैं। मां-लक्ष्मी को बहुत चंचल माना गया है। दीपक जलाए इन्हें सदैव घर में निवास करने के विधान बताया गया है। मान्यता है इससे

देवी घर से जाती नहीं और जातक को धन, यश, वैभव, कीर्ति, आरोग्य प्राप्त होता है दीपक जलाकर बनाकर अन्ना दिया जाता है काजल: दीपावली की रात्रि एक दीपक को रातभर जलाकर काजल भी बनाया जाता है, जिसे अंगली सुवह घर के सदस्य अपने आँखों में लगाते हैं। साथ ही इस काजल का टीका घर की तिजोरी, अलमारी पर भी लगाया जाता है। मान्यता है इससे बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है।

दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश

महोबा भास्कर ब्यूरो। कबरई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक महिला के साथ बीती शाम दबंग दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर उसका पति मौके पर पहुंच गया तो दबंग धमकाता हुआ फरार हो गया। मामला जनपद के कबरई थाना कस्बा क्षेत्र एक मोहल्ले का है। जहां रहने वाली एक विवाहित महिला के साथ दबंग ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बताया जाता है कि बीती शाम महिला घर में अकेली थी तभी मोहल्ले का ही रहने वाला परशुराम घर के अंदर घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। महिला के शोर मचाते ही पड़ोस में बैठा पति दौड़कर पहुंचा



और पत्नी को बचाया। दबंग पति-पत्नी को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। दंपति जब उलाहना देने आरोपी के घर पहुंचे तो आरोप है कि आरोपी परशुराम सहित उसके भाई, पिता और अन्य लोगों ने मारना

पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित दंपति द्वारा मदद के लिए चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें दंपति को बचाया। दबंगों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित दंपति ने

बतायी की पूरे मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे जहां पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नामजद आरोपियों खिलाफ तहरीर देने के बावजूद भी दंपति का मेडिकल परीक्षण तक नहीं कराया गया। पीड़ित दंपति ने एसपी से भी मामले की शिकायत करते हुए आरोप दबंग सहित उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लिखित शिकायती पत्र देकर उक्त मामले में जांच करा कर कार्यवाही की मांग भी किसानों ने की। किसान समय से खाद खिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सहकारी समिति में मूल्य के अतिरिक्त हो रही वसूली को लेकर आवाज उठाई है।

पुलिस प्रशासन की देखरेख में पटाखों की सजाई गई दुकानें



● फायर पुलिस चौबीस घंटे सेवा में लगी है

आग बुझाने के संयंत्र तथा आग बुझाने की गाड़ी बराबर इयूटी में डटी हुई है। फायर ब्रिगेड गरीटा की टीम में एचसीपी चालक जगदीश प्रसाद, फायरमैन त्रिवेद सिंह, फायरमैन रॉबी, एच जी चंद्रपाल सिंह पटेल एवं लक्ष्मीकांत 24 घंटे इयूटी पर लगे हुए हैं। इस मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि प्रशासन की ओर से कहीं भी कोई ढील नहीं बरती जा रही है। दुपहिया वाहनों एवं चार पहिया वाहनों को पटाखों की दुकानों से दूर ही रोक दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके।

कुमार तिवारी की देखरेख में खैर इंटर कॉलेज मुख्य भवन के क्रीडा स्थल पर पटाखों की दुकानें लगाई गईं। पाठ वर्ष हुई भीषण आग की घटना के कारण इस बार प्रशासन खास चौकन्ना बना हुआ है। फायर ब्रिगेड गरीटा की टीम में अनिशमन की गाड़ी के साथ जवान मुस्तैदी से चौकसी कर रहे।

त्यौहारों के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त किया गया




महोबा भास्कर ब्यूरो। पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी। जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों

को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

सार सुर्खियां

जिलाधिकारी से की भ्रष्टाचार की शिकायत



महोबा भास्कर ब्यूरो। खाद समस्या और कालाबाजारी से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर सहकारी समिति के विक्रेता द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की। गौरतलब है पचपहरा गांव के किसान सेवा सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। इस समिति उपाध्यक्ष चिंताहरण चंसीरिया के नेतृत्व में उनके साथ समिति से जुड़े तकरीबन 8 गांव के किसान अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे किसान अरविंद, रमाकांत, अभिषेक, अशोक कुमार, करण, मोहम्मद अहमद, वीरपाल, मेयादीन आदि किसानों ने बताया कि वह पचपहरा किसान सेवा सहकारी समिति से जुड़े हैं और वर्षों से इसी समिति से खाद ले रहे हैं लेकिन यहां का विक्रेता रमेशचंद तिवारी किसानों को परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खाद की कीमत में किसानों से अतिरिक्त 50 रुपये प्रति बोरी लिया जा रहा है और ना देने पर किसानों को अहदा कर भगा दिया जाता है। खुलेआम खाद की कालाबाजारी हो रही है। इसके चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। अतिरिक्त पैसा देने वाले व्यक्ति को ही खाद दी जा रही है। जिससे सहकारी समिति के विक्रेता द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार से किसान परेशान हैं। यही वजह है कि इकट्ठा हुए किसानों ने पूरे मामले की शिकायत करते हुए उक्त मामले में जांच करा कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग के साथ-साथ खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है ताकि समय से खेतों में खाद दी जा सके।

सबका साथ सबका विकास हगारा लक्ष्य -पुरुषोत्तम पांडे



चरखारी(महोबा)। पीडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भाजपा द्वारा आयोजित सामूहिक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम एवं दीपावली मिलन समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है बुध लेवल का कार्यकर्ता ही मतदाताओं के बीच प्रदेश एवं केन्द्र की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर जनता को भाजपा के प्रति मतदान के लिये जागरूक करते हैं नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्यासी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर टिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन होना है नयी मतदाता सूची का सही अवलोकन संबंधित वार्ड प्रभारी, संयोजक कर ले जिससे आगामी निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्यासी की जीत सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर चेयरमैन मूलचंद अनुरागी, पुर्व चयनमन अरविन्द्र सिंह चौहान, जिला महामंत्री अमित शर्मा, योगेश मिश्रा, नीरज गुप्ता, रजनीश गुप्ता, युवराज सेंगर, अशोक महाराज, माधवेंद्र सिंह परमार, कुलदीप भटनागर, मनोज पाठक आदि रहे।

चाय बनाते समय आग लगने से महिला की जलकर मौत



महोबा / श्रीनगर। चाय बनाते समय आग लगने से महिला की जलकर मौत हो गई। मामला थाना क्षेत्र श्रीनगर के ननोरा गांव का है। बताया जाता है की ननोरा गांव की दीपा पत्नी संतोष कुशवाहा उम्र 36 वर्ष निवासी ननोरा अपने खेत में बने कच्चे मकान में गैस पर चाय बना रही थी। तभी अचानक पास रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई। धीरे धीरे आग इतनी भीषण हो गई की कच्चा मकान और महिला आग की चपेट में आ गये। जब तक गांव वासियों को इसकी जानकारी मिली तब तक मकान और मुक्तिका दीपा राख में तब्दील हो गये और महिला की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मस्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसकी सूचना श्रीनगर थाना में देने पर थाना प्रभारी दिनेश तिवारी पुलिस बाल के साथ मौके पर जाकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुक्तिका दीपा के पति संतोष व पुत्र जसवंत उम्र 10 वर्ष, योगेंद्र उम्र 7 वर्ष का रो कर बुरा हाल है दीपावली पर्व पर गांव में इस घटना से दीपावली की खुशियां गम में बदल गई। वृद्ध के ऊपर मकान की दीवार गिरी दबकर मौत

परिजनों ने पुलिस को बिना बताए किया अंतिम संस्कार दैनिक भास्कर, रामपुर। हैडपंप पर नहा रहे वृद्ध के ऊपर मकान की दीवार गिर गई। जिसके नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वृद्ध की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। रामपुर थाना क्षेत्र के उदोतपुर जागीर गांव निवासी रघुवीर पाल (६५) रविवार की सुबह अपने घर के आंगन में लगे हैडपंप के पास नहा रहे थे। उसी समय पड़ोसी गंगाराम पाल के घर की कच्ची दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। जिसके मलबे में वह दब गए। आपन फानना में परिजनों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

तमस पर ज्योति की विजय का पर्व

आलोक पर्व दीपावली असत्य पर सत्य और तमस पर ज्योति की विजय का सनातन उद्घोष है। यह पर्व निराशा के सघन अंधकार में आशा की किरण जगाता है। किसान के उदास अधरों पर हर्ष की लाली बिखेरता है और मन के सूने आंगन में हर्षोल्लास की किरणें जगाता है। सुख-समृद्धि से परिपूर्ण करने वाली मां लक्ष्मी और ऋद्धि-सिद्धि दायक गणपति गणेश पूजन का पांच दिवसीय पर्व दीपावली शुरू हो चुका है। धनतेरस से इसकी शुरुआत हुई। राविवार को छोटी दीपावली के बाद सोमवार को प्रकाश और ज्योति का महोत्सव दीपावली मनाया जाएगा। भगवान प्रभु श्रीराम के लंका पर विजय और 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी कर अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाने वाला दीपावली आज के समय में तब और प्रासंगिक हो गया है, जब सैकड़ों वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है। 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। दीपावली राष्ट्र को धन-धान्य से पूर्ण और सब प्रकार से संपन्न बनाने का विराट आयोजन है। यह पर्व मात्र महलों की प्राचीर को विद्युत् बल्बों से आलोकित नहीं करता, बल्कि निर्धन की कुटिया में आशा का दीप बनकर अपनी मधुर ज्योति भी बिखेरता और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। ज्योति पर्व किसान को नए धान्य के अभिनंदन की वेला प्रदान करता है। व्यवसायिक वर्ग में धन-धान्य से संपन्न रहने का सुमधुर विश्वास जगाता है तथा विद्वान समाज को विद्या वृद्धि का अक्षय आशीर्ष प्रदान करके उन्हें राष्ट्रहित में अर्पित और समर्पित होने की प्रेरणा देता है। अमावस्या की काली रात दीपों से जगमगा उठती है। माता लक्ष्मी का पदार्पण होते ही जन-जन के उदास होंठों पर हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। निराशा आँखें प्रसन्नता से चहक उठती हैं। बाल-मंडली हर्षोल्लास से ऐसे प्रफुल्लित हो उठती हैं, मानो माता मां लक्ष्मी आंगन में थिरकती हुई आई हैं। जैसे उड़ाने बालकों को अपनी गोद में उठाकर चूमा और अमय का वरदान देकर मुस्कराती हुई दीपों की अनवरत पवित में कहीं विलीन हो गई हैं। यह जगमानस की भांति है कि मां लक्ष्मी मात्र धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, चंचला, अस्थिर, प्रकृति और विद्या की देवी सरस्वती से बैर रखने वाली हैं। ऋग्वेद के श्रीसूक्त के अनुसार लक्ष्मी कात्मिय, तेजोमय एवं कामना पूर्ण करने वाली देवी हैं, जो स्वर्णमयी ज्योति से संपन्न हैं, देवों को तुष्ट करने वाली कमल पर विराजमान हैं और कमल-सदृश वर्ण वाली हैं। यजुर्वेद में लक्ष्मी का अर्थ तेज बताया गया है। अथर्ववेद के ब्रह्मस्वरूपिणी, आदिशक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी अपना स्वरूप स्वयं कहती हैं। वैदिक साहित्य में लक्ष्मी को आदिशक्ति स्वरूपा, सर्वव्यापी पराशक्ति माना गया है। लक्ष्मी ही देवों की सभी अवतारों की प्रधान प्रकृति हैं। सूक्ष्म-सूक्ष्म, दृश्य-अदृश्य, व्यक्त अथवा अव्यक्त सब उन्हीं के विविध रूप हैं। सूक्ष्मरूप से सर्वत्र व्याप्त होती हुई भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम दिव्य, चिन्मय, समृद्ध रूप से सदा विराजमान रहती हैं। संपूर्ण जगत के श्रद्धालु उपसकों को धन देने वाली ब्रह्मस्वरूपिणी देवी हैं। आत्मस्वरूप आकाशादि का भी निर्माण करती हैं, उनका स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाले बुद्धि-चित्त में है।

कुत्सित मानसिकता का त्याग ही दिवाली

भारत वर्ष पर्वों का देश है। यहां व्रत, पर्व एवं उत्सवों की एक लम्बी श्रृंखला है। जो यहाँ की संस्कृति और परम्पराओं को जीवंत बनाये रखने में सहायक है। प्रत्येक व्रत-पर्व के साथ कोई न कोई कथा कहानी जुड़ी होती है। जो परिचायक है हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की। इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम प्रत्येक वर्ष कात्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीप पर्व दीपावली हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाते हैं। दीपोत्सव का हिन्दू समाज में विशिष्ट स्थान है। अमावस्या के स्याह अंधेरे को छाटने का यह पर्व हमारे मन को आनंदित करने के साथ ही साथ दुःख व दरिद्रता को मिटाकर सुख समृद्धि का मार्ग प्रसार करता है कहते हैं कि भगवान श्रीराम चैदह वर्ष के वनवास के बाद रावण का संहार करके जब अयोध्या लौटे तो उनके आंगन से प्रसन्न अयोध्यावासियों ने सम्मान में दीप जलाकर भगवान श्रीराम का स्वागत किया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्रीविष्णु ने इसी दिन राजा बलि की कैद से सभ्री देवी-देवताओं को देवी लक्ष्मी सहित मुक्त कर दिया था। बलि की कैद से मुक्त होने के बाद देवी लक्ष्मी ने सभी को पुनः धन-धान्य से समृद्ध व सभी सुखों से परिपूर्ण कर दिया था। इसीलिए आज के दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। दीपावली के दिन घरों की सफाई-पुताई करा, सजाकर स्वच्छ वातावरण का सृजन किया और महालक्ष्मी के साथ श्रीगणेश और देवी सरस्वती का भी पूजन अर्चन विधि विधान से किया जाता है। श्री लक्ष्मी जी के साथ गणपति भगवान और माँ सरस्वती की पूजा करने का तात्पर्य है कि विना ज्ञान और बुद्धि के धन की प्राप्ति सम्भव नहीं है। देवी सरस्वती ज्ञान और भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं। इसीलिए दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और श्री गणेश भगवान के पूजन-अर्चन की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। अतः इस पर्व पर सभी को कर्तव्य है कि जिस प्रकार हम घरों की सफाई-पुताई करते करते हैं, उसी प्रकार अपने मन मस्तिष्क की सफाई करके कुत्सित मानसिकता का परित्याग करके समाज में स्वच्छ और समरस वातावरण का सृजन करें। यही इस ज्योति पर्व का संदेश है।

प्रेरणाप्रद मोती

दूसरों की निन्दा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया।

पं श्रीराम शर्मा आचार्य (गायत्री परिवार)

आज का राशिफल

मेघ : आज आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौक़े का फ़ायदा उठाएँ और अच्छी सेहत के लिए आराम, पैदल सैर, योगा, प्राणायाम अवश्य करें।
वृष : आप आज खुद को रोज़ाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएँ, थोड़ा आराम करें। अगर आप लम्बे वक्त के लिए निवेश करें।
मिथुन : आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे हालात से बचें जो आपको चोट पहुँचा सकते हों।
कर्क : घर की जरूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवनसाथी के साथ कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं जिससे आर्थिक हालात थोड़े हलक़दार रहेंगे।
सिंह : अपने शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा-स्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादिता को जन्म दे सकती है।
कन्या : आज आपका दिन मनोनुकूल रहेगा। शारीरिक लाभ मिलेगा। अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है।
तुला : आज का दिन फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी और आप हर काम में अक्ल रहेंगे।
वृश्चिक : आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदादिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आस-पास के लोगों को खुश कर देगा।
धनु : मौज-मस्ती और मनोरंजन काम करना का दिन है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। मित्र गण्डली का सकरात्मक सहयोग रहेगा।
मकर : आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। खुद के लिए समय निकालें। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। लेकिन व्यावसायिक योजनाएँ शुरू होंगी। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आप किसी पाक या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। स्वास्थ्य सही रहेगा।

मातृभाषा में शिक्षा खत्म करेगी भाषा की बाधयता

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने हिंदी भाषा में चिकित्सा की पढ़ाई प्रारम्भ करके शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। इस पहल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की सरहाना की जानी चाहिए। भारत एक विशाल देश है। यहां के विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से ही मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही हैं, परंतु इनके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के विभिन्न राज्यों की मातृभाषाओं के विकास का बीड़ा उठाया है। इसका प्रारम्भ मध्य प्रदेश से हुआ है। मध्य प्रदेश के पश्चात अब उत्तर प्रदेश में भी चिकित्सा एवं तकनीकी पढ़ाई हिंदी में होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। आगामी वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे।
 उल्लेखनीय है कि रात 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा की हिंदी भाषा की तीन पुस्तकों का विमोचन किया। इनमें एमबीबीएस प्रथम वर्ष की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायो केमिस्ट्री की पुस्तकें सम्मिलित हैं, जिनका हिन्दी में अनुवाद किया गया है। उल्लेख करने योग्य बात यह भी है कि चिकित्सीय शब्दावली को ज्यों का त्यों रखा गया है, क्योंकि संपूर्ण पाठ का हिंदी में अनुवाद करना संभव नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे छात्रों के लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राज्य के 13 राजकीय महाविद्यालयों में हिंदी में चिकित्सा की पढ़ाई प्रारम्भ हो गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस पहल के लिए शिवराज सरकार को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में नवनिर्माण का दिन है।



यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। अगले वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे।

शिवराज सरकार ने देश में सर्वप्रथम चिकित्सा की हिंदी में पढ़ाई प्रारम्भ करके प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा की पूर्ति की है। प्रधानमंत्री ने हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, गुजराती, बंगाली आदि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि देश के विद्यार्थी जब अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे, तभी वह सच्ची सेवा कर पाएंगे। चिकित्सा के पश्चात अब 10 राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में प्रारम्भ होने वाली है। देशभर में आठ भाषाओं में इंजीनियरिंग की पुस्तकों का अनुवाद का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस एवं जापान सहित अनेक देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वविदित है कि ये देश लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। इन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके ही उन्नति प्राप्त की है।

शिवराज सरकार ने देश में सर्वप्रथम चिकित्सा की हिंदी में पढ़ाई प्रारम्भ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, गुजराती, बंगाली आदि सभी क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि देश के विद्यार्थी

जब अपनी भाषा में पढ़ाई करेंगे, तभी वह सच्ची सेवा कर पाएंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। चिकित्सा के पश्चात अब 10 राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में प्रारम्भ होने वाली है। देशभर में आठ भाषाओं में इंजीनियरिंग की पुस्तकों का अनुवाद का कार्य प्रारम्भ हो चुका है और कुछ

ही समय में देश के सभी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना प्रारम्भ करेंगे। मैं देश भर के युवाओं से कहता हूँ कि अब भाषा कोई बाधयता नहीं है। आप इससे बाहर आएँ। आपको अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके आप अपनी प्रतिभा का और अच्छी तरह प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं। मातृभाषा में व्यक्ति सोचने, समझने, अनुसंधान, तर्क एवं कार्य और अच्छे ढंग से कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय छात्र जब मातृभाषा में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करेंगे तो भारत विश्व में शिक्षा का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जो लोग मातृभाषा के समर्थक हैं, उनके लिए आज का दिन गौरव का दिन है। उन्होंने नेल्सन मंडेला का स्मरण करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करे तो वह बात उसके दिल में पहुँचती है। यह सर्वविदित है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सफल एवं सुगम होता है। अपनी मातृभाषा में विद्यार्थी किसी भी विषय को सरलता से समझ लेता है, जबकि अन्य भाषा में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विश्व भर के शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने को महत्व दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी मातृभाषा में चिकित्सा की पढ़ाई करवाने वाले देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था अन्य देशों से अच्छी स्थिति में है। चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस एवं जापान सहित अनेक देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वविदित है कि ये देश लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। इन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके ही उन्नति प्राप्त की है। यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी मातृभाषा में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती तो हम भी आज उन्नति के शिखर पर होते।

- डॉ. सौरभ मालवीय

भारत वापस ले चीन से अपनी जमीन



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) पर जारी तनाव पर चीन को साफ शब्दों में सन्देश दे दिया था कि भारत किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करेगा तो हमारे जवान उसे माकूल जवाब भी देंगे। सेना के लिए विशेष अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। अब यह जगजाहिर हो ही चुका है कि चीन एलएससी पर यथास्थिति बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। चीन ने हाल ही में भारत को अपना शत्रु भी कहा। लेकिन हमारे बहादुर जवान ड्रैगन की नाकाप हरकतों को सफल नहीं होने देते। शौर्य के स्तर पर हमारे सैनिक 1962 में भी चीन पर भारी ही पड़ रहे थे।

विशेष क्षेत्र की सड़क समर्पित कर दी। चीन ने 1962 के युद्ध में भारत के 37,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। या यूँ कहें कि कम्युनिस्ट मेनन ने कब्जा करवा दिया था। छह दशकों का लंबा अरसा गुजरने के बाद भी चीन ने हमारे अक्सर्डिचिन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। जितना क्षेत्रफल पूरी कश्मीर घाटी का है, उतना ही बड़ा है अक्सर्डिचिन। भारत को कूटनीति के रास्ते चीन से अपने कब्जा, हथु क्षेत्र को फिर लेना होगा। चीन से जंग में कमजोर रहने के बाद 14 नवंबर, 1963 को संसद में युद्ध के बाद की स्थिति पर चर्चा हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बात रक्षात्मक रूप से रखते हुए कहा- "अपने को विस्तारवादी शक्तियों से लड़ने का दावा करने वाला चीन खुद विस्तारवादी ताकतों के नक्शे कदम पर चलने लगा।" उन्होंने बताया था कि चीन ने किस तरह से भारत की पीठ पर छुरा चोपा। वे बोलते ही जा रहे थे। तब एचवी कामथ ने कहा- 'आप बोलते रहिए।' अब नेहरूजी विस्तार से बताने लगे कि चीन ने भारत पर हमला करने से पहले कितनी तैयारी की हुई थी। तब करनल से सांसद स्वामी रामेश्वरानंद ने लगभग चीखते हुए कहा- 'मैं तो यह जानने में उत्सुक हूँ कि जब चीन तैयारी कर रहा था, तब आप क्या कर रहे थे?' ये सुनते ही नेहरू जी

लाई "हिन्दी चीनी भाई-भाई" के नारे लगवा रहे थे। स्कूलों में हमसे भी यह नारा लगवाया जाता था। नेहरू जी की खराब चीन नीति का ही यह परिणाम रहा कि देश को अपने पड़ोसी से 1962 में युद्ध लड़ने की नीबट आ गई। चाऊ एन लाई को गले लगाने और "हिंदी चीनी भाई-भाई" के नेहरू के उदारवादी नारों को धूलें चीन ने भारत की कमजोरी समझ ली। पीछे से कम्युनिस्ट कृष्ण मेनन का भीतरघात तो सहायक था ही। इसके ठीक विपरीत लोकसभा में विगत 15 सितंबर, 2020 को भारत-चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों पर चर्चा के तैवर 14 अप्रैल, 1962 को भारत-चीन युद्ध के बाद हुई बहस से पूरी तरह से अलग थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव पर चीन को साफ शब्दों में सन्देश दे दिया था कि भारत किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करेगा तो हमारे जवान उसे माकूल जवाब भी देंगे। सेना के लिए विशेष अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। अब यह जगजाहिर हो ही चुका है कि चीन एलएससी पर यथास्थिति बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। चीन ने हाल ही में भारत को अपना शत्रु भी कहा। लेकिन हमारे बहादुर जवान ड्रैगन की नाकाप हरकतों को सफल नहीं होने देते। शौर्य के स्तर पर हमारे सैनिक 1962 में भी चीन पर भारी ही पड़ रहे थे। यह सच है कि उस युद्ध में विपरीत हालातों में लड़ते हुए भारत के वीर योद्धाओं ने चीन के गले में अंगुठा डाल दिया था। उनमें शूरवीरों में राजधानी से सटे झरकर के रहने वाले ब्रिगेडियर होशियार सिंह भी थे। आपको साउथ दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग मिलता है।

- आर.के. सिन्हा

चुनाव में सुनक को टक्कर दे सकते हैं बोरिस दिवाली पर जगमगाएं रूप की रोशनी

लिन ट्स के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा के बाद ब्रिटेन में सियासी हलचल चरम पर है। कंजरवेटिव पार्टी के भीतर अगले प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। फिलहाल अरविंद भारतवंशी पूर्व वित्तमंत्री ऋषि सुनक जयतिवक कंजरवेटिव पार्टी का नेता और अगले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पक्ष में सबसे आगे हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मैदान में उतरने की हलचल से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दोनों नेताओं के समर्थकों द्वारा सौ-सौ सांसदों के समर्थन का दावा किया जा रहा है लेकिन स्थिति तब स्पष्ट होगी जब वे अपने समर्थकों की सूची जारी करेंगे। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं और उनके समर्थकों का मानना है कि चुनावी एजेंडे को पूरा करने का जनादेश उन्हें ही मिला था लिहाजा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हकदार वहीं हैं। ब्रिटेन के तीन कैबिनेट मंत्री चाणिज्य मंत्री जैकब रिसमॉग, रक्षामंत्री ब्रेन वालेस और एक अन्य मंत्री सिमोन क्लार्क खुलकर बोरिस जॉनसन के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में ऋषि सुनक के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचना आसान नहीं होगा। उनके लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें पूर्व स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद, सुरक्षा मंत्री टॉम तुर्गेदत और पूर्व स्वास्थ्य सचिव मेन हेटकोक समेत कई अन्य वरिष्ठ सहयोगियों का समर्थन हासिल है। ऋषि सुनक के पक्ष में एक बात और जाती है कि बोरिस जॉनसन कई घोटालों और बड़ी संख्या में अपने मंत्रियों के इस्तीफा के बाद खुद इस्तीफा देने को मजबूर हुए। अब उनकी चमक पहले जैसी नहीं है। सुनक खेमे के लिए उन्हें घेरना आसान होगा। कंजरवेटिव पार्टी के लिए भी बोरिस जॉनसन को नेता चुनना इसलिए चुनौतीपूर्ण होगा कि वे एक विफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इसके अलावा उनके नेतृत्व में कंजरवेटिव पार्टी के लिए अगला चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। कंजरवेटिव पार्टी को साथ-साथ चाहिए जो वित्तीय स्थिरता महत्व करने के साथ-साथ महंगाई कम करने, टैक्स कटौती और पार्टी को एकजुट रखने की

भारतवंशी पूर्व वित्तमंत्री ऋषि सुनक कंजरवेटिव पार्टी का नेता और अगले प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मैदान में उतरने की हलचल से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दोनों नेताओं के समर्थकों द्वारा सौ-सौ सांसदों के समर्थन का दावा किया जा रहा है लेकिन स्थिति तब स्पष्ट होगी जब वे अपने समर्थकों की सूची जारी करेंगे। ऋषि सुनक के पक्ष में एक बात और जाती है कि बोरिस जॉनसन कई घोटालों और बड़ी संख्या में अपने मंत्रियों के इस्तीफा के बाद खुद इस्तीफा देने को मजबूर हुए। अब उनकी चमक पहले जैसी नहीं है। सुनक खेमे के लिए उन्हें घेरना आसान होगा। कंजरवेटिव पार्टी के लिए भी बोरिस जॉनसन को नेता चुनना इसलिए चुनौतीपूर्ण होगा कि वे एक विफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इसके अलावा उनके नेतृत्व में कंजरवेटिव पार्टी के लिए अगला चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। कंजरवेटिव पार्टी को साथ-साथ चाहिए जो वित्तीय स्थिरता महत्व करने के साथ-साथ महंगाई कम करने, टैक्स कटौती और पार्टी को एकजुट रखने की

कोई तोज-तौहार हो, शादी अथवा पार्टी में जाने की तैयारी हो या फिर शॉपिंग के लिए बाजार जाना हो, युवतियां या महिलाएं बगैर श्रृंगार किए घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना चाहती। विभिन्न त्यौहारों पर तो महिलाओं के संवने-संवर्ने का चलन जैसे भी बहुत पुराना है। कर्वा चौथ पर भारतीय नारी सोलह श्रृंगार करती ही हैं, दीवाली की चमक-दमक और जगमगाती रात में भी महिलाओं में सजने-संवर्ने का अलग ही क्रेज होता है। अधिकांश महिलाएं इस खूबसूरत मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। एक गृहिणी कुसुम शर्मा कहती हैं कि कहीं पार्टी वगैरह में जाना ही या दीवाली पर श्रृंगार करने की बात हो, अक्सर महिलाएं ऐसी वेशभूषा का ही चयन करती हैं, जो पुरुषों को और खासतौर से पति की आँखों को आकर्षक लगे। पहनावे व मेकअप इत्यादि के मामले में हर पुरुष की अलग रुचि होती है, इसलिए विशेष अवसरों पर भी महिला का पहनावे और मेकअप उस पुरुष की पसंद पर ही निर्भर होता है, जिसके लिए वह तैयार होती है। एक स्थानीय ब्यूटी पालर की मालकिन के मुताबिक टीवी के कुछ लोकप्रिय धारावाहिकों की महिला पात्रों के फैशन स्टाइल का आज महिलाओं पर इस कदर जादू छाया हुआ है कि आधुनिक और ग्लैमरस दिखने की चाह में अधिकांश महिलाएं अब अपनी ड्रेस, बालों का स्टाइल, बिंदी, लिपस्टिक, मेकअप इत्यादि सभी कुछ इन्हीं की नकल करते हुए अपना रही हैं। इस बारे में एक ब्यूटीशियन बताती हैं कि उनके ब्यूटी पालर में आने वाली ज्यादातर महिलाएं अब दीवाली जैसे खास त्यौहारों के मौके पर भी टीवी सीरियलों जैसे ही मेकअप की मांग करने लगी हैं। ज्यादातर महिलाएं जहां कुछ लोकप्रिय टीवी सितारों जैसी ही बिन्दी तथा ज्वैली पहनना पसंद करती हैं, वहीं बालों का स्टाइल, स्पैगिटी ब्लाउज, खूबसूरत सूट-सलवार, चूड़ियां, लिपस्टिक और मेकअप भी वैसा ही पसंद करती हैं। जहां तक विभिन्न त्यौहारों पर महिलाओं के सजने-संवर्ने की बात है तो ज्यादातर महिलाएं इसके लिए अपने पति की पसंद-नापसंद का पूरा ख्याल रखती हैं और उनकी कोशिश



होती है कि अपने व्यक्तित्व, अपने परिधानों और अपनी अदाओं से कम से कम इन खास मौकों को खास बना सकें। शायद यही वजह है कि कर्वा चौथ और दीवाली जैसे खास अवसरों पर महिलाएं अब अपने साज-श्रृंगार के लिए ब्यूटी पालरों की मदद भी लेने लगी हैं। दीवाली के अवसर पर हर साल बाजार में परम्परागत परिधानों के अलावा हल्के व भारी हर तरह के फैशनबल कल्लेशान पेश किए जाते रहे हैं। सौन्दर्य विशेषज्ञ मानते हैं कि चूँकि दीवाली रोशनी का त्यौहार है, इसलिए इस अवसर पर कपड़ों के चयन में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है ताकि जगमगाती रात में नारी का सौन्दर्य खिलकर एक अलग ही चमक बांध सके। इसके साथ-साथ बालों का स्टाइल और मेकअप भी पूरी तरह से परिधानों से मेल खाता होना चाहिए। जैसे आजकल महिलाओं पर विभिन्न टीवी सीरियलों की नायिकाओं और खलनायिकाओं के फैशन का जादू भी फिर चढ़कर बोल रहा है और दीवाली के मौके पर भी महिलाओं पर टीवी के इस फैशन का प्रभाव अधिक देखा जाता है। दीवाली पर महिलाएं किस प्रकार का श्रृंगार करें और अपने पहनावे व मेकअप के मामले में किन किन बातों को खास महत्व दें, इस बारे में सौन्दर्य विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं में काफी पहले से ही दीवाली जैसे त्यौहारों पर श्रृंगार करने का क्रेज देखा जाता रहा है, इसलिए अब कई फैशन डिजाइनर इन विशेष अवसरों के लिए न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी फैशनबल और व्यक्तित्व को निखारने वाले ऐसे परिधान बनाएंगे हैं, जिनमें उनका व्यक्तित्व पूरी तरह निखरकर सामने आए।

- लेखिका शिक्षिका हैं

महानता अहंकार रहित होती है,
तुच्छता अहंकार की सीमा पर पहुंच जाती है।
-तिरुवल्लुवर

सार सुर्खियां

आरोप, आधी रात के बाद नकाबपोश

बदमाश घर में घुसे
पीडित ने पुलिस प्रशासन व मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र
ललितपुर। शहर में इन दिनों अराजक तत्वों की चहल कदमी काफी बढ़ गयी है। आधी रात बीतने के बाद लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला इलाइट क्षेत्र जहां पुलिस पिकेट की तैनाती रहती है के पास से प्रकाश में आया है। यहां रहने वाले एक परिवार ने स्थानीय पुलिस प्रशासन व मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजते हुये अराजक तत्वों के घर में घुस आने और शोर मचाने पर भाग जाने का आरोप लगाया है।

मोहल्ला इलाइट क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर निवासी जसवन्त सिंह परिहार कक्का पुत्र विन्नावन सिंह ने भेजे गये शिकायती पत्र में बताया कि 20/ 21 अक्टूबर 2022 की रात्रि करीब 2.45 बजे जब वह अपने घर में सो रहा था। तभी खटपट की आवाज सुनकर वह व उसकी पत्नी प्रीति व पुत्री शिवानी जाग गये। उन्होंने दरबाजा खोलकर देखा तो घर के आँगन में कोई अज्ञात व्यक्ति मुंह बांधकर खड़ा था, उसे देखकर शोरगुल करने पर उक्त लोग भाग गये। आरोप है कि उक्त लोग कार में सवार होकर राते थे, जो कि कार लेकर मण्डी की ओर भाग निकले। यह भी आरोप है कि उक्त कार दो बार घर के आगे से निकलकर मिलेटी ग्राउण्ड की ओर भागी थी। तभी उन्होंने 112 पर डायल कर पुलिस को सूचना दी। यह भी बताया कि यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गयी होगी। उन्होंने पूरे परिवार समेत जानमाल को खतरा बताया। उन्होंने शिकायती पत्र में आगे बताया कि बीती 26 जनवरी 2019 को भी बी.बी.एल. 12 बोर लाईसेन्सी बन्दूक भी चोरी चली गयी थी, जिसकी उनके द्वारा रात्रि में डायल 112 पर फोन लगाकर पुलिस को सूचना दी। बंदूक चोरी की सूचना भी कोतवली में दी थी। अब पीडित परिवार ने जानमाल की सुरक्षा करायी जाकर कार्यवाही किये जाने की गुहार लगायी है।

खनिज अधिकारी के खिलाफ लामबंद हुये गाए पत्रकार

ललितपुर। जिले में खनिज अधिकारी शशांक शर्मा की कार्यशैली के विरोध में पत्रकारों सहित राजनीतिक दल के नेताओं ने भी जांच और कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय सांसद सहित जिलाधिकारी को भी शिकायती पत्र दिया गया है। ललितपुर जनपद में खनिज अधिकारी की मौन स्वीकृति के चलते जिले में अवैध खनन का कारोबार अपने चरम पर है, जिसके चलते तालबेहट में जेसीबी से अवैध मोरम की खुदाई करते हुए 3 युवाओं की दर्दनाक मृत्यु, अवैध खनन से खोदे गए सैकड़ों फुट के गड्ढों में भरे पानी में डूबने से कई बच्चों, जानवरों सहित कई लोगों की मृत्यु हो रही है। यही नहीं जिले में अवैध खनन से उत्पन्न विवादों से जिले भर में लोग परेशान हैं। लगातार कार्यवाही की मांग करने के बाद भी शासन प्रशासन ने खनिज अधिकारी के विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया है। अणुपट्ट जानकारी के अनुसार पूर्व में रोड़ा में अवैध खनन के संबंध में इनको ललितपुर से हटा दिया गया था परंतु पुनः ललितपुर में ही फिर से पदस्थ कर दिया गया जो जांच का विषय है। लगातार समाचार पत्रों में सुर्खियां बनने के बाद भी इनका खेल जारी है। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम बिहारी कौशिक ने बताया कि पटोराकला में अवैध खनन कार्यों ने हजारों वन मीटर मिट्टी खोदकर बड़े-बड़े स्थायी गड्ढे बना दिए हैं। जिनमें आए दिन छोटे-छोटे बच्चों और जानवरों की डूबने से मृत्यु हो रही है। उनके द्वारा शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुरेश प्रकाश कौन्तेय ने कहा इनके विरुद्ध जो भी शिकायत की जाती है चाहे वह जनसुनवाई में हो अथवा उच्च अधिकारियों को उनकी जांच इसी अधिकारी के पास भेजकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की पोल खोली जा रही है। बताते चलें इनका विभाग राजस्व वसूली में भी सबसे पीछे चल रहा है। जबकि

ग्रेनाइट, खंडा, बालू, मौरंग का कारोबार बड़े स्तर पर पूरे जिले में चल रहा है। इसके बाद भी राजस्व वसूली में सिर्फ टेईस प्रतिशत इनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। किसी तरह की प्रभावी जांच या कार्यवाही न होने पर दीपावली बाद जिले के पत्रकारों और राजनीतिक दल के जागरूक पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के यहां जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाया।

सिद्धि सागर एकेडमी में बच्चों के साथ दीपावली पर्व को लेकर किया आयोजन

ललितपुर। दीपावली पर्व के आगमन के उपलक्ष्य में सिद्धि सागर एकेडमी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्र छात्राओं में अत्यन्त उत्साह भरा था। दीपावली कार्यक्रम के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के बच्चों ने अपने टीचर्स के कुशल निदेशन एवं सहयोग से अपनी-अपनी क्लासेज को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया। सभी ने अपनी क्लास के बोर्ड पर सुन्दर चित्रकारी के द्वारा दीपोत्सव की छटा बिखेर दी। छात्र छात्राओं में अपनी क्लास को सर्वाधिक सुन्दर बनाने की होड़ लगी रही। उनके प्रत्येक कार्य में शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनकी पूरी सहायता की। मुख्य कार्यक्रम एकेडमी के एक्टिविटी हाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एकेडमी के चेयरमैन भूपेन्द्र जैन एवं डायरेक्टर रीता जैन द्वारा लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना के साथ किया गया। तत्पश्चात् स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने सामूहिक आरती करके सम्पूर्ण परिसर को अंजुयमान कर दिया। इसके बाद चेयरमैन भूपेन्द्र जैन ने जनसुनर चित्रकारी के द्वारा दीपोत्सव की सीता एवं लक्ष्मण को तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। आरती के पश्चात् कक्षा एक से कक्षा आठ तक के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सीनियर क्लासेज की छात्राओं ने डांडिया की शानदार प्रस्तुति दी। सीनियर छात्र-छात्राओं ने अपनी लघु नाटिका द्वारा पटाखों से होने वाले प्रदूषण एवं उसके दुष्परिणाम को समझाया। जूनियर ग्रुप में क्लास फस्ट के छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति द्वारा दीपावली पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अन्य क्लासेज के छात्र-छात्राओं ने भजन, गीत एवं कविताएं पेश की। इस अवसर पर एकेडमी के चेयरमैन ने कहा कि हमें गर्व है कि हम भारत देश के वासी है। यहां सभी पर्व त्योहार आपसी भाईचारे एवं सामाजिक समरसता के साथ मनाए जाते हैं। हमारे ये पर्व हमें कुछ न कुछ संदेश एवं सीख देते हैं और हमें ढेरों खुशियां देते हैं। उन्होंने उपस्थित बच्चों को पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया और उनसे अपील भी की कि वे सब पटाखों से दूर रहें और हंसी खुशी दीपावली का पर्व मनायें। एकेडमी की डायरेक्टर रीता जैन ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे कुशल शिक्षकों के प्रयास से ही विद्यार्थी अपनी परंपरा एवं संस्कृति से परिचित हो पाते हैं। उन्होंने शिक्षकों के साथ-साथ सभी छात्र-छात्राओं को आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया। अंत में सब बच्चों को प्रसाद वितरित करके कार्यक्रम का समापन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का कुशल संरक्षण शिक्षिका प्राची श्रीवास्तव एवं कक्षा छह की छात्रा नायशा दीवान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफलता पूर्वक आयोजित करने में सीमा अरोरा, जौली नामदेव, रीना साहू, छाया नमदेव, पूजा सोनी, सरिता चतुर्वेदी, राशि जैन, प्राची ताम्रकार, राजनी जैन, पुनीता पाराशर, कल्पना अग्रवाल, एकता रिछारिया, वैष्णवी पुरोहित, साक्षी देवतिया, रश्मि नामदेव, प्रियंका तोमर, मानसी जैन, कृतिका जैन, मोहनरी सेन, नेहा पटेल, कल्पना राय, अखिलेश शर्मा, हेमंत यादव, विवेक दुबे, अनुराग सिंह, मूलचन्द्र, कला, रेखा, इंदिरा, पिस्ता आदि का सराहनीय योगदान रहा।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

ललितपुर। कृषि विज्ञान केन्द्र के सभागार में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के मुख्य अतिथि बी.यू.ए.टी. बांदा कुलपति डॉ एन.पी.सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारम्भ किया गया। उक्त बैठक में विशिष्ट अतिथि, डा.एन.के. बाजपेयी, निदेशक प्रसार, डा.आनन्द सिंह, सह-निदेशक प्रसार, डा.मयंक दुबे, सहायक प्राध्यापक, बी.यू.ए.टी. बांदा, डा. सरिता देवी, प्रभारी, केवीके, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सह निदेशक मत्स्य, जिला कृषि अधिकारी, उद्यान निरीक्षक एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के समस्त वैज्ञानिक एवं जिले के प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा विगत वर्षों में किए गये कार्यों की आख्या एवं वर्ष 2022-23 की कार्य योजना प्रस्तुत कर उस पर विचार विमर्श किया गया। समस्त वैज्ञानिकों द्वारा विषयवार आख्या प्रस्तुत की गयी। बैठक में उपस्थित समस्त वैज्ञानिकों, संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कृषकों द्वारा दिये गये सुझाव को सम्मिलित किया गया जिससे कि कार्ययोजना जिले के कृषकों के अनुरूप हो। बैठक के मध्य अतिथि कुलपति डा. एन.पी. सिंह



बैठक के दौरान अतिथि का स्वागत करते कृषि वैज्ञानिक

ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र की तकनीकयों कृषकों के अनुरूप होनी चाहिए जो कृषकों का

उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने में सहयोग करें। डा. एन.के. बाजपेयी, निदेशक प्रसार ने कहा कि प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र कृषकों की समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा खोला गया है। जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए। ललितपुर जिला बुन्देलखण्ड का मात्र एक ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के जनजाति निवास करते हैं। सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान भाई अपने नजदीकी केवीके पर पहुंचकर उक्त योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठक में डा.दिनेश तिवारी, डा.एन.के.पाण्डेय, डा.एन.के. यादव, डा. मारुफ अहमद संबंधित विभाग के अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष राजकुमारी, सीताराम, राजकुमार, हरदयाल, हरिराम लोधी सहित अन्य कृषक उपस्थित रहे। संचालन डा.एन.के. पाण्डेय विषय वस्तु विशेषज्ञ-कृषि प्रसार एवं धन्यवाद ज्ञापित डा.मारुफ अहमद, विषय वस्तु विशेषज्ञ-पशुपालन द्वारा किया गया।


अंधेरा काल्पनिक है जो रोशनी होने पर तुरंत गायब हो जाता है

ललितपुर। दीपावली के पावन पर्व पर आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित करते हुए नेहरू महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रो. भगवत नारायण शर्मा ने कहा कि स्वस्थ, निरोगी काया ही व्यक्ति का सच्चा धन है। धनतेरस और दीवाली को मंगल परम्परा यह सन्देश लेकर आती है कि- धन मेरा नहीं तेरा है, यानि श्रम से उत्पन्न धन श्रम को देवी लक्ष्मी का है। पुरानी उक्ति किन्ती सटीक है कि रुपया-पैसा हाथ का मैल है। अर्थात् किसान, कारीगरों और मजदूरों के पसीने का ही अर्क रुपये-पैसे में संचित होने पर एक प्रकार से श्रमिक के जीवित श्रम से उत्पादित रूपये-पैसे के मैल को ही लोग चल और अचल संपत्ति कहने लगते हैं। परंतु यह निर्जीव संपत्ति के उत्पादक श्रमिकों का जीवन पर गला पकड़े रहती है और उसका जीवन दूधर कर देती है। भारतीय संस्कृति में संत कबीर के शब्दों में विपत्ति का सामना करने के लिए संपत्ति का होना जरूरी है किंतु उसकी सीमा इतनी ही हो कि साईं इतना दीजिये, जो कि कुटुंब समाय। मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय। धन की या श्रम की देवी लक्ष्मी यही चाहती है कि धरती के सारे मनुष्य, मनुष्यत्व की पूरी महिमा और गरिमा के साथ परस्पर उपकार करते हुए सर्व सुख लोक मंगलकारी जीवन जियें और परमात्मा के बनाये पांचों तत्वों के साथ अपनी अद्वैतता बनाये रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्यवन्तः। रोशनी की अनुपस्थिति में ही मनुष्य धृजो को सौंप समझ बैठता है या सौंप के फन को धृजो समझकर जीवनलीला को समाप्त कर देता है। अतः सूरज की तरह प्रकाश की किरण प्रत्येक के मन में धसी हुई कलियों को हटाने के लिए अपरिहार्य है परन्तु मुसीबतों का अंत अपनी अपनी दाढ़ी की आग बुझाने से कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए दीपावली अस्तित्वहीन अंधेरे को संगठित होकर हटाने का एक सामूहिक आवाहन है। इस पर्व पर जुए की कुप्रथा को कतिपय स्वार्थित्व धर्म के साथ जोड़ने का जो दुस्साहस हजारों साल से कर रहे हैं, वे भोले-भाले लोगों को बड़ी कुटिलता और भ्रूतता के साथ जाल में इस तरह से फंसा लेते हैं कि उनकी जुए की दीवाली एक दिन की नहीं बल्कि साल के 365 दिनों के लिए आती है। जुआ खेलने वाले जो दो व्यक्ति इस जुगाड़ में रहते हैं कि कैसे एक का पैसा उसी की जेब में पहुंच जाये वे एक दूसरे के क्या वास्तविक दोस्त कहलाने लायक हैं। कृपाया सौचें और समाधान का कारगर उपाय करें। वस्तुतः दीपावली ज्ञान फलस्वरूप इच्छा, तदंतर क्रिया की त्रिपुरा सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की संयुक्त उपासना का पावन पर्व है।

चोरी की दस बाइकों समेत एक हिरासत में एक बदमाश हुआ भागने में कामयाब

ललितपुर। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुयी है। तालबेहट पुलिस ने एक शातिर बदमाश के पास से दस मोटर साइकिलें बरामद की हैं, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने पकड़े गये बदमाश को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया गया है कि जनपद में आपराधिक गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी व अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। टीम का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी तालबेहट इमरान अहमद द्वारा किया जा रहा था। गश्त के दौरान थाना पूराकला पुलिस को सूचना मिली कि एक बदमाश भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुरा बाजार निवासि प्रताप रजक उर्फ रोली पुत्र कल्लू रजक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से पकड़े गये प्रताप के पास से जामा तलाशी के दौरान 340 रुपये बरामद किये। यह कार्यवाही देखकर दूसरा बदमाश मोहल्ला दुरा बाजार निवासी धमेंद्र उर्फ तेरेनाम उर्फ राधे यादव पुत्र जगत सिंह निवासी रामू मेम्बर की गली में दुरा बाजार मफ्टर साइकिल छोड़कर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उक्त दोनों के खिलाफ धारा 411,413,414,420,467,468,471 भादवि व धारा 41 सीआरपीसी पंजीकृत किया है। बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष ओमबाबू तिवारी, उ.निर.राजकुमार यादव, उ.नि.कृष्ण कुमार, हे.कां.प्रकाशचन्द्र, हे.कां.दिलीप कुमार, कां.निायाज अहमद, कां.गोविन्द कुमार व कां.विकास शामिल रहे।

प्रभु, गुरु और मां-बाप की सेवा स्वयं करें: सुधासागर लालितपुर। मुनिपुंगव सुधासागर महाराज ने धनतेरस पर धर्मांत पिलाते



धर्मसभा को संबोधित करते मुनिश्री

हुए कहा कि शब्दों को तोड़ने से सरस्वती और लोगों को जोड़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शब्द जब टूटते हैं तो कई अर्थ निकलते हैं शब्दों के रहस्यों के परमगुरु ही उदघाटित करते हैं। उथले पानी में कभी मोती नहीं मिलते सागर में ही मोती की प्राप्ति होती है जितने गहरे जाओगे उतनी ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार शब्दों में ही असीम अर्थ छुपे होते हैं। ग्रन्थों को पढ़ने से ही ग्रन्थिया खुलती हैं। श्रुत की विनय ही से ही सरस्वती की प्राप्ति होती है। जहां दिलों में प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है जहां कलह होती है वहां अधिक समाय तक लक्ष्मी टिकती नहीं है। यदि लक्ष्मी रूपी धन को पाना चाहते हो तो अपने घर में एक प्रेम रूपी पौध जरूर लगायें। प्रभु, गुरु और मां बाप की सेवा नोकरों से नहीं स्वयं करना चाहिए। जन्म और संस्कार देने वालों को सेवक से भरोसे नहीं बल्कि स्वयं सेवक बनकर उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहिए। इनके सामने कभी सेठ नहीं बनना सेवक बन जाना मां बाप के सामने वेदा ही बने रहना। उन्होंने कहा कि गुरु और मां बापन की सेवा अहो भाय्य मानकर करो। कहा कि अगर तुम्हारे कारण मां बाप की आंखों में आंसू आये तो तुम्हे ऐसा अभिशाप मिलेगा कि तुम जन्म जन्म तक अनसु रहोगे। कोई तुम्हारा लालन पालन करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बचपन में जिनहोंने तुम्हें सहारा दिया। बुढ़ापे में तुम उनका सहारा बनो। उन्होंने कहा कि नौकरों के अंदर संवेदनायें नहीं होती लेकिन मां बाप को बुढ़ापे में संवेदनाओं की जरूरत होती है। इसलिए संवेदना शून्य नहीं संवेदनशील बनो।

वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमराई

जिला संयुक्त चिकित्सालय को तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किया जाये : बु. वि. सेना

ललितपुर। बुन्देलखण्ड विकास सेना के तत्वाधान सेना प्रमुख इरीश कपूर टोट्टे के नेतृत्व में स्थानीय कंपनी बाग में वैश्विक महामारी में ललितपुर की चरामता गई स्वास्थ्य सेवा पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वैश्विक महामारी में ललितपुर की बुरी तरह चरमरा गई स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। सेना प्रमुख टोट्टे कपूर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जनपद के तमाम लोग महानगरों में मारे मारे फिर रहे हैं। एक तरफ तो लोग कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार होने के कारण पहले से ही परेशान है तथा दूसरी तरफ बीमारियों से लड़ने के लिए महानगरों में बुरी तरह से लुटपिट रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद का जिला संयुक्त चिकित्सालय जो कि पूरे जिले की लाखों की आबादी को कवर करने के लिए है वह घोर असुविधा, लापरवाही और बदईंतजागी का सबब बन गया है। यहां पर चिकित्सा सुविधा के नाम केवल खानापूति हो रही है। इतनी बड़ी आबादी की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए एक भी कांडिगोलोजिस्ट मौजूद नहीं। ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग होने के बावजूद आर्थोपेडिक सर्जन की कमी है। जनरल



कंपनी बाग में प्रदर्शन करते बुविसे पदाधिकारी

फिजीशियन, एन्डोक्रायोनोलोजिस्ट, नेफोलोजिस्ट, जनरल सर्जन, न्यूरोलोजिस्ट, गायनकोलोजिस्ट, पीडिटीशियन समेत पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इसके अलावा डायलिसिस यूनिट, एमआरआई, बड़े आर्थोपेडिक ऑपरेशन के अभाव में लोग महानगरों में मारे मारे फिर रहे हैं। उन्होंने उ. प्र. शासन से मांग की है कि ललितपुर में प्रस्तावित मेडिकल कालेज को बिल्डिंग तैयार होने तक जिला संयुक्त चिकित्सालय में अस्थाई तौर पर चालू करने की मंजूरी दी जाये। ताकि आम जनता

को चिकित्सा सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा शोध अतिथी शशासन ने तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं एवं चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं की तो बु. वि. सेना उग्र आन्दोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जायेगी। धरना प्रदर्शन में राजकुमार कुशवाहा, कदीर खां, अमरसिंह बुन्देला, मुन्ना त्यागी, भगवत वर्मा, प्रदीप पंडित, विनोद साहू, परवेज पठान, प्रेमशंकर गुप्ता, पुष्पेन्द्र शर्मा, नंदू सोनी, बृजेन्द्र पारासर, प्रदीप साहू, टिकू सोनी, कामता भट्ट, अमित जैन आदि मौजूद रहे।

कृषकों की आमदनी बढ़ाने में एफपीओ निभायंगे महत्वपूर्ण भूमिका

ललितपुर। जिलाधिकारी के निर्देशन में कृषकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड विरधा की ग्राम पंचायत जामुनधानाकलां में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पाण्डेय के मुख्य अतिथ्य में किसानों को कृषि व उद्यान विभाग के सहयोग से कृषकों को निःशुल्क संकर हाईब्रिड शाकभाजी बीज व सरसों बीज की मिनी किटों का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कृषकों को जागरूक करते हुये उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु परम्परागत फसलों के साथ-साथ खेती के 10 प्रतिशत हिस्से पर शाकभाजी की खेती को आधुनिक तकनीक मल्लिंग व ड्रिप सिंचाई पद्धति के साथ करने हेतु सुझाव देते हुये बताया कि ऐसा करने से कृषकों के पानी की बचत होती है व निराई-गुद्दाई का खर्च बचता है व उत्पादन परम्परागत खेती की तुलना में तीन से चार गुना बढ़ जाता है जिससे किसानों को सामान्य की तुलना में दो से तीन गुणा अधिक लाभ होता है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किशोरी पुत्र बुद्धे के खेत का निरीक्षण किया गया। किशोरी के खेत पर टमाटर की उन्नतशील प्रजाति अर्का सम्राट के रोपण का शुभारम्भ किया गया किशोरी द्वारा बताया गया कि अवगत कराया गया कि हमारे एफ.पी.ओ. के माध्यम से मल्लिंग व ड्रिप सिंचाई पद्धति के साथ टमाटर की खेती करने जा रहे हैं। इस अवसर पर राजेश साहू द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम



किसानों के बीच जाकर वार्ता करते सीडीओ

जामुनधानाकलां में 50 कृषकों को एक-एक एकड़ में सब्जी मटर की खेती हेतु प्रजाति जी.एस.-10 का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया तथा कृषि अभियान हीरालाल कुशवाहा द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे एफ.पी.ओ. व उद्यान विभाग के सहयोग से ग्राम जामुनधाना में 15 एकड़ में ड्रिप सिंचाई पद्धति की स्थापना करायी जा रही है जिससे लाभान्वित होने वाले

कृषकों की आमदनी बढ़ाया जा सके। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी के.एन. पाण्डेय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के परामर्श के साथ-साथ उद्यान व कृषि विभाग में चलायी जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आवाहन किया गया। इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी आलोक कुमार एवं जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार उपस्थित रहे।

पटाखों से होने वाला प्रदूषण सेहत के लिए खतरनाक

दीपावली पर सेहत का रखें ख्याल

ललितपुर। दीपावली पर्व को हंसी खुशी मनाते समय सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। विशेषकर पटाखों से होने वाला ध्वनि एवं वायु प्रदूषण सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। वही, तली हुई चीजें सेहत को खराब कर सकती हैं। यह कहना सीएमओ डॉ. जे एस बक्शी का है। उन्होंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज एवं हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज तली भूनी चीजों से परहेज करें। दीपावली पर्व पर होने वाले हादसे के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वही, एंजुलेस को हॉटस्पॉट पर रखा गया। जिले में ऐसे 7 स्थान चिन्हित किए गए। दुर्घटना होने पर एंबुलेंस के लिए 108 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को इको फ्रेंडली पटाखे चलाने की सलाह भी दी। कम्प्यूनिटी मैडिसिन विशेषज्ञ डॉ. सोरभ सक्सेना ने बताया कि पटाखे खेती में शरीर को पानी से धो लें। उन्होंने घर पर फर्स्ट एड बॉक्स रखने की भी सलाह दी। मातृ वंदना योजना के जिला समन्वयक गौरव जैन भी पहने रहे। जिन लोगों को एलर्जी है तो



लोगों की सेहत को लेकर जानकारी देते प्रभारी सीएमओ

वह पटाखे के धुएं से दूर रहें। ऐसी जगह पटाखे ना जलाएं जहां ज्वलनशील पदार्थ रखा हो। इसके अतिरिक्त अस्पतालो के आसपास भी पटाखे न फोड़ें। बारूद के कण आंखों एवं त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, खांसी व शरीर में कितने पड़ने की भी समस्या हो सकती है ऐसी स्थिति में शरीर को पानी से धो लें। उन्होंने घर पर फर्स्ट एड बॉक्स रखने की भी सलाह दी। मातृ वंदना योजना के जिला समन्वयक गौरव जैन ने बताया कि प्रदूषण हर लिहाज से

खतरनाक है। प्रदूषण किडनी संबंधी रोग का कारण बन रहा है, साथ ही गर्भ में चल रहे शिशु व गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दूषित हवा में ज्यादा समय बिताने से होने वाले बच्चों में निमोनिया बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं पटाखों से दूर रहें। यहां उपलब्ध हो गये एंजुलेस जिले के ग्राम बालाबेहट, ग्राम मसौरा, बांसी, तालबेहट, सैदपुर, मिचंवार व इलाइट चौराहे पर 108 एंजुलेस की व्यवस्था की गई है।



'राफेल' की धमक के साथ आसमान में बिखरेगी 'आकाशीय रंगोली' की चमक



पटाखा बाजार में खरीददारी करते लोग ।

आतिशबाजी की दुकान में सजे पटाखे ।

भास्कर न्यूज, बांदा। दीवाली में आतिशबाजी न हो तो सब कुछ फीका लगता है। प्रकाश पर्व के लिए इस बार भी शहर के जीआईसी मैदान में पूरे सुरुक्षा इंतजामों के बीच आतिशबाजी की दुकानें सज गई हैं। मैदान में 78 आतिशबाजी ने बाजार में अपनी अपनी दुकानें सजा ली हैं और ग्राहकों को लुभाने में जुट गए हैं। देश की राजनीति में चल रही विभिन्न घटनाओं और उपलब्धियों के साथ ही कार्टून कैरेक्टरों का भी पटाखा बाजार में खासा दम दिख रहा है। बीते साल जहां 'राफेल राकेट' और 'कोरोना बम' ने अपनी दम दिखाई थी, वहीं इस बार आकाशीय रंगोली और कार्टून मोटू-पतलू अनार प्रमुख आकर्षण में शामिल हैं। रविवार से ही लोगों ने पटाखों की खरीदारी शुरू कर दी है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी देशी और चाइनीज पटाखों की भरमार

मची हुई है। हालांकि पिछले कुछ सालों से चाइनीज उत्पादों से ग्राहकों की दूरी देशी पटाखों के लिए राहत की बात है, लेकिन अपनी कम कीमत की वजह से अभी भी चाइनीज बाजार का दम देखने को मिल रहा है। सोमवार की रात दीपावली पर करोड़ों रुपए की आतिशबाजी की धूम-धड़ाम के बीच जनपदवासी प्रकाश पर्व मनाएंगे। जिसके लिये बाजार में तरह तरह के देशी और चाइनीज पटाखे उपलब्ध हैं। पटाखों की कीमत पहले की तुलना में कुछ ज्यादा है। लेकिन दीवाली के मौके पर लोग कीमत का परवाह किये बगैर ही पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। पटाखा दुकानदार राजू त्रिपाठी ने बताया कि बीते कई वर्षों से भारत-चीन के खराब रिश्तों का असर पटाखा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। ग्राहक इस बार भी चाइनीज पटाखों से तौबा

- आज धूमधाम से मनेगा प्रकाश पर्व, जीआईसी मैदान में सर्जी पटाखा की 78 दुकानें
- आतिशबाजी की बढ़ती कीमतों और बच्चों की जिद के बीच हीली होती लोगों की जेब

कर रहे हैं और देशी पटाखे अधिक खरीद रहे हैं। बताया कि अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से आकाशीय रंगोली करने वाले पटाखों पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। जबकि आवाज वाले सतरंगी छटा

जाने वाले पटाखों से परहेज कर रहे हैं। पटाखा बाजार में इस बार राफेल राकेट और कोरोना बम के साथ ही मोटू-पतलू अनार, म्यूजिकल सार्ड, सुप्रीम का पावर प्लाइंट समेत आकाशीय रंगोली आदि पटाखे बाजार में अपनी धमक जमाए हुए हैं। बताया है कि पटाखा बाजार में इस बार दस रुपए से लेकर करीब दस हजार रुपए तक की कीमत के पटाखे बिक रहे हैं। हालांकि महंगाई डायन की मार से पटाखा बाजार भी अछूता नहीं रहा और यहां भी महंगाई का रंग खूब देखने को मिल रहा है।

तोल-मोल कर खरीद रहे मनपसंद पटाखे: राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में लगी पटाखा बाजार पर रौनक रही। गांव और शहर से आए लोग सुबह से ही बाजार पर जा धमके। सीको, फुलझड़ी, महताब, शैरा, राकेट और आसमान पर सतरंगी छटा

कायस्थ महासभा का दूज पूजन 27 को

बांदा। कायस्थ सभा चित्रगुप्त परिवार द्वारा 27 अक्टूबर दिन गुरुवार को कटरा स्थित चित्रगुप्त मंदिर व महेश्वरी देवी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में दूज पूजा के साथ ही भगवान चित्रगुप्त की जयंती मनाई जाएगी। कायस्थ सभा के मंत्री संतोष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कटरा स्थित चित्रगुप्त मंदिर में अपराह्न 3 बजे हवन पूजन व प्रसाद वितरण के साथ दूज पूजन कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके पश्चात महेश्वरी देवी मंदिर में भी यही अनुष्ठान संपन्न होगा। उन्होंने सभी चित्रांश बंधुओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।

गौवशों की पूजा कर भाजपा महिला अध्यक्ष ने मनाया जन्मदिन

भास्कर न्यूज, बांदा। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वंदना गुप्ता ने अपना जन्मदिन नगर पालिका द्वारा संचालित कान्हा गौशाला में पहुंचकर गौवशों की पूजा अर्चना व गुड़ आदि खिलाकर मनाया। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के नेतृत्व में मनाया गया। समिति जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति की अगुवाई में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वंदना गुप्ता नगर पालिका द्वारा संचालित कान्हा गौशाला पहुंचीं। जहां उन्होंने गौवशों की विधि विधान से पूजा अर्चना की। फूल माला पहनाईं और गुड़ आदि खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान मौजूद गौरक्षा समिति के सदस्यों ने उनके दीर्घजीवी होने की ईश्वर से कामना की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनसंख्या का घनत्व जिस गति से संपूर्ण विश्व में बढ़ता जा रहा है।

वैद्य चिकित्सा के माध्यम से परोपकार के लिए आगे आए: डीएम

भास्कर न्यूज, बांदा। आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान के अंतर्गत धनवंतरी जयंती के अवसर पर राजकीय महिला महाविद्यालय में वैद्य सम्मेलन, परेलू मसालों एवं औषधि पौधों के साथ होम्योपैथी तथा यूनानी दवाओं आदि की प्रदर्शनी एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई।

राजकीय महिला महाविद्यालय में आयुष विभाग द्वारा रविवार को धनवंतरी जयंती के अवसर पर वृहद कार्यक्रम आयोजित किया

गया। शुभारंभ जिलाधिकारी अनुराग पटेल, ज्योद्धा उमाशंकर पांडेय, आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा प्राचार्य तथा महिला कॉलेज प्राचार्य डा.दीपाली गुप्ता, जिला चिकित्साधीक्षक के मुख्य चिकित्साधीक्षक वैद्य द्वारिका प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सेवा धर्म पर

गहनों के साथ की गई। जिलाधिकारी ने इस दौरान आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला और अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए अनेक संस्मरण सुनाए। इसके अलावा

कार्यक्रम में मौजूद सभी वैद्यों को चिकित्सा के माध्यम से परोपकार करने की प्रेरणा दी। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित वैद्यों को तुलसी पुष्प व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा.नीरेंद्र बहादुर सिंह एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी डा.जितेंद्र कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान वैद्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। तथा चरेलू मसालों एवं औषधि पौधों के साथ



होम्योपैथी एवं यूनानी दवाओं आदि की प्रदर्शनी लगाई गई तथा रंगोली प्रतियोगिता आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। संचालन आयुष चिकित्सक डा.अर्चना भारती ने किया।

मतीजों के पिटाई से घायल चाचा ने दम तोड़ा, पत्नी घायल

भास्कर न्यूज, बांदा। जमीन बटवारे को लेकर चल रहे विवाद में घर में घुसे भतीजों ने चाचा और चाची को घर से घसीटकर बाहर ले आए। उन्हें लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। चाचा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान रविवार को सुबह उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सदर का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

तिंदवारी थाना क्षेत्र के बछेउरा गांव निवासी रामबरन (55) पुत्र गजराज वर्मा शुक्रवार की सुबह घर में बैठा था। इसी दौरान दो भतीजे आ धमके और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर घर में घुसे पांच लोगों ने रामबरन को घर से घसीट कर बाहर ले आए। उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पति को पिटाया देख पत्नी माया देवी (50) बचाने आई तो उसे भी लात धरुओं से मारकर घायल कर दिया। शोरशराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। घायलों ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया। शनिवार की दोपहर रामबरन की अचानक हालत खराब हो गई। घरवालों ने

तिंदवारी थाना क्षेत्र बछेउरा गांव में हुई घटना न्यायालय में चल रहा था जमीनी मुकदमा

उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान रविवार की सुबह रामबरन ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने शव को मर्चरी हाउस में रखवा दिया। मृतक के पुत्र जननारायण ने बताया कि उसके पिता तीन भाई थे। बड़ा राममनोहर, रामबरन और देशराज हैं। राममनोहर की काफी दिनों पहले मौत हो गई थी। तीन भाइयों के बीच में 12 बीघा जमीन थी। इस जमीन पर राममनोहर का कब्जा था। उसकी मौत के बाद यह जमीन राममनोहर की पत्नी बेला के नाम आई। लेकिन इस जमीन का हिस्सा बाट नहीं हुआ। रामबरन जमीन में हिस्सा मांग रहा था। हिस्सा बाट का करीब 10 वर्ष से न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। शुक्रवार की सुबह चचेरा भाई अमरजीत, मलखान घर के दरवाजे पर आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी लोग घर में घुस गए और उसके पिता को घसीट लाए। मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सीओ सदर गवेंद्र पाल का कहना है कि भतीजे अमरजीत से विवाद हुआ था। मारपीट हुई थी, डाक्टरों परीक्षण कराने के बाद रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई थी। उसके जिस्म पर इतनी चोट नहीं थी कि जिससे उसकी मौत हो जाए। किसी कारणवश अचानक उसकी हालत खराब हो जाने पर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घायल मरीज को रेफर करने पर मड़े तीमारदारों का हंगामा

भास्कर न्यूज, बांदा। मामूली रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। इससे तीमारदार भड़क उठे। तीमारदारों का कहना था मामूली रूप से चोटहिल युवक को डाक्टर जबरदस्ती कानपुर रेफर कर रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर तीमारदारों ने जमकर हंगामा मचाया। शोरशराबा सुनकर अन्य मरीज सहम गए। यह हंगामा काफी देर तक चला। बाद में समझाने-बुझाने के बाद मामला शांत हो सका। देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी युवक को शनिवार की सुबह परिजनों ने जहां देर रात उसके तीमारदार व स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वार्ड में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि वार्ड ब्याय और तीमारदार ट्रामा सेंटर आ पहुंचे। चिकित्सक ने घायल को कानपुर

रेफर कर दिया। डाक्टर के समझाने के बाद तीमारदार हंगामा मचाने लगे। उनका आरोप था कि मामूली रूप से घायल युवक को चिकित्सक जबरदस्ती रेफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं बाहर की दवाएं भी मंगवाई जा रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वह अपने मरीज को बाहर ले जाने में सक्षम नहीं हैं। जबकि स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि तीमारदार शराब के नशे में नरसों से अभद्रता कर रहे थे। समझाने पर खुद को पचनेही गांव का बताकर कई अधिकारियों व सप्ता पत्र से जुड़े होने की बात कहकर किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो सका। चिकित्सक का कहना है कि उनकी अभद्रता को लेकर उनकी संतुष्टि के लिए मरीज को दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा गया था।

बाहर से दवाईयां लिखने पर नहीं लग पा रही रोक

प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं ने छीना मिट्टी की मूर्तियों का व्यापार

- एक सैकड़ा कुम्हार परिवारों ने रोजगार के अभाव में पकड़ी महानगरों की राह

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
बांदा। प्रकाश पर्व दीपावली में दिव्यों के बाद यदि पूजन के लिये कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा। एक समय था कि जब बाजार में मिट्टी से तैयार की गई लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं मिला करती थीं, जिससे यहां के कुम्हारों की भी प्रतिमाएं तैयार करने से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों से मिट्टी की मूर्तियों की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनने वाली प्रतिमाओं ने ले ली है, जिसकी वजह से मिट्टी की प्रतिमा तैयार करने वाले कुम्हारों के हाथ खाली हो गये हैं। शहर में तकरीबन एक सैकड़ा ऐसे परिवार मर्दानाका मोहल्ले में रहते हैं, जो एक लंबे-समय की प्रतिमा के दिव्यों के साथ ही लक्ष्मी-गणेश की मिट्टीमाएं बनाकर उन्हें आकर्षक रंगों से रंगकर तैयार करते आये हैं, क्योंकि उस समय मार्केट में सिर्फ मिट्टी की प्रतिमाओं की ही मांग थी। इसका एक कारण यह भी है कि वैदिक शास्त्र के



बाजार में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं खरीदती महिलाएं ।



लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा को निहारती युवती ।

अनुसार मिट्टी से बनी प्रतिमा पूजन के लिये शुभ मानी जाती है। तकरीबन दो दशक पहले रबर के मोल्डिंग (सांचे) से तैयार होने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बाजार में आईं, तो लोगों ने वैदिक रीति-रिवाज को विस्मृत करते हुए इन्हें तबज्जो देना शुरू कर दिया। वजह सिर्फ एक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार होने वाली प्रतिमाओं में नाक-नक्श उभरकर आते हैं और फिनिशिंग बेहतर होने के कारण इनमें रंग और चमक अलग ही दिखाई देती है, जबकि मिट्टी टाइट होने के कारण सांचे में

उस तरह से नहीं ढल पाती, जिससे कि नाक-नक्श को बारीकी से उभारा जा सके। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के आगे होने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां और इस व्यापार को ग्रहण लग गया, जिससे मिट्टी से प्रतिमाएं गढ़ने वाले कुम्हारों ने भी इस काम को छोड़ दिया और अपने बच्चों का पैट पालने को देश के महानगरों में मजदूरी करने को परिवार समेत पलायन कर लिया।

उड़कर बिक रही मिट्टी से बनी ग्वालिन: लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं के

साथ बुंदेलखंड में मिट्टी से बनी ग्वालिन की भी प्रकाश पर्व पर पूजा शुभ मानी जाती है। गनीमत है कि अभी ग्वालिन की प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बाजार में नहीं आई हैं, इसलिये यहां के बचे हुए कुम्हार दीपावली पर सैकड़ों की तादाद में ग्वालिन तैयार करते हैं, जो हाथों हाथ बिक जाती हैं। ग्वालिन की प्रतिमा में दोनों हाथ व सिर पर तीन दिव्ये रखने को जगह बनाई जाती है। इस बार ग्वालिन का जोड़ा सौ रुपय में बिक रहा है।

मां लक्ष्मी के साथ पुजे जाएंगे खजाने

के मालिक कुबेर: प्रकाश पर्व में अब तक सिर्फ लक्ष्मी-गणेश की ही प्रतिमाएं पूजा के लिये बाजार में बिकती रही हैं, लेकिन इस वर्ष त्योहारी बाजार के बाजियोंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार होने वाली कुबेर की भी प्रतिमाएं बनाकर मार्केट में उतार दी हैं। इनकी सेल के लिये ग्राहकों से कहा जा रहा है कि खजाने के मालिक कुबेर की प्रतिमा के बिना धन की देवी माता लक्ष्मी पूजन स्वीकार नहीं करतीं। इसलिये कुबेर की प्रतिमाओं ने भी अपना अलग बाजार बनाना शुरू कर दिया है।

सार सुखियां

पटाखा फटने से एक ही परिवार के चार लोग झुलसे
भास्कर न्यूज, बांदा। बढौसा थाना क्षेत्र के नादमऊ गांव निवासी रोहित (16) पुत्र चुन्नु रविवार की सुबह अपने चचेरे भाई हीरा (10) पुत्र इंद्रजीत, जितेंद्र (12) पुत्र राधेश्याम, राज (10) पुत्र लवलेश के साथ पटाखा छुड़ा रहा था। अचानक विस्फोट हो जाने से सभी लोग झुलस गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने मरहम पट्टी करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल लेकर जाने की सलाह दी। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डीआईजी ने मिटाई बांटकर बच्चों के साथ साझा की दीवाली की खुशियां



भास्कर न्यूज, बांदा। चित्रकूटधाम मंडल पुलिस उप महानिरीक्षक ने चिल्ला क्षेत्र अंतर्गत पपरेंदा गांव में गरीब बच्चों में मिटाई, पटाखे व मोमबत्तियां आदि वितरित करते हुए खुशियों को साझा किया।

डीआईजी ने ग्रामीणों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। चित्रकूटधाम मंडल पुलिस उप महानिरीक्षक डा.विपिन कुमार मिश्र ने दीपावली की पूर्व संध्या पर चिल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम पपरेंदा में गांव के गरीब बच्चों के लिए उन्होंने इन सभी बच्चों को मिटाई के पैकेट, पटाखे व मोमबत्तियां आदि का वितरण किया और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने खुशी और गर्व का एहसास करते हुए कहा कि वह बच्चों के बीच दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं जो हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। इसलिए इनकी अच्छी परवरिश व शिक्षा जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पटाखे आदि छोड़ते समय बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहें, ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि त्यौहार में अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र, क्षेत्राधिकारी सदर गवेंद्र पाल गौतम, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन जियाउद्दीन अहमद, थानाध्यक्ष चिल्ला आनंद कुमार, पपरेंदा चौकी प्रभारी राजेश कुमार मिश्र, ग्राम प्रधान अतरहट सुरेश सिंह व पपरेंदा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रमाकांत गौतम आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

संक्रामक बीमारियों का कहर, बुखार से किशोर की मौत

भास्कर न्यूज, बांदा। संक्रामक बीमारियों का कहर लगातार जारी है। बीमारियां आए दिन किसी न किसी को चपेट में लेकर मौत की नींद सुला रही हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों की भरमार है। अस्पताल खुलते ही मरीजों की काफी भीड़ जमा हो जाती है। बुखार और पेट दर्द से पीड़ित एक किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डेगू से पीड़ित एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अक्टूबर माह बीतने को एक सप्ताह बाकी है। सर्दी भी धीरे-धीरे अपना असर दिखा रही है। इसके अलावा मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा मच्छर जनित बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। स्वास्थ्य विभाग भी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। जिला अस्पताल में डेगू की जांच शुरू हुई है। लेकिन एलाइजा जांच नहीं होती। शहर के अलौंग सेबू तलेया निवासी मूलचंद्र (13) पुत्र सियाराम कई दिनों से बुखार से पीड़ित था। इसके अलावा उसके पेट में दर्द भी होने लगा था। शनिवार को बुखार के साथ उसे उल्टी होने लगी। हालत बिगड़ने पर घरवालों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान रविवार की दोपहर उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीखपुकार मच गई। वहीं तिवारी थाना क्षेत्र के सिंधौली गांव निवासी शिवम (20) पुत्र देवीप्रसाद कई दिनों से बुखार से पीड़ित है। घरवालों ने उसका सरकारी और प्राइवेट चिकित्सकों के यहाँ उपचार कराया। लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। शनिवार को हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घरवालों का कहना है कि चिकित्सकों ने उसे संभावित डेगू बताया है। बुखार से पीड़ित एक दर्जन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

तीन लोगों ने जहरीला पदार्थ खाया

भास्कर न्यूज, बांदा। शहर के कटरा मुहल्ला निवासी शिवम (22) पुत्र नरथू ने घरेलू किसी बात से नाराज होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह कमासिन थाना क्षेत्र के दलपा पुरवा निवासी पार्वती (27) पत्नी कल्याण ने शनिवार की रात घरेलू कलह से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे भी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जसपुरा थाने के सिकहुला गांव निवासी शिवकांती (35) पत्नी रामबाबू ने रविवार की सुबह पारिवारिक कलह से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कुल्हाड़ी लगने से युवक घायल

भास्कर न्यूज, बांदा। देहात कोतवाली क्षेत्र के कुलकुम्हारी गांव निवासी लल्लू (28) पुत्र शिवप्रसाद शुक्रवार की शाम कुल्हाड़ी लग जाने से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घरवालों का कहना है कि वह लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पैर में कुल्हाड़ी लग गई, जिससे वह घायल हो गया।

टेंपो पलटने से आठ यात्री हुए जख्मी

भास्कर न्यूज, बबरेलू। बबरेलू से सवारियां भरकर मरका जाते समय भभुवा गांव के पास अचानक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में टेंपो में सवार आठ यात्री घायल हो गए। घायलों में राजेंद्र कुमार (60) पत्नी उदयमाना निवासी बबेरू, शिवम (20) पुत्र अनिल निवासी चरका, राममिलन (20) पुत्र छटनी निवासी चरका, ज्ञानप्रकाश (21) पुत्र रामपाल निवासी ग्राम परास, रामफल पुत्र भूरा (45), वुधराज (36) निवासी मरका घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से घायल शिवम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

धनवंतरी जयंती पर पूजा के साथ हुए यज्ञ

बांदा। धनवंतरी अवतरण की पावन तिथि गुरुवार को झंडा चैराहा स्थित प्राचीन धनवंतरी मंदिर में मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद वितरित किया गया। आरती के दौरान मंदिर और आसपास का इलाका घंटा-घड़ियाल और शंखनाद से गूँज उठा। विवेक राजे ने बताया कि बांशेश्वर मंदी की तलहटी पर स्थित 200 वर्ष पुराने मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं में अगाध श्रद्धा है। उत्तर भारत का अकेला और अनूठा मंदिर है। यह मंदिर अपने भव्य निर्माण शिल्प और पुरातत्व के कारण अलग पहचान बनाए हुए है। भगवान धनवंतरी का जलाभिषेक कर रोली-चंदन से टीका लगाया। फूलों की माला पहनाकर भंग लगाया। पुरोहित आचार्य प्रमोद अवस्थी ने विधिवत पूजा कराई। पूजन के बाद आरती हुई। वैदिक मंत्रों, घंटा-घड़ियाल और शंख ध्वनि से आसपास का इलाका गूँज उठा। उपस्थित श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर स्वस्थ रहने की कामना की। पूजा के बाद प्रसाद वितरित हुआ। इस मौके पर डा.शरद चतुर्वेदी, वैद्य रामसजीवन, लखनलाल रावत, डा.आरके प्राणायामी, संतोष गुप्ता, तरुण खरे, मदन तिवारी, हनुन् वाजपेयी, आस्था, स्वस्तिक ओमर, हिरणमयी राजे, रामकिशोर ओमर, रानी चैरसिया, ललिता देवी, प्रांशू, ओमप्रकाश मसुरहा, राजेश प्रजापति, रामकृपाल आदि शामिल रहे।

अनुभव वह नहीं है जो आपके साथ घटित होता है, अपितु जो आपके साथ घटित होता है, उसका आप क्या करते हैं, वह अनुभव है। -एल्डस लियोनार्ड हक्सले

हमीरपुर

सार सुर्खियां

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। कुरारा थाना क्षेत्र के कंडोर गांव निवासी ग्रामीण ने चार लोगों के खिलाफ गाली गलौज व मारपीट करने की तहरीर थाने में दी है। वहीं पुलिस ने मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कुरारा क्षेत्र के कंडोर गांव निवासी अयोध्या पुत्र शिवदास ने थाने में तहरीर देकर बताया कि मोहल्ले के निवासी रामकरन पुत्र सदा व राममिलन पुत्र रामफल व बबलू व रामविलास पुत्रगण रामफल ने बीती शाम मेरे दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे। जब मैंने उनको मना किया तो सभी ने एक राय होकर मारपीट की। तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है।

अज्ञात चोरों ने सूने घर में घुस कर दिया लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम

- जांच में जुटी पुलिस
भास्कर न्यूज-राठ। नगर के उरई रोड पर स्थित एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने मकान के दरवाजों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। आज दिन में पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे गृहस्थानी में राठ कोतवाली में मामले की लिखित तहरीर देकर चोरी के खुलासे की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार नगर के उरई रोड के निवासी शुभम कुमार पुत्र दीनदयाल ओमर के सूने मकान पर धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित गृहस्थानी शुभम कुमार ओमर ने आज दिन में राठ कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बीते माह ही उनका नया मकान बनकर तैयार हुआ है। वह कानपुर के केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर तैनात हैं तथा उसके पिता दीनदयाल आर्मी में नौकरी करते हैं, जो कि वर्तमान समय में मध्यप्रदेश के जबलपुर में तैनात हैं। जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी पिता के साथ जबलपुर में ही रहते हैं। बीते 15 दिन पूर्व वह अपने मकान में ताला लगाकर अपनी तैनाती स्थल कानपुर चले गए थे तथा तभी से उनका मकान खाली था। अज्ञात चोरों ने उनके मकान के दरवाजों के ताले तोड़कर चोरों में रहे जेवरों के अलावा मकान का पूर्ण फर्नीचर, लैपटॉप, एलसीडी, तथा नवरात्रि के समय खरीदी गई नई मोटरसाइकिल के अलावा गृहस्थी का अन्य सभी सामान चोरी करके ले गये। पीड़ित ने राठ कोतवाली में घटना की लिखित तहरीर देकर चोरी के खुलासे की गुहार लगाई है। मामले में राठ कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कमल ने बताया कि घटना की गहनता से जांच पड़ताल कराई जा रही है तथा जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

शराब न पिलाने से आक्रोशित दो दबंग भाइयों ने मजदूर को पीटकर किया घायल

भास्कर न्यूज-राठ। नगर के कांशीराम कॉलोनी में शराब न पिलाने से आक्रोशित दो दबंग भाइयों ने लाठियों व ईंटों से हमला कर मजदूर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल मजदूर को इलाज के लिए सीपचसी राठ में भर्ती कराया है। पीड़ित मजदूर ने राठ कोतवाली में दबंग आरोपियों के विरुद्ध घटना की लिखित तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। नगर के कांशीराम कॉलोनी के निवासी हरिकिशन पुत्र मनमोहन ने बताया कि वह आज दोपहर मैला देखकर वापस कांशीराम कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह कॉलोनी में दाखिल हुआ तो उसी दौरान कॉलोनी में किराए से रहने वाला सलमान पुत्र कल्लू व उसके भाई मन्नु ने उसे जबरन रोक लिया तथा उससे शराब पिलाने के लिए कहने लगे। जब उसने उक्त दोनों को शराब पिलाने से मना कर दिया तो उक्त दोनों ने लाठियों व ईंटों से उसकी बेरहमी से पीटाई कर उसे घायल कर दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे राठ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने राठ कोतवाली में घटना की लिखित तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। मामले में राठ कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कमल ने बताया कि घायल व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराकर तथा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार को रास्ते में रोककर की जमकर मारपीट तथा जेब में पड़े रुपये भी लूटे

भास्कर न्यूज-राठ। नगर के फरसौलिया मुहाल में अज्ञात बदमाशों ने एक दुकानदार को रास्ते में रोककर उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए उसे लहलुहान कर दिया तथा उसकी जेब में पड़े 10 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद लहलुहान दुकानदार को राठ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने राठ कोतवाली में घटना की लिखित तहरीर दे दी है। नगर के पठनऊ मुहाल के निवासी शहाबुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन ने बताया कि वह आज दिन में अपनी दुकान से वापस अपने घर की ओर जा रहा था तभी रास्ते में चार अज्ञात बदमाशों ने उसे रोक लिया तथा उसकी जेब की तलाशी लेने लगे। वह अपनी जेब में दुकान के दस हजार रुपये डाले हुए था। जिसे देखकर उक्त चारों बदमाशों उसके रुपए छीनने की कोशिश में लग गये। जब उसने अब तो बदमाशों का विरोध किया तो सभी बदमाशों ने लात धरुसे व ईंटों से हमला कर उसे गंभीर रूप से लहलुहान कर दिया तथा उसकी जेब में पड़े दस हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों की सूचना पर पहुंचे उक्त परिजनों ने उसे इलाज हेतु राठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पीड़ित दुकानदार ने राठ कोतवाली में घटना की लिखित तहरीर देकर बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। मामले में राठ कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कमल ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

पारा 14 रनों से रही विजयी

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। विकासखंड कुरारा के ग्राम पारा में पारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मुख्य अतिथि रणविजय रिसोर्दिया (महादेव मोबाइल शाप कुरारा) ने खिलाड़ी को पुरस्कृत करते मुख्य अतिथि

खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय किया। मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट इयर फोन ब्लूटूथ खिलाड़ी को दिया। पहला मैच पारा मेजबान और भैसापाली के बीच हुआ। जिसमें पारा ने 12 ओवर में 164 रनों का लक्ष्य दिया। जबकि भैसापाली 10 ओवर में 150 रनों की बनी पायी और पारा 14 रनों से विजयी रही। धीरज ने 89 रनों की पारी खेली और दूसरी पारी में कदौरा और छानी के बीच मैच हुआ। जिसमें छानी ने 12 ओवर में 108 रनों का कदौरा को 109 रनों का लक्ष्य दिया। जबकि बल्लेबाजी करने उतरी कदौरा ने 2 विकेट शेष रहते जीत हासिल की। कदौरा की तरफ से अर्शद् ने 48 रनों की पारी खेली व मैन ऑफ द मैच चुने गए। सुरेंद्र सिंह कडवाह और केके मिश्रा अंपायर व तीसरे अंपायर जितेंद्र भदौरिया ने अंपायरिंग की। अरुण दीक्षित ने कैमैट्री तथा रविंद्र यादव ने स्कोरिंग की। काफी संख्या में ग्रामस्थानी क्षेत्रवासी महंत समाधि आश्रम, रणधीर सिंह सहित और भी कई लोग मौजूद रहे। टूर्नामेंट संचालक मोहन भादौरिया ने आये हुए लोगों का आभार व्यक्त किया।

किसानों ने केंद्र प्रभारी के ऊपर लगाया मुंह देखा व्यवहार करने का आरोप

भास्कर न्यूज-मौदहा। रबी की फसल की बुवाई का समय आते ही नगर समेत क्षेत्र के किसानों में डीएपी खाद की मारामारी चल रही है, बीते एक पखवाड़े में नगर समेत क्षेत्र की सहकारी समितियों में आई डीएपी खाद किसानों के सामने ऊंट के मुंह में गौरी साबित हो रही है। बताने चलें कि क्षेत्रीय किसान सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध न होने से किसानों में खाद को लेकर मारामारी मची हुई है, हालांकि समितियों द्वारा कई हजार बोरी डीएपी खाद वितरित करने का दावा किया जा रहा है। अवगत हो कि वर्तमान समय में रबी की फसल की बुवाई चरम सीमा पर है जिसके चलते किसानों को डीएपी खाद की अत्यंत आवश्यकता है जिसके कारण नगर समेत क्षेत्र के सभी किसान त्योहार व जरूरी काम छोड़कर समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि समय समय पर समितियों पर खाद आ रही है लेकिन वह किसानों की संख्या के सामने ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है जिसके लिए किसान संघर्षरत हैं। रविवार को नगर के पीसीएफ केंद्र व क्रय विक्रय समिति में डीएपी खाद आने की भनक लगते ही सवेरे



खाद पाने के लिए लाइनों में लगे किसान

से ही दोनों समितियों में सैकड़ों की संख्या में किसान खाद पाने के लिए लाइन में लग गए, दिन के 10 बजते ही समितियों में किसानों की लम्बी लाइनें लग गईं। खाद वितरण की खिड़कियां खुलते ही किसानों में खाद पाने को लेकर धक्का मुक्का शुरू हो गईं जिनमें लाइन में लगी महिला किसानों को धक्का मुक्का का

सामना करना पड़ा। स्थिति देखते हुए क्रय विक्रय समिति के प्रभारी ने कोतवाली पुलिस को सूचना कर किसानों को खाद बांटने को लेकर मदद की गुहार लगाई जबकि पीसीएफ केंद्र प्रभारी ने किसानों की भीड़ देखते हुए उनकी मजबूरी व आवश्यकता को नजरअंदाज करते

अटेवा जिला महिला संयोजिका बनीं मंजीता अहिरवार

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज अटेवा की सुमेरपुर इकाई का गठन तपोस्थली सुमेरपुर में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला प्रवक्ता रणविजय चक्रवर्ती ने कहा कि अटेवा पुरानी पेशन बहाली हेतु एक वट वृक्ष कि तरह है। जिसमें सारे विभागों के शिक्षक कर्मचारी एक बैनर के तले एकजुट होकर मिशन की तरह काम करते हैं। जिला महासचिव कमल किशोर ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार दोहरी नीति के तहत कार्य कर रही है। जो पूणतया गलत है। न्यायपालिका और विधाधिका को पेशन और कार्यपालिका को दचे रूपी टैशन। सरकार को समता के मौलिक अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल पुरानी पेशन बहाल करनी चाहिए। चंद्रभान अनुरागी ने कहा कि पेशन अधिकार है। कर्मचारियों का, अतः पुरानी पेशन बहाल करना बहुत जरूरी है। सहसंयोजक विनोद वर्मा ने अटेवा के उद्गम इतिहास पर अपनी बात रखी। वहीं अरविंद यादव ने कहा कि बंधु जी की मेहनत से आज चार राज्यों में पेशन बहाल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी पुरानी पेशन बहाल करनी चाहिए। सुमेरपुर की ब्लॉक इकाई



नवनियुक्त पदाधिकारीगण

की कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ जिला महिला संयोजिका को भी सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया। जिला महिला संयोजिका मंजिता अहिरवार और ब्लॉक संयोजक नीतिराज सिंह यादव मनोनित किए गए। साथ ही कार्यकारिणी में महासचिव राजेश पथिक, सहसंयोजक सत्यप्रकाश वर्मा और राजेंद्र वर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश यादव, संयुक्त मंत्री चंद्रकिशोर प्रजापति, संघटन मंत्री ब्रजराज साहू, मीडिया प्रभारी आशीष पाण्डेय एवं संरक्षक मंडल में शिवशंकर प्रजापति, देशराज मनोनीत किए गए। इस कार्यक्रम में अरुण कुमार प्रजापति, इंद्रेश शुक्ला, प्रदीप कुमार, प्रवीण खरे, हरनारायण यादव, चुनबाद अनुरागी, वीरपाल, इब्राहिम, जाकिया बानो, रविंद्र कुमार कुशवाहा, ब्रजेंद्र कुमार, उमेश कुमार, सत्येंद्र साहू, उमेश कुमार सिंह, दिलीप कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कमल किशोर ने किया। आभार जिला सहसंयोजक विनोद वर्मा को दिया।

दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। कुरारा थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट व गाली गलौज करने की तहरीर दोनों पक्ष द्वारा थाने में दी गई है। वहीं पुलिस ने मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है। कुरारा क्षेत्र के शेखपुर गांव निवासी महिला जानकी पत्नी जानचंद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि बीती शाम गांव के ही रंजीत व बरदानी ने दरवाजे पर आकर गाली गलौज कर मारपीट करने लगे जिससे चोट आई है। दोनों ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष के रंजीत ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव निवासी जानचंद्र, राजेश, विनीत, अनुज ने गाली गलौज व मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर गांव निवासी रिंकू सैनी पुत्र संकराम सैनी को पुलिस ने गांव से गिरफ्तार कर एक किलो पन्द्रह ग्राम गांजा बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया है।

पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। कस्बा कुरारा के वार्ड एक निवासी महिला ने पिता पुत्र के खिलाफ गाली गलौज व मारपीट करने तथा जातिसूचक गालियां देने की तहरीर थाने में दी है। वहीं पुलिस ने मारपीट व एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज किया है। कस्बा के वार्ड एक निवासी गीता पत्नी कल्लू ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 22 जुलाई को घर पर झाड़ू लगाते समय मोहल्ले के निवासी रावेंद्र पुत्र लोटन व लोटन पुत्र रामलखन ने घर में घुसकर गाली गलौज किया तथा जातिसूचक गालियां दीं। तथा मना करने पर मारपीट की। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट व एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस ने शांतिभंग में किया चालान

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। कस्बा कुरारा निवासी नवल किशोर पुत्र लक्ष्मन, नरेंद्र पुत्र संतराम, कंडोर गांव निवासी बबलू पुत्र रामकरन, डामर गांव निवासी शिवकुमार पुत्र मनीराम, खरौंज गांव के पवन कुमार पुत्र जयराम, बिलौटा गांव के भोला पुत्र गोपाल को थाना पुलिस ने शांतिभंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी का चालान किया गया है।

महेंद्रा इंस्टीट्यूट का हुआ शुभारम्भ



फीता काटकर महेंद्रा इंस्टीट्यूट का शुभारम्भ करते कुलदीप निषाद

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। आज शहर के नौबस्ता मुहाल में स्थित वरुण गेस्ट हाउस में महेंद्रा इंस्टीट्यूट का शुभारम्भ हुआ। जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएसएसएससी आदि परिक्षाओं की सम्पूर्ण तैयारी महेंद्रा के अनुभवी शिक्षकों द्वारा करायी जाती है। मुख्य अतिथि कुलदीप निषाद नगर पालिका हमीरपुर के द्वारा कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारम्भ किया तथा इंस्टीट्यूट के विषय में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। इस मौके पर पुणेन्द्र सिंह, ब्रजप्रताप सिंह शासकीय अधिकारिता, बाबू पाठक समाजसेवी, एवं इंस्टीट्यूट के अधिकारी व पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

ट्रक मालिक ने वेतन मांगने पर झाड़वर को किया लहलुहान

भास्कर न्यूज-मौदहा। क्षेत्र के एक चालक ने अपने ट्रक मालिक पर वेतन मांगने के दौरान वेतन न दे बल्कि मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है। सिसौलर थाना क्षेत्र के गऊघाट छानी निवासी आरिफ पुत्र अली हुसैन ने बताया कि वह ग्राम मदारपुर निवासी शफीक पुत्र कल्लू जड्डा का ट्रक चलाता है। बीते सप्ताह जब वह अपना वेतन मांगने शफीक के पास पहुंचा तो उसने मेरा वेतन न देकर मुझे गाली गलौज कर भगा दिया। दिनांक 21 अक्टूबर को जब वह साइकिल से अपने गांव जा रहा था तभी शफीक व तौसीफ ने अपनी बाइक से उसकी साइकिल में टक्कर मार उसे गिरा दिया और कुल्हाड़ी व डंडों से मारने पीटने के बाद घायल अवस्था में सड़क किनारे फेंककर भाग गए। पीड़ित ने कोतवाली मौदहा में तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है।

दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन



व्यापारियों को सम्बोधित करते धीरेन्द्र शिवहरे

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। आज सुमेरपुर कस्बे में दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे ने की। अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे ने कहा कि व्यापारियों के हित में जो भी कार्य

होंगे। वह किये जायेंगी। इस मौके पर संरक्षक रामू गुप्ता (कृष्ण कुमार गुप्ता), अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरे, नगर चेयरमैन सुशील शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, महामंत्री बालकिशन गुप्ता, संयुक्त महामंत्री/प्रचार मंत्री कमलेश आचार्यजी, नगर संगठन मंत्री शैलेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष दिवेश सिंह, नगर प्रभारी अखिलेश साहू, नगर उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, तनिष्क सोनी, धीरज त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी हरीश सहित आदि व्यापारीगण मौजूद रहे।

शिक्षाविद्, एएमयू संस्थापक सर सय्यद अहमद की याद में आयोजित हुआ सर सय्यद दिवस कार्यक्रम

- प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित

भास्कर न्यूज-मौदहा। क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने का काम मौदहा एजुकेशनल ट्रस्ट अलीग (मेटा) द्वारा जोरदार तरीके से किया जा रहा है, जिसमें कस्बे के सभी स्कूलों के बच्चों को प्रतिभाग करने का मौका दिया जाता है और प्रतिभागी बच्चों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है। वहीं यह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन अलीगढ़ के पूर्व व वर्तमान छात्रों द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा शिक्षाविद् सर सय्यद अहमद खां की संस्थापक तथा शिक्षाविद् सर सय्यद अहमद खां की संस्थापक तथा शिक्षाविद् सर सय्यद अहमद के नाम से आयोजित किया गया जो पिछले वर्ष भी आयोजित किया गया था। कस्बा स्थित रहमानिया इंटर कालेज में शनिवार को देर शाम सर सय्यद दिवस समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मोहम्मद साद ने तिलावते क्रूरआन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से चलकर आए एएमयू छात्र संघ के दो बार अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जैड. के. फैजान सहित मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि मौदहा की अलीगढ़ से प्रथम स्नातक सुरईया कदीर, प्रधानाचार्य डा रजिया सुल्ताना, एडवोकेट असलम चैधरी सहित अलीगढ़ के पूर्व दिग्गज छात्र व क्षेत्र के संप्रभू नागरिकों का आयोजकों ने बैच लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम



कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार वितरण करते मुख्य अतिथि

के शुरुआती दौर में मेटा द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के टाप छात्र समायरा खान ने हजरत आयशा रजि० के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संक्षिप्त परिचय दिया वहीं महोबा से प्रतिभाग करने आए फैजान शाहिद व कम्हरिया निवासी छात्र औसफ अहमद ने सोशल

मीडिया सम्बंधित लाभ/हानि पर अंग्रेजी में विचार प्रस्तुत किए वहीं एएमयू में राजनीति विज्ञान से स्नातक कर रहे छात्र अदनान खां सर सय्यद के जीवन में शेरों शायरी के साथ प्रकाश डाला जिसके बाद हसन राजा ने सर सय्यद के जीवन पर प्रकाश डाला और शिक्षा को आगे

बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं अब्दुल्ला जमील ने शिक्षा व्यवस्था पर जोर डालते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की रिपोर्ट दी। उक्त वक्तव्यों को सुन कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया और सभी छात्रों को बधाई दी। भाषण कार्यक्रम के उपरांत प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मोहम्मद फैजान शाहिद, खुशी हिदायत, निजाम अली, फारूक अहमद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया वहीं डिबेट प्रतियोगिता में मोहम्मद फैजान, अवसाफ अहमद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो वहीं निबंध प्रतियोगिता में अलीना अजीम, रुकईया कदीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और भाषण प्रतियोगिता में समायरा खान व किरत प्रतियोगिता में मोहम्मद असीम प्रथम, मोहम्मद सफवन द्वितीय व मोहम्मद साद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ अन्य एक दर्जन से अधिक छात्रों ने द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया जिनको अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के उपरांत एएमयू तराना व राष्ट्रगान पढ़कर कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद गुलाम, अब्दुल्ला जमील, शहजद अहमद, निदा कदीर सहित अलीगढ़ विश्वविद्यालय व रहमानिया कालेज के सैकड़ों पूर्व व वर्तमान छात्र सहित कालेज की प्रधानाचार्या डॉ रजिया सुल्तान उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम का संचालन खलील खान ने किया।

आज ही के दिन 1949 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की आधारशिला रखी गई थी।

सारसुर्खियां

काबुल में छह आईएस आतंकियों को किया ढेर

काबुल। तालिबान सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रात भर चले ऑपरेशन में आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह के छह सदस्यों को मार गिराया। सत्कारुद्ध समूह के प्रशासन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी ने कहा कि आतंकवादी ठिकाने पर छापेमारी में मारे गए आईएस के सदस्य हाल के हफ्तों में दो बड़े हमलों में शामिल थे, जिनमें से एक शहर की मस्जिद पर और दूसरा एक शिक्षण संस्थान हमला किया गया था जिसमें कई छात्राओं की मौत हो गई थी। अहमदी ने कहा कि मारे गए आतंकवादी वजीर अकबर खान मस्जिद और काज शिक्षण संस्थान के हमलावर थे। ऑपरेशन में तालिबान सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया। गौरतलब है कि काज इंस्टीट्यूट शिक्षा केंद्र के महिला खंड में 30 सितंबर को हुए विस्फोट में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां और युवतियां थीं।

कांकेर के जंगल में छोड़े गए 52 चीतल जगदलपुर।

छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी नेशनल पार्क के प्रजनन केंद्र (डियर पार्क) में पले-बढ़े 52 चीतलों को जंगल में छोड़ा गया है। चीतलों को जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया भी प्राकृतिक अपनाई गई और इन्हें बेहोश नहीं किया। वाइल्ड लाइफ सीसीएफ एके श्रीवास्तव ने बताया चीतलों को दो महीने पहले जंगल में छोड़ा, लेकिन जानकारी किसी को नहीं दी थी। खबर पहले ही रिलीज कर देते तो इन्हें खतरा हो सकता था।



तजानिया में स्वाहिली इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो के उद्घाटन समारोह के दौरान गीत गाते मासाई लोग। एजेंसी

जिनपिंग तीसरी बार बने चीन के राष्ट्रपति

सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव चुने गए

बीजिंग। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के 20वें अधिवेशन के समापन के ठीक बाद शी जिनपिंग को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया है। वह तीसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है। जिनपिंग की अध्यक्षता वाले सत्र में 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के 203 सदस्यों और 168 वैकल्पिक सदस्यों ने भाग लिया। सत्र में जिनपिंग को सीपीसी केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी नामित किया गया। सत्र में चुने गए

सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य जिनपिंग, ली कियॉंग, झाओ लेजी, वांग हुनिंग, काई क्यूई, डिंग जुएफिसियांग और ली शी हैं। आयोजित सत्र में सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी चुने गए, जिसमें राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति द्वारा नामित सीपीसी केंद्रीय समिति सचिवालय के सदस्यों का समर्थन किया। इस सत्र में के दू य सै नू य आयोग के



सदस्यों को नामित किया गया। इस सत्र ने 20वें सीसीडीआई के पहले पूर्ण सत्र में चुने गए केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग (सीसीडीआई) के सचिव, उप सचिवों और स्थायी समिति के सदस्यों को भी मंजूरी दी गई। पार्टी संस्थापक माओ जेदोंग के बाद जिनपिंग ऐसे पहले चीनी नेता हैं, जिन्हें इस पद पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का कमांडर भी रहता है।

परदे के पीछे की बात 'बेकार की कवायद'

ईसीपी द्वारा भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के आरोपों को इमरान खान ने बताया गलत

सप्ताह के अंत में घोषित करेंगे ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च की तारीख

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा भ्रष्ट आचरण में शामिल पाए जाने के आरोपों ने अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान संबंधित लोगों के साथ पिछले दरवाजे की बातचीत लेकर आशावादी नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सप्ताह के अंत तक राजधानी में उनके 'ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च' की तारीख की घोषणा करेंगे। स्थानीय मीडिया के अनुसार शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख ने तोशाखाना मामले में ईसीपी के

राजनेताओं के साथ हो रहा आतंकियों सरीका बर्ताव

सेना प्रमुख के बारे में टवीट पर एक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किए गए स्वाति के बारे में बोलते हुए पीटीआई प्रमुख ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान में राजनेताओं के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने उनकी पार्टी की बातचीत पर ताजा घटनाक्रम के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि सीनेटर आजम स्वाति के साथ संवाददाता सम्मेलन के दौरान इमरान खान ने सरकार के साथ



व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने

कहा, "इससे पहले शाहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया था। उनके कपड़े उतार दिए गए थे और उन्हें गौन प्रताड़ना दी गई थी। यदि अदालत ने इस घटना का संज्ञान लिया होता तो आजम स्वाति का वैसा अंजाम नहीं होता। ईसीपी के बाहर से पीटीआई विधायक की गिरफ्तारी पर एक टिप्पणी में


इमरान खान ने कहा कि सालेह मोहम्मद के साथ पुलिस ने एक अपराधी की तरह व्यवहार किया। सीनेटर आजम स्वाति ने कहा कि पिछले 17 साल से पीटीआई के संसदीय नेता और विधायक होने के बावजूद उन्हें उनके पोते-पोतियों के सामने ही गिरफ्तार किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया।

रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन वार्ताओं से कुछ निकलने वाला है। हम किस पर बातचीत करने जा रहे हैं। हम देश हित के लिए एन सिरे से चुनाव चाहते हैं। इस्लामाबाद में अपने आगामी मार्च के लिए समर्थन जुटा रहे पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की

सैन्य एंबुलेंस को निशाना बनाकर विस्फोट, पांच की मौत

अदन। दक्षिणी अबयान प्रांत में सरकार समर्थक यमनी बलों के दल को ले जा रही एक एंबुलेंस में विस्फोट हो गया, जिसमें उसमें सवार पांच चिकित्साकर्मियों की मौत हो गई। एक सुरक्षा अधिकारी ने सिन्हा को यह जानकारी दी। सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि दक्षिणी सैनिकों की एक सैन्य चिकित्सा टीम को ले जा रही एंबुलेंस को अबयान के अल महफौद जिले में मुख्य सड़क से गुजरते समय रिमोट के माध्यम से आइडडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) में विस्फोट कर उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि अबयान में आतंकवादियों को पकड़ने के उद्देश्य से सरकार समर्थक सैन्य अभियान की प्रगति को बाधित करने और रोकने के प्रयास में विभिन्न सड़कों

सरकार समर्थक यमनी बलों के दल को ले जा रही थी एंबुलेंस



और क्षेत्रों के माध्यम से आतंकवादी तत्वों द्वारा घर में बने बमों को भारी मात्रा में रखा जाता है। अभी तक किसी भी समूह ने सैन्य चिकित्सा दल पर बमबारी की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि यमनी सेना और सरकारी अधिकारी अक्सर ऐसे हमलों के लिए यमन स्थित अल-कायदा की शाखा को जिम्मेदार ठहराते हैं।

आरोप गलत, मैं नहीं, हुड़ा हैं दलित विरोधी: बिश्नोई

आदमपुर। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मुझ पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि दलित विरोधी मैं नहीं, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड़ा हैं। बिश्नोई ने जनसंपर्क अभियान के दौरान संवाददाताओं से विशेष बातचीत में कहा कि हुड़ा ने पार्टी के सीनियर नेता कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए विवश किया। बिश्नोई ने आरोप लगाया कि हुड़ा की अगुवाई में प्रदेश में कांग्रेस शासन के

खट्टर की कल्याणकारी नीतियों के चलते छोड़ी कांग्रेस

चलते आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जमकर अनदेखी हुई। क्षेत्र की अनदेखी को लेकर जब उनकी अगुवाई में सरकार की आंख खोलने के लिए चंडीगढ़ में इस क्षेत्र के लोग प्रदर्शन करने गए तो उन पर लाठियों भंजी गईं और उनके वाहन तोड़ दिए गए। आज हुड़ा किस मुंह से आदमपुर की

जनता से कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं? बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि ईडी और सीबीआई के डर से नहीं, बल्कि मनोहर लाल सरकार की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर दी है। अभी भाजपा में आए उन्हें मात्र सवा माह ही हुआ है। इतने अल्पकाल में उन्होंने करोड़ों रूपए के प्रोजेक्ट आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार से लिए हैं। जनता ने यदि मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया तो मनोहर सरकार के इस समय में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र उनका सिविलीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि घर है। इस क्षेत्र की जनता ने चौधरी भजन लाल से लेकर भव्य बिश्नोई तक हमारा साथ देने का मानस बनाया हुआ है। लोग मिल रहे प्यार से साफ झलक रहा है कि भव्य बिश्नोई की जीत को कोई रोक नहीं सकता।

'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद' देगा उच्च शिक्षा में मदद: शिवराज

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद' योजना से बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। चौहान ने रविवार को दीपोत्सव-2022 कार्यक्रम में कोविडकाल में माता-पिता को खो चुके बच्चों के साथ मुख्यमंत्री निवास में दीपावली मनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर के लिए उपयोगी रहेगी।

मोथा से गठबंधन नहीं करेगी भाजपा

अगरतला। त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) का नेतृत्व करने वाली टिपरा मोथा ने रविवार को कहा कि वह ग्रेटर त्रिपुरालैंड की अपनी मुख्य मांग से समझौता कर किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले त्रिपुरा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अशोक सिन्हा ने शनिवार को कहा था कि उनकी पार्टी अगले वर्ष फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी नई पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। वर्ष 2018 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के बाद से भाजपा जनजातीय

पहाड़ी इलाकों में अपना जनाधार खो रही आईपीएफटी

आधारित इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ गठबंधन में है। आईपीएफटी हालांकि पहाड़ी इलाकों में अपना जनाधार खो रही है। आईपीएफटी नेता और पूर्व जनजातीय कल्याण मंत्री मेजर केआर जमातिया ने कहा कि भाजपा ने उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के एडीसी चलाने देने का वादा किया था, लेकिन वह वचन कभी पूरा नहीं

हुआ। सिन्हा ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में टिपरा से गठबंधन नहीं करेगी। हाल ही में पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में यह तय किया गया कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि चुनाव के बाद दिल्ली की केंद्रीय गठबंधन के लिए भाजपा को किसी अन्य दल के साथ जाने की जरूरत है या नहीं। हाल में चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में टिपरा मोथा के साथ किसी प्रकार के गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया गया है।

अमिताभ की फिल्म ऊंचाई का गाना 'केटी को' रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म ऊंचाई का गाना 'केटी को' रिलीज हो गया है। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बन रही फिल्म ऊंचाई में अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई है। 'ऊंचाई' का पहला गाना 'केटी को' रिलीज कर दिया गया है। इस गाने की खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी डेन्जोगपा एक ही फ्लोर पर एक्टिंग और डार्सिंग करते नजर आएंगे। 'केटी को' गाने को नकाश अजीज ने गाया है। इस गाने के बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं, वहीं म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है। गाने में चारो दोस्त अमिताभ, बोमन, डैनी और अनुपम को



बॉलीवुड हलचल एनर्जी कमाल की दिख रही है। फिर पर नेपाली टोपी लगाए चार दोस्त एक दूसरे के साथ जिंदगी का आनंद लते नजर आ रहे हैं। 'केटी को' चार दोस्तों की उस मस्ती को दिखाता है, जहां वह उम्र के इस पड़ाव में भी अपनी जिंदगी और दोस्ती का हर लम्हा का आनंद ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। गौरतलब है कि ऊंचाई में अमिताभ बच्चन के साथ अनुपम खेर, बमन ईरानी, डैनी डेन्जोगपा, नफोसा अली, सारिका, नीना गुप्ता और परिणीति चोपड़ा की भी अहम भूमिका है। यह फिल्म 11 नवंबर को रिलीज हो रही है।

कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग को निकाली रैली

ढाका। बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अगले साल के अंत तक देश में होने वाले अगले आम चुनावों के दौरान एक कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग को लेकर खुलना शहर में एक रैली निकाली। यह रैली बीएनपी द्वारा मूल्य वृद्धि, विरोध के दौरान बीएनपी कार्यकर्ताओं की हत्या और पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिशा की रिहाई की मांग को लेकर देश में विभिन्न संभागीय मुख्यालयों में आयोजित होने वाली समान रैलियों का हिस्सा थी। खुलना बीएनपी के महासचिव मिर्जा

खालिदा जिशा की रिहाई की मांग

फखरूल इस्लाम आलमगीर में ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि मौजूदा सरकार इस्तीफा नहीं देती और चुनाव निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है। उन्होंने सत्कारुद्ध अवामी लीग को चुनौती दी कि यदि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हूए तो वह 10 सितंबर को नहीं जीत पाएगी। बीएनपी ने घोषणा की है कि वह 5 नवंबर को बारीसाल में अपनी अगली संभागीय रैली करेगी।



श्री काशी विश्वनाथ धाम में रविवार को वाराणसी में मां अन्नपूर्णा का पूजन करते श्रद्धालु। एजेंसी

विवेक ने कांतारा को बताया मास्टरपीस

मुंबई। बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कन्नड़ फिल्म कांतारा की तारीफ की है। कांतारा साउथ ही नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में अच्छा धूमधाम से मनाया गया। मुख्य आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में किया गया, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी तथा आयुष राज्यमंत्री महेंद्र भाई कालुभाई मंगुपारा उपस्थित रहे। समारोह में आयुर्वेद विशेषज्ञ, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और अनेक गणमन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस वर्ष का सातवां आयुर्वेद दिवस 'हर दिन हर घर आयुर्वेद' विषय पर मनाया गया, ताकि

मुंबई। बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कन्नड़ फिल्म कांतारा की तारीफ की है। कांतारा साउथ ही नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में अच्छा धूमधाम से मनाया गया। मुख्य आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में किया गया, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी तथा आयुष राज्यमंत्री महेंद्र भाई कालुभाई मंगुपारा उपस्थित रहे। समारोह में आयुर्वेद विशेषज्ञ, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और अनेक गणमन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस वर्ष का सातवां आयुर्वेद दिवस 'हर दिन हर घर आयुर्वेद' विषय पर मनाया गया, ताकि

राष्ट्रीय राजधानी में जोर-शोर से मनाया गया सातवां आयुर्वेद दिवस, आम जनता तक प्रसार करने का संकल्प 'हर दिन हर घर आयुर्वेद' से लाभ उठाने का किया आह्वान

नई दिल्ली। आयुर्वेद के प्रसार-प्रचार के लिए देश और विदेश में रविवार को सातवां आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में किया गया, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी तथा आयुष राज्यमंत्री महेंद्र भाई कालुभाई मंगुपारा उपस्थित रहे। समारोह में आयुर्वेद विशेषज्ञ, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और अनेक गणमन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस वर्ष का सातवां आयुर्वेद दिवस 'हर दिन हर घर आयुर्वेद' विषय पर मनाया गया, ताकि



आयुर्वेद को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। इस उत्सव में देश भर से भारी भागीदारी देखी गई। मंत्रालयों और मिशनों और दूतावासों के सहयोग से आयुष संस्थानों और परिषदों द्वारा 5000 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोनोवाल ने

इलाज की नहीं। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों के विज्ञान की सराहना करने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा आयुर्वेद के विज्ञान को बढ़ावा दिया और पिछले कुछ वर्षों में यह अपने चरम पर पहुंच गया है। इस मौके पर आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए आयुष मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान 'द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया', 'द आयुर्वेदिक फार्म्युलारी ऑफ इंडिया' पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

आज ही के दिन 1984 में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की कलकत्ता में शुरुआत हुई थी।

खेल-कारोबार

सारसुर्खियां

आयरलैंड ने खोए लगातार विकेट



होबार्ट। टी-20 विश्वकप में आयरलैंड के सलामी बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन डी सिल्व्वा ने फिरकी में फंसाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे टेक्टर ने आयरलैंड की पारी को संबल दिया, हालांकि श्रीलंका ने लगातार विकेट निकालते हुए रनगति को काबू में रखा। टेक्टर ने अपनी 42 गेंदों की जुझारू पारी में दो चौके और एक छक्का लगाकर 45 रन बनाए, जबकि उनका संघर्ष विनुरा फर्नांडिस ने समाप्त किया। इन दोनों के अलावा आयरलैंड का कोई बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सका। श्रीलंका की शानदार गेंदबाजी के कारण आयरलैंड आखिरी पांच ओवरों में चार विकेट गंवाकर सिर्फ 28 रन बना सकी। वॉर्नरू हसरंगा और महीष तीक्ष्ण ने दो-दो विकेट लिये जबकि विनुरा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, यमिका करुणारत्ने और डी सिल्व्वा ने एक-एक विकेट लिया।

मालविका, कौशल जीती टूर्नामेंट



पुणे। टॉप सीड मालविका बंसोड ने रविवार को यहां वीवी नाट्ट मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता, जबकि गैर वरीयता प्राप्त कौशल धर्मभेरे ने पुरुषों का खिताब हासिल किया। बंसोड ने एक घंटे तीन मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में अदिता राव को 13-21, 21-17, 22-20 से हराया। दूसरी ओर कौशल ने पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में रोहन गुरुबानी को आसानी से 21-10, 21-16 से हरा दिया। इसी बीच खुशी गुप्ता ने महिला युगल और मिश्रित युगल सहित दो युगल खिताब हासिल किए।



मिस में आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप राइफल/पिस्टल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन रैंकिंग मैच के दौरान खिलाड़ी।

कोहली-पांड्या ने पाकिस्तान से छीनी जीत

पॉवरप्ले में चार विकेट खोने के बाद की शानदार वापसी, रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर हुआ फैसला

• विराट ने खेली शानदार 82 रनों की पारी

मेलबर्न। भारत ने चेन्नमास्टर विराट कोहली (82 नाबाद) ने हार्दिक पांड्या (40) के साथ शतकीय साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान को आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में रविवार को चार विकेट से मात दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने मैच की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया।

इस रोमांचक मैच में भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय मात्र 31 रन पर ही चार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन कोहली-पांड्या की जोड़ी ने 113 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा

दिया। आखिरी ओवर में भारत को 16 रन की दरकार थी। पांड्या एवं दिनेश कार्तिक इस ओवर में आउट भी हुए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर कोहली के छक्के की बदौलत भारत ने छह विकेट के नुकसान पर 160 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कोहली ने इस करियरमाई पारी में 53 गेंदों पर छह चौके और चार छक्के लगाकर नाबाद 82 रन बनाए, जबकि पांड्या ने उनका साथ देते हुए 37 गेंदों पर एक चौके और दो छक्कों की मदद से 40 रन बनाए।

दिखा चेस मास्टर का 'क्लास'

पाकिस्तान ने 159 रन स्कोर की रक्षा करते हुए पावरप्ले में भारत के चार विकेट चटका दिए थे। नसीम शाह ने एशिया कप 2022 की कहानी दोहराई और लोकेश राहुल



उनकी गेंद को विकेटों पर खेल बैठे। हारिस रऊफ ने रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को आउट किया, जबकि अक्षर पटेल रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। भारत के चार विकेट महज 31 रन पर गिरने के बाद कोहली और पांड्या ने साझेदारी बुनना शुरू की। आधी पारी तक केवल 45 रन बनने के बाद भारत को 60 गेंदों में 116 रनों की दरकार थी। दोनों बल्लेबाजों ने 12वें ओवर में मोहम्मद नवाज को तीन छक्के लगाकर 20 रन बटोरे और यहां से भारतीय पारी का रुख बदल गया। पारी के 16वें और 17वें ओवर में भले ही पाकिस्तान ने रनगति रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोहली ने 19वें ओवर में हारिस रऊफ को दो छक्के जड़कर मैच को दोबारा भारत के पक्ष में झुका दिया। कोहली इस पारी के साथ एक बार फिर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, जबकि हार्दिक ने भी खेल के इस प्रारूप में भारत

कुसल मंडिस के अर्द्धशतक से जीता श्रीलंका

• 15वें ओवर में ही हासिल किया लक्ष्य

होबार्ट। श्रीलंका ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद कुसल मंडिस (68 नाबाद) के अर्द्धशतक की बदौलत आयरलैंड को टी-20 विश्वकप 2022 के सुपर-12 चरण में रविवार को नौ विकेट से मात दी। आयरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 129 रन का लक्ष्य दिया, जिसे श्रीलंका ने 15 ओवर में ही हासिल कर लिया।

आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर ने सर्वाधिक 45 रन बनाए, हालांकि इसके लिए उन्होंने 42 गेंदें खेलीं। सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने भी 34 रन का योगदान



दिया, लेकिन श्रीलंका ने इनके अलावा आयरलैंड के किसी बल्लेबाज को लय हासिल नहीं करने दी। श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे मंडिस और

धनंजय डी सिल्व्वा ने पहले विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी करके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में डाल दिया। डी सिल्व्वा 25 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ 31 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मंडिस ने चरित्रा असलंका के साथ 70 रन जोड़कर श्रीलंका को लक्ष्य तक पहुंचाया। असलंका ने 22 गेंदों पर दो चौके लगाकर 31 रन बनाये जबकि मंडिस ने 43 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्कों की बदौलत 68 रन की पारी खेली। श्रीलंका को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नामीबिया के हाथों हार मिली थी, लेकिन उसके बाद एशियाई चैंपियन ने अपने सभी मुकाबले जीते हैं।

पहली ही गेंद पर अर्द्धशतक को बाबर का विकेट

भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और दोनों सलामी बल्लेबाजों को 15 रन पर पवेलियन भेज दिया। टी-20 विश्वकप में पदार्पण कर रहे अर्द्धशतक सिंह ने अपनी पहली ही गेंद पर बाबर आजम का विकेट लिया, जबकि अपने अगले ओवर में उन्होंने मोहम्मद रिजवान को आउट किया। अर्द्धशतक ने मैच में 32 रन देकर तीन विकेट झटके। पांड्या ने भी तीन विकेट लिए।

के लिये 1000 रन पूरे किए। शादाब खान ने पाकिस्तान के लिए किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। हालांकि उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ। नसीम ने चार ओवर में 23 रन देकर एक विकेट लिया। हारिस रऊफ (चार ओवर, 36 रन) और नवाज (चार ओवर, 42 रन) ने दो-दो विकेट लिए।

रोमांचक मुकाबले में दिल्ली टाइगर्स की जीत

नई दिल्ली। दिल्ली टाइगर्स ने रविवार को यहां नेहरू स्टेडियम पर खेले गए संघर्षपूर्ण मैच में नेशनल यूनाइटेड को 4-3 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। फुटबाल दिल्ली सीनियर डिबीजन लीग में दिन के दूसरे मुकाबले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रोटेक्टर ने शास्त्री एफसी को 4-1 से हराया।

उत्तर-चढ़ाव वाले मुकाबले में दिल्ली टाइगर्स ने शुरू से ही

• संघर्षपूर्ण मैच में नेशनल यूनाइटेड को 4-3 से हराया

गर्जना शुरू किया और मोहित मितल एवं करन यादव के गोलों से बहुत बनाई। सफोला डेली और रंगमोनाली (दो) के गोलों से नेशनल यूनाइटेड 3-2 से आगे हो गई, लेकिन अंततः कावेंद्र और चक्षदीप सिंह के निर्णायक गोल से

टाइगर्स ने जीत पाई। दूसरे मुकाबले में शास्त्री के गोलकीपर राजभर को फाउल प्ले के लिए लाल कार्ड देखा पड़ा। दस खिलाड़ियों वाली टीम पर सीआईएसएफ ने आसानी से गोल जमा कर जीत दर्ज की। विजेता के लिए मैन ऑफ द मैच राजदीप ने दो गोल किए, जबकि शहजाद और भोला ने एक-एक गोल किए। शास्त्री का गोल मारियस गोन्तो ने किया।

पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर शब्द नहीं: विराट

मेलबर्न। आईसीसी टी-20 विश्वकप में पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की अविश्वसनीय पारी खेलकर भारत के सिर जीत का संहरा बांधने वाले विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि उनके पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। कोहली ने मैच के बाद साक्षात्कार में कहा कि यह एक अद्भुत माहौल है। मेरे पास भावाभिव्यक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है। पता नहीं, यह कैसे हुआ। मैं वास्तव में निशब्द हूं।

कोहली ने कहा कि हार्दिक का मानना था कि यदि अंत तक टिके रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं। जब शाहीन ने पवेलियन छोड़ से



गेंदबाजी की, तभी हमने फैसला किया कि उनके खिलाफ हाथ खोलेंगे। हारिस उनके

प्रमुख गेंदबाज हैं और मैंने उन्हें भी दो छक्के लगाए। हमारी योजना सरल थी। नवाज के पास गेंदबाजी करने के लिए एक ओवर था, इसलिए यदि मैं हारिस की गेंदबाजी पर न बना सकता तो वे घबरा जाएंगे। हमें आठ में 28 चाहिए थे और (दो छक्कों के बाद) यह छह पर 16 तक आ गया। उन्होंने इस पारी को अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सर्वश्रेष्ठ करार देते हुए कहा कि यह मोहाली (2016) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पारी से भी बेहतर थी। यहां खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह होना ही था।

रिलायंस समेत दस दिग्गज कंपनियों में हुई लिवाली

मुंबई। वैश्विक बाजार के मिलेजुले रुख के बीच स्थानीय स्तर पर रिलायंस, एचडीएफसी और आईटीसी समेत दस दिग्गज कंपनियों में हुई लिवाली की बदौलत बुधवार को संसेक्स 146.59 अंक मजबूत होकर लगभग एक माह के उच्चतम स्तर 59 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 59107.19 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी 25.30 अंक बढ़कर 17512.25 अंक पर रहा। वहीं, वैश्विक बाजार में आई गिरावट के बावजूद स्थानीय स्तर पर ऊर्जा, एफएमसीजी, आईटी, यूटिलिटीज, तेल एवं गैस, पावर और

• वैश्विक बाजार में दिखा मिला-जुला रुख

टेक समेत बारह समूहों में हुई लिवाली की बदौलत गुरुवार को शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। संसेक्स 95.71 अंक मजबूत होकर 59202.90 अंक और निफ्टी 51.70 अंक बढ़कर 17563.95 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह वैश्विक बाजार की गिरावट के बावजूद स्थानीय स्तर पर निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक में लगभग नौ प्रतिशत की उछाल से शुक्रवार को शेयर बाजार में लगातार छठे दिन भी तेजी रही।

दीपावली पर मुहूर्त कारोबार शाम सवा छह बजे से

मुंबई। विक्रम संवत् 2079 के शुभारंभ के अवसर पर दीपावली के दिन देश के प्रमुख शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई में मुहूर्त कारोबार इस वर्ष एक घंटे शाम 6.15 बजे से लेकर 7.15 बजे तक का होगा। बीएसई के अनुसार 24 अक्टूबर को शाम छह बजे से प्री ओपन सत्र शुरू होगा, जो 6.08 बजे समाप्त होगा। इसके बाद आम निवेशकों के लिए 6.15 बजे से कारोबार की शुरुआत होगी जो एक घंटे तक 7.15 बजे तक चलेगा। दिवाली के दिन निवेश को शुभ माना जाता है और इस दिन अधिकांश बड़े निवेशक या कंपनियां शेयर बाजार में खरीद बेच करती हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 528.4 अरब डॉलर पर

मुंबई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर), स्वर्ण और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आरक्षित निधि में कमी आने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 4.5 अरब डॉलर घटकर 528.4 अरब डॉलर रह गया। इसके पिछले सप्ताह यह 2.23 अरब डॉलर बढ़कर 532.9 अरब डॉलर पर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार 14 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 2.83

• एसडीआर पहुंचा 14.9 करोड़ डॉलर पर

अरब डॉलर की गिरावट लेकर 468.7 अरब डॉलर रह गई। इस अवधि में स्वर्ण भंडार में 1.5 अरब डॉलर की कमी आई और यह घटकर 37.5 अरब डॉलर पर आ गया। इसी तरह आलोच्य सप्ताह एसडीआर 14.9 करोड़ डॉलर कम होकर 17.4 अरब डॉलर रह गया। इस अवधि में आईएमएफ के पास आरक्षित निधि 2.3 करोड़ डॉलर घटकर 4.8 अरब डॉलर पर आ गई।



दीपावली के अवसर पर सड़क किनारे ग्राहकों का इंतजार करते फूल विक्रेता।

1387.18 अंक की छलांग लगाकर सप्ताहांत पर 59307.15 अंक पर रहा संसेक्स

डॉलर, कच्चा तेल और तिमाही परिणाम पर होगी नजर

मुंबई। अंतरराष्ट्रीय बाजार की मजबूती से उत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई लिवाली की बदौलत बीते सप्ताह लगभग ढाई प्रतिशत की उछाल पर रहे घरेलू शेयर बाजार की चाल इस सप्ताह डॉलर एवं कच्चे तेल के रुख तथा कंपनियों के तिमाही परिणाम से तय होगी। बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 1387.18 अंक की छलांग लगाकर सप्ताहांत पर 59 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 59307.15 अंक पर रहा। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 390.6 अंक की तेजी लेकर



17576.30 अंक पर पहुंच गया। समीक्षाधीन सप्ताह में बीएसई की दिग्गज कंपनियों की तुलना में मझीली और छोटी कंपनियों में लिवाली की रफ्तार धीमी रही। इससे मिडकेप 95.29 अंक बढ़कर सप्ताहांत पर 24805.15 अंक और स्मॉलकेप 43.97 अंक मजबूत होकर 28566.82 अंक पर पहुंच गया। निवेश सलाह देने वाली कंपनी

वैश्विक बाजार से सकारात्मक संकेत

वैश्विक बाजार के सकारात्मक संकेत से उत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर ऊर्जा, एफएमसीजी, आईटी, यूटिलिटीज, तेल एवं गैस, पावर समेत तेरह समूहों में हुई लिवाली से शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी तेजी जारी रही। संसेक्स 491.01 अंक की उछाल के साथ 58 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 58410.98 अंक और निफ्टी 126.10 अंक मजबूत होकर 17311.80 अंक पर पहुंच गया। ब्रिटेन सरकार की कर कटौती योजना से वैश्विक बाजार में आई तेजी से उत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई चौतरफा लिवाली की बदौलत मंगलवार को संसेक्स 549.62 अंक की छलांग लगाकर एक माह के उच्चतम स्तर 58960.60 अंक और निफ्टी 175.15 अंक की उछाल के साथ 17486.95 अंक पर रहा।

स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शोध प्रमुख संतोष मीणा के अनुसार, तीन सप्ताह की मजबूती के बाद पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपये

पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जारी तेजी के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रविवार को भी स्थिर रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंदन ब्रेंट क्रूड रविवार को 93.50 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 0.75 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 85.14 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। घरेलू स्तर पर तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को भी टिकाव रहा। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर हैं। देश में चार महीने से अधिक समय से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 106.31 रुपये प्रति लीटर और और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है।

खाद्य तेलों में मिला-जुला रुख, मीठे में रही तेजी

नई दिल्ली। विदेशी बाजारों की तेजी के बावजूद स्थानीय स्तर पर उठाव कमजोर रहने से बीते सप्ताह दिल्ली थोक जिस बाजार में खाद्य तेलों में मिला-जुला रुख रहा। वहीं त्योहारी मांग निकलने से मीठे में तेजी रही। तेल तिलहन में वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का नवंबर वायदा समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान 699 सिंगट की उबाल लेकर 3979 सिंगट प्रति टन पर पहुंच गया। इसी तरह अक्टूबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा सप्ताहांत पर 6.78 सेंट की तेजी लेकर 70.08 सेंट प्रति पाउंड हो गया। बीते सप्ताह सरसों तेल 74 रुपये और वनस्पति तेल 146

• स्थानीय स्तर पर कमजोर रहा उठाव

रुपये प्रति किंवटल सरसों तेल जबकि मूंगफली तेल 147 रुपये, सोया रिफाईंड 733 रुपये और पाम ऑयल के वायदा 586 रुपये प्रति किंवटल चढ़ गए। वहीं, सूरजमुखी तेल में कोई बदलाव नहीं हुआ। सप्ताहांत पर सरसों तेल 16849 रुपये प्रति किंवटल, मूंगफली तेल 19780 रुपये प्रति किंवटल, सूरजमुखी तेल 18388 रुपये प्रति किंवटल, सोया रिफाईंड 14652 रुपये प्रति किंवटल, पाम ऑयल 10842 रुपये प्रति किंवटल और वनस्पति तेल 13773 रुपये प्रति किंवटल पर रहा।

दीपावली पर्व देता है जागृति का संदेश



दीपावली का त्योहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली रोशनी का पर्व है और दीया प्रकाश का प्रतीक है और तमस को दूर करता है। यही दीया हमारे जीवन में रोशनी के अलावा हमारे लिए जीवन की सीख भी है, जीवन दिवाह का साथ भी है। दीया भले मिट्टी का हो, मगर वह हमारे जीने का आदर्श, दिशा, संस्कार, संकल्प और लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। दीपावली मनाने की सार्थकता तभी है, जब भीतर का अंधकार दूर हो। अंधकार जीवन की समस्या और प्रकाश उसका समाधान। जीवन जीने के लिए सहज प्रकाश चाहिए। दीपावली पर्व एक, पर्याय अनेक हैं। इस पर्व का प्रत्येक भारतीय उल्लास एवं उमंग से स्वागत करता है। दीपावली का न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस दीपावली, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का आसुरी शक्तियों पर विजय के बाद अयोध्या आगमन का ज्योति दिवस, दीपावली, तंत्रोपासना एवं शक्ति की आराधक मां काली की उपासना, धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना का पर्व दीपावली। यह पर्व हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की गौरव-गाथा है।

ओम प्रकाश त्रिपाठी - ब्यूरो चीफ, बांदा

धनतेरस, दीपावली और भाईदूज पर हार्दिक शुभकामनाएं

Supreme FURNITURE गुरुकृपा फर्नीचर हाउस
रामलीला रोड, बांदा (उ.प्र.) **Kurl-on**

• मोल्डेड फर्नीचर, सोफा सेट, अलमारी, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबिल, डायनिंग टेबिल, टी.वी. ट्रायी, रजाई-गद्दा, तकिया, बेडसीट, पर्दा क्लथा एवं सभी प्रकार के फर्नीचर के लिए अवश्य पधारें

सेवा के 119 वर्ष धनतेरस, दीपावली और भाईदूज पर हार्दिक शुभकामनाएं

गणेश प्रसाद गौंदीलाल सर्राफ चौक बाजार बांदा

फैंसी सोने व चांदी के जेवरों का विशाल संग्रह

भव्य शोरूम पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं

सबसे पुरानी ऊपर वाली दुकान प्रो. महेश अग्रवाल

अनुराग गोयल (मनु), अनुपम गोयल, अनुभव गोयल

आराधना इंडेन गैस

धनतेरस, दीपावली व भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं
• नया कनेक्शन तथा डीवीसी तत्काल उपलब्ध
• प्र धानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत महिलाएं एजेंसी में उपलब्ध लिस्ट में अपना नाम आधार कार्ड से चेक करवाकर योजना का लाभ उठाएं
• लीकेज होने पर या गैस की दुर्घटना आने पर एजेंसी में तत्काल सम्पर्क करें।
• होम डिलेवरी बुक कराएं और घर पर गैस सिलेंडर प्राप्त करें।

रामेंद्र शर्मा संचालक आराधना शर्मा

धनतेरस, दीपावली और भाईदूज पर हार्दिक शुभकामनाएं

रामभरोसे सत्यप्रकाश सर्राफ

चौक बाजार, बांदा
सोने एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता

सत्यप्रकाश सर्राफ ओमप्रकाश सर्राफ
जिलाध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल, बांदा राजेंद्र कुमार

जनपदवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

कल्लूराम जाटव
पूर्व चेयरमैन, नगर पालिका परिषद, अतर्रा-बांदा

जनपदवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

भगवानदीन साहू
वरिष्ठ सपा नेता/प्रबंधक, महात्मा गांधी विद्यालय अतर्रा

धनतेरस, दीपावली और भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं

मंजू चौरिहा
महामंत्री, भाजपा महिला मोर्चा अतर्रा

शुभ धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

गणेश प्रसाद गौंदी लाल सर्राफ एण्ड सन्स
चौक बाजार बांदा
गणेश प्रसाद गौंदी लाल एण्ड ज्वैलर्स,
चौक बाजार बांदा

माँ दुर्गा देवी फर्नीचर
इन्कम टैक्स कार्यालय के बगल में अलीगंज, बांदा - 210001
सुनील गोयल (शौहन भइया)

गौंदीलाल कीवा रामलीला रोड, बांदा
डायमंड, सोने एवं चांदी के आभूषणों का भव्य शोरूम
मनमोहन गोयल अविजित गोयल
सहयोगी प्रतिष्ठान गणेश प्रसाद गौंदीलाल संस सर्राफ

स्थापित वर्ष 1942

आदर्श बजरंग इंटर कालेज
बांदा

कक्षा एक से कक्षा आठ तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था
कक्षा एक से 12 तक योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य
विद्यालय में कला, विज्ञान एवं व्यवसायिक वर्ग में प्रवेश की सुविधा
आधुनिक कम्प्यूटर कक्षाएं एवं विशाल पुस्तकालय की सुविधा
छात्रोंके मानसिक एवं शारीरिक विकास हेतु विद्यालय में एनसीसी व रेडक्रास यूनिट की सुविधा

शुभ दिवाली
दिवाली की शुभकामनाएं

मेजर मिथलेश कुमार पाण्डेय - प्रधानाचार्य
प्रशांत कुमार शर्मा - प्रबंधक

Bhagwat Prasad Educational Group, Banda and Tathagat Gyansthal Group of School & Colleges Atarra, Banda wishes you a **Happy Diwali** OUR INSTITUTIONS

Registration Started for PRE-PRIMARY Session 2023-24 in all branches

SHIVSHARAN KUSHWAHA CHAIRMAN

District Volleyball Association Banda Presents **BHAGWAT PRASAD MEMORIAL DISTRICT VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP-2022 (MEN/WOMEN)** ON 28 OCTOBER 2022

भारतीय संस्कृति पर आधारित, अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र शिक्षण संस्थान
SHUBH SANSKRITI Kids Zone INDIRA NAGAR, BANDA Ph: 221693, 221695

धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं
Knowledge is the Real Power
SANT TULSI PUBLIC Sr. Sec. SCHOOL
Affiliated to CBSE, New Delhi
Indira Nagar, Banda Tel: 05192-221692 - 94, C.B. - Near M.D. Temple, Banda Ph: 224033

Happy Diwali शुभ दीपावली

HEALTH IS WEALTH
जीवन का आधार है बुद्धि पृथ्वी का शृंगार है वृक्ष प्राण वायु दे रहे हम को ऐसे परम उदार हैं वृक्ष

OUR MOTTO: TO SERVE THE NATION WITH QUALITY EDUCATION

राम राज्य की ओर श्री राम के तत्व की अन्तः जागृति - राम राज्य की ओर जाने का एकमात्र मार्ग



इस आधुनिक समय में जब भ्रम और अहंकार मन पर बादल छाए हैं, केवल श्री राम के सार को समझने और जागृत करने से ही हम भ्रम के समुद्र, भवसागर को पार कर सकते हैं। हालांकि, श्री राम के सार को पढ़ने या प्रवचन सुनने या किसी अन्य मानसिक गतिविधि के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। श्रीराम के किसी भी सिद्धांत की आंतरिक समझ भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा के जागरण से आती है।

कुंडलिनी नामक सूक्ष्म ऊर्जा का वेदों और उपनिषदों जैसे सभी शास्त्रों और पवित्र ग्रंथों में बहुत उल्लेख है। इसकी कार्यप्रणाली और लाभ श्री राम और उनके भाइयों को उनके गुरु वशिष्ठ द्वारा भी बताया गए थे। हमारा सूक्ष्म यंत्र तीन नाड़ियों और सात ऊर्जा केंद्रों (चक्रों) से मिलकर बना है। जब हमारे शरीर में कुंडलिनी जागृत होती है, तो हमारा शरीर प्रत्येक चक्र पर विभिन्न देवी-देवताओं का मंदिर बन जाता है, उनमें से एक श्रीराम हैं, जो हमारे हृदय के मंदिर में निवास करते हैं।

जैसे श्री हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर, अपने हृदय में निवास करने वाले श्री सीता राम के दर्शन करवाए थे, उसी प्रकार हृदय या अनाहत चक्र के दाहिनी ओर अपनी पत्नी श्री सीता के साथ निवास करते हैं। जब कुंडलिनी इस चक्र से गुजरती है तो श्रीराम जागृत हो जाते हैं और व्यक्ति स्वतः ही उनके गुणों को अपनाने लगता है। हमारे दैनिक जीवन में गुणों को अपनाना किसी भी मानसिक गतिविधि या बाहरी अनुशासन के माध्यम से नहीं होता है, लेकिन स्वतः होने वाली पाचन और दिल की धड़कन की तरह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अनायास ही होता है।

जिस प्रकार एक दीपक जो जला हुआ नहीं है, वह प्रकाश नहीं फैला सकता है; उसी प्रकार जब तक हमारे भीतर का प्रकाश अज्ञानता के काले बादलों से आच्छादित है, तब तक श्रीराम का चरित्र, जिसकी सम्पूर्ण भारतवर्ष में बहुत चर्चा, संवाद और पूजा होती है, कभी भी हमारे अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकता है। केवल बात करने से हम श्री राम की तरह नहीं बनेंगे, यह कुंडलिनी जागरण, जो एक जीवंत क्रिया है, के माध्यम से ही ऐसा संभव है। कुंडलिनी जागरण एक वास्तविकता है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अनुभव होती है जिसके परिणामस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तत्व से पोषित होता है।

लोग कह सकते हैं कि वे श्रीराम की बहुत पूजा करते हैं लेकिन जब तक कि हम भीतर से जुड़े न हों, वह पूजा केवल बाहरी है। असली दशहरा हमारे भीतर तब होता है, जब मानव व्यक्तित्व में अहंकार के रूप में बसा रावण कुंडलिनी की शीतल अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की असली जीत है, लेकिन यह हमारे हाथों में है। अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में ही हमको इस जागृति की इच्छा करनी है। इसे थोपा नहीं जा सकता। यह एक ऐसी खोज है जो शुद्ध इच्छा के साथ काम करती है और किसी चीज के साथ नहीं। इसलिए सहज योग में घटित होने वाली कुंडलिनी के सूक्ष्म और सहज जागरण के माध्यम से ही हम श्रीराम के तत्त्व को पूरी तरह से अपना सकते हैं और उन्हें अपने हृदय के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं।

“उनके आदर्शों को प्राप्त करने के बाद, हम दूसरे स्तर तक पहुंचते हैं क्योंकि वह मानव के आदर्श थे। यह महान चीज है कि भगवान हमारे आदर्श बनने के लिए मानव रूप में इस दुनिया में आए। उन्होंने धर्म को बनाए रखने की शक्ति दिखाने के लिए सभी कठिनाइयों को पार किया था। यही विश्व धर्म और योग की अवस्था है।”

परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी

कुंडलिनी और सूक्ष्म तंत्र


कुंडलिनी दिव्य शक्ति का एक रूप है जो में रीढ़ की हड्डी के आधार पर त्रिकोनास्थि में साढ़े तीन कुंडलों ले कर निवास करती है, जिसे मूलधार कहा जाता है। इस प्रकार यह कुंडलिनी ऊर्जा 'मातृ' ऊर्जा है जो मानव सूक्ष्म तंत्र के विभिन्न केंद्रों के माध्यम से उठती हुई, छह चक्रों को भेदती हुई, अंततः तालू भाग में सहस्रार का भेदन करती है। जब यह कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो आंतरिक आत्मा (आत्मा) का मिलन (योग) परमात्मा के साथ होता है और व्यक्ति चेतन के एक नए स्तर का अनुभव करता है। इसे आत्मसाक्षात्कार भी कहते हैं।

कहते हैं कि स्वयं को जाने बिना परमात्मा को नहीं जान सकते। आत्म-साक्षात्कार के बाद ही वास्तव में सभी धर्मों, संतों और श्रीराम सहित सभी अवतारों के सत्य को समझा जा सकता है। प्राचीन काल में इस ऊर्जा का जागरण बहुत कठिन था और एक गुरु केवल एक शिष्य को आत्म-साक्षात्कार दे सकता था। यह प्रक्रिया अत्यंत कठोर थी और इसमें गुरु के निर्देशों के तहत मन और शरीर की सख्त शुद्धि के लिए कठिन क्रियाओं और तपस्या का अनुसरण करना होता था। बर्फ से ढके हिमालय की ठंड में तपस्या से लेकर किष्किंधा के गहरे जंगलों में एकटक ध्यान करने के बाद भी, केवल और केवल, सबसे शुद्ध और समर्पित लोगों को अपना आत्मसाक्षात्कार मिल सकता था। नतीजतन, लाखों लोगों में से, मुश्किल से एक या दो अपने आत्मा को प्रबुद्ध कर सके।

कलियुग का सबसे बड़ा उपहार सहज योग का ज्ञान है, जो वर्ष 1970 में परम पावनी श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा स्थापित सामूहिक आत्म-साक्षात्कार की विधि है। प्यार से श्री माताजी के नाम से पुकारी जाने वाली, उन्होंने इच्छुक साधकों को, चाहे वे संख्या में कितने भी कम या ज्यादा क्यों न हों, आत्म-साक्षात्कार देने की एक विधि खोजी है। 'सहज' का अर्थ आसान, अपने आप घटित होने वाला है, इसलिए परमात्मा के साथ यह मिलन, 'योग', सहज योग में कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अत्यंत ही सहज हो जाता है।

शुद्ध इच्छा व्यक्त होने के बाद मां कुंडलिनी सभी चक्रों को पार करते हुए, सहस्रार चक्र खोलते हुए, अंततः आत्मा के प्रकाश से चित्त को प्रकाशित कर देती हैं। जैसे-जैसे प्रकाश प्राणी में प्रवेश करता है, अज्ञान का सारा अंधकार दूर हो जाता है और हमारे हाथों की हथेलियों पर और सिर के ऊपर ठंडी हवा की सूक्ष्म तरंगों के रूप में व्यक्त परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव होना शुरू हो जाता है।

मानव सूक्ष्म तंत्र



कुंडलिनी दिव्य शक्ति



यद्यपि मणि (कुंडलिनी) संसार में प्रकट होती है, लेकिन श्रीराम की कृपा के बिना कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे प्राप्त करना भी आसान (सहज) है लेकिन दुर्भाग्य से लोग आसान तरीके को अस्वीकार कर देते हैं।
श्रीरामचरितमानस

राम-राज्य: क्या यह एक काल्पनिक विश्वास या एक संभावित वास्तविकता?

हम रामराज्य की बात करते हैं लेकिन रामराज्य व्यवस्था के बाहरी शुद्धिकरण के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक शुद्धिकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब तक सभी राजनेता और साधारण जनता अपने भीतर की ईमानदारी को जागृत नहीं करते हैं, तब तक रामराज्य सिर्फ एक काल्पनिक समाज ही होगा, जो सैद्धांतिक रूप में अच्छा लगता है लेकिन व्यवहार में नहीं।

अगर रामराज्य आना है, तो राम को उन लोगों के दिलों में पैदा होना चाहिए जो प्रशासन के प्रबंधन में शीर्ष पर हैं।

~ परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ~

श्री राम सत्य, धर्म और मर्यादित व्यवहार के अपने सभी गुणों के साथ हमारे हृदय में निवास करते हैं। एक स्नेहमय पिता, पति और परोपकारी राजा के रूप में श्री राम का जीवन एक आदर्श नेता और मानव की परिकल्पना करता है।



काकभुसूँडी ने गरुड़ से कहा, "हे गरुड़, नागों के शत्रु, यह कलियुग पाप और झूठ का घर है। लेकिन कलियुग में सबसे बड़ा वरदान यह है कि मानव भव के जाल से सहजता से मुक्त हो जाता है।
(श्री रामचरितमानस)

सत्य के खोजियों को सहज परिवार की तरफ से इस पावन दीपावली पर्व की बधाई

